

प्राप्ति स्थान :—

१ फतेचन्द चौथमल करमचन्द बोथरा

नं० १३, नोरमल लोहिया घूट कलकत्ता ।

२ चौथमल परतापमल बोथरा

मु० राजलदेशर

( राजपुताना )

# विषयानुक्रमिका ।



संख्या	विषय	पृष्ठांक
१	पच्चीस बोल की चरचा	१
२	हुगडी लुंकेजीकी	२८
३	प्रदेशी राजारी संघ	२९
४	उपदेशिक ढाल	९१
५	माश्र्वचन्द्र सूरिकृत ढाल १ली	९८
	” २री	१००
६	वर्द्धमान जिन रतवन	१०१
७	ढाल उपदेशिक	१०४
८	पच्चीस बोल	१०६
९	पानाकी चरचा	१२३
१०	अल्पा बोहत	१६८
११	गतागत	१६९

१२	ढाल (गुलाबचन्द्री लुगियाकृत	१७८
१३	श्रीभिक्षुगणिराजके गुणाकी ढाल (जयाचार्यकृत	१७८
१४	" " "	१८०
१५	जंबूकुंवर की चौढालियो	१८१



# पच्चीस बोल की चरचा ।

१ पहले बोले गति चार ४—

- १ एक गति किण में पावे ? मनुष्य में पावे ।
- २ दोय गति किण में पावे ? श्रावक में मनुष्य, तिर्यंच ।
- ३ तीन गति किण में पावे ? नपुंसक विद में पावे, ( देवता टलयो ) ।
- ४ चार गति किण में पावे ? समचै जीव में ।

२ दूजे बोले जात पांच ५—

- १ एक जात किण में पावे ? एकेन्द्री में ।
- २ दोय जात किण में पावे ? बैक्रेय शरीर में-- एकेन्द्री, पंचेन्द्री ।
- ३ तीन जात किण में पावे ? तीन विकलेन्द्री में ।
- ४ चार जात किण में पावे ? त्रसकाय में (एकेन्द्री टली) ।
- ५ पांच जात किण में पावे ? समचै जीव में ।

३ तीजे बोले काय छव ६—

१ एक काय किण्ण में पावे ? साधु में-तसकाय ।

२ दोय काय किण्ण में पावे ? वैक्रोय शरीर में—  
वाउकाय, तसकाय ।

३ तीन काय किण्ण में पावे ? तेजूलेश्या में एकेन्द्री,  
पृथ्वी, पानी, बनास्पति में ।

४ चार काय किण्ण में पावे ? तेजूलेश्या में पावे  
( तेज, वाऊ टली ) ।

५ पांच काय किण्ण में पावे ? एकेन्द्री में पावे  
( तस टली ) ।

६ छव काय किण्ण में पावे ? समचै जीव में ।

४ चौथे बोले इन्द्री पांच ५—

१ एक इन्द्री किण्ण में पावे ? पृथ्वीकाय में-स्पर्श ।

२ दोय इन्द्री किण्ण में पावे ? लट, गिंडोला में—  
रस, स्पर्श ।

३ तीन इन्द्री किण्ण में पावे ? कौड़ी, मक्कोड़ा में—  
ब्राण, रस, स्पर्श ।

४ चार इन्द्री किण्ण में पावे ? माखी, मच्छर में  
( श्रोतेन्द्री टली ) ।

५ पांच इन्द्री किण्ण में पावे ? समचै जीव में ।

पांचवें बोले प्रयाय छव ६—

१ एक प्रयाय किण्ण में पावे ? शरीर प्रयायने अल-

धिया में आहार प्रयाय ।

२ दोय प्रयाय किण में पावे ? इन्द्री प्रयायरे अल-  
धिया में आहार, शरीर ।

३ तीन प्रयाय किण में पावे ? एकीन्द्री अपर्याप्ता में  
आहार, शरीर, इन्द्री ।

४ चार प्रयाय किण में पावे ? एकीन्द्री में ( मन,  
भाषा टली ) ।

५ पांच प्रयाय किण में पावे ? साखी में पावे (सब  
प्रयाय टली ) ।

६ छव प्रयाय किण में पावे ? समचै जीव में ।

६ छट्टे बोले प्राण दश १०—

१ एक प्राण किण में पावे ? चउदमें गुणस्थान में  
आयुष बल प्राण ।

२ दोय प्राण किण में पावे ? नाटे बहता जीव में-  
काया, आयुष ।

३ तीन प्राण किण में पावे ? एकीन्द्री अपर्याप्ता में-  
स्पर्श, काया, आयुष ।

४ चार प्राण किण में पावे ? एकीन्द्री में-स्पर्श,  
काया, श्वासोश्वास, आयुष ।

५ पांच प्राण किण में पावे ? तेरहवें गुणस्थान में  
( पांच इन्द्रियां का टल्या ) ।

६ छव प्राण किण में पावे ? वेदुन्द्री में-रस, रपर्श  
वचन, काया, प्र्वासोप्र्वास, आयुष ।

७ सात प्राण किण में पावे ? तेदुन्द्री में ( श्रोत,  
चक्षु, मन टल्या ) ।

८ आठ प्राण किण में पावे ? चौदुन्द्री में ( श्रोत,  
मन टल्या ) ।

९ नव प्राण किण में पावे ? असन्नी पंचेन्द्री में  
( मन टल्यो ) ।

१० दश प्राण किण में पावे ? समचै जीव में ।

७ सातवें बोले शरीर पांच ५—

१ एक शरीर किण में पावे ? एक शरीर किण  
ही में नही पावे ।

२ दोय शरीर किण में पावे ? बाटे वहता जीव  
में-तैजस, कार्मण ।

३ तीन शरीर किण में पावे ? पृथ्वीकाय में-औ-  
हारिक, तैजस, कार्मण ।

४ चार शरीर किण में पावे ? वायुकाय में ( आ-  
हारिक टलो ) ।

५ पांच शरीर किण में पावे ? समचै जीव में ।

८ आठवें बोले योग पन्द्रह १५—

१ एक योग किण में पावे ? दीसता धान के

दाणा में औदारिक ।

२ दोय योग किण में पावे ? उड़ती माखी में  
औदारिक, व्यवहार भाषा ।

३ तीन योग किण में पावे ? तेउकाय में औदा  
रिक, औदारिक मिश्र, कार्मण ।

४ चार योग किण में पावे ? बेइन्द्री में औदा  
रिक, औदारिक मिश्र, व्यवहार भाषा,  
कार्मण ।

५ पांच योग किण में पावे ? वाउकाय में औदा  
रिक, औदारिक मिश्र, बैक्रोय, बैक्रोय  
मिश्र, कार्मण ।

६ छव योग किण में पावे ? असन्नी में औदा-  
रिक, औदारिक मिश्र, बैक्रोय, बैक्रोय  
मिश्र, व्यवहार भाषा, कार्मण ।

७ सात योग किण में पावे ? केवलां में-सत्य-  
मन, व्यवहार मन, सत्यभाषा, व्यवहार  
भाषा, औदारिक मिश्र, कार्मण ।

८ आठ योग किण में पावे ? तीजे गुणस्थान में-  
नेसां ४ मन, ४ वचन की ।

९ नव योग किण में पावे ? परिहार विशुद्ध  
चारित में-४ मन का, ४ वचन का, १



श्रौद्धारिक ।

दश योग क्रिया में पावे ? तीजे गुणस्थान  
में-४ मन का, ४ वचन का, श्रौद्धारिक,  
बैक्रोय ।

११ दूरधारह योग क्रिया में पावे ? नारकी में-  
४ मन का, ४ वचन का, बैक्रोय, बैक्रोय  
मिश्र, कार्मण ।

१२ बारह योग क्रिया में पावे ? 'श्रावक में'  
( आहारिक, आहारिक मिश्र, कार्मण  
टल्ला ) ।

१३ तेरह योग क्रिया में पावे ? तिर्यंच में'  
( आहारिक, आहारिक मिश्र, टल्ला ) ।

१४ चउदह योग क्रिया में पावे ? मन योगी में'  
( कार्मण टल्ला ) ।

१५ पद्रह योग क्रिया में पावे ? समचैजीव में' ।

६ नवमें बोले उपयोग बारह १२—

१ एक उपयोग क्रिया में पावे ? बाटे बहता  
सिद्धां में-केवल ज्ञान ।

२ दोय उपयोग क्रिया में पावे । सिद्धां में'  
केवल ज्ञान, केवल दर्शन ।

३ तीन उपयोग क्रिया में पावे ? एकेन्द्री में'-

मति, श्रुति अज्ञान, अचक्षु दर्शन ।

४ चार उपयोग किण मे' पावे ? दशवे' गुण-  
स्थान मे'-४ ज्ञान ( केवल बरजीने )

५ पांच उपयोग किण मे' पावे ? वेङ्गुन्दी मे'-  
मति, श्रुति ज्ञान, मति, श्रुति अज्ञान,  
अचक्षु दर्शन ।

६ छव उपयोग किण मे' पावे ? मिल्थ्याती मे'-  
३ अज्ञान, ३ दर्शन ( केवल बरजीने ) ।

७ सात उपयोग किण मे' पावे ? कट्टे गुणस्थान  
मे'-केवल बरजीने ४ ज्ञान ने' ३ दर्शन ।

८ आठ उपयोग किण मे' पावे ? अचर्म मे'-३  
अज्ञान, ४ दर्शन, १ केवल ज्ञान ।

९ नव उपयोग किण मे' पावे ? देवता मे' ( मन-  
पर्यव, केवल ज्ञान, केवल दर्शन टलगा )

१० दश उपयोग, किण मे' पावे ? स्त्रीविद् मे'  
( केवल ज्ञान, केवल दर्शन टलगा ) ।

११ इग्यारह उपयोग किण मे' पावे ? अभाषक  
मे' ( मन पर्यव टलगे ) ।

१२ बारह उपयोग किण मे' पावे ? समचै जीव  
मे' ।

१, २, ३ कर्म किण में पावे ? किणही में नहीं पावे ।

४ चार कर्म किण में पावे ? केवलगां में-बेदनी, आयुष्य, नाम, गोत्र ।

५, ६ कर्म किण में पावे ? किणही में नहीं पावे ।

७ सात कर्म किण में पावे ? बारवे गुणस्थान में ( मोहनौ टल्लो ) ।

८ आठ कर्म किण में पावे ? समचै जीव में ।

११ इग्यारवे बोले गुणस्थान चवदह १४—

१ एक गुणस्थान किण में पावे ? एकेन्द्री में-पहलो ।

२ दोघ गुणस्थान किण में पावे ? बेइन्द्री में-पहलो, दूजी ।

३ तीन गुणस्थान किण में पावे ? अपर्याप्ता में-१, २, ४.

४ चार गुणस्थान किण में पावे ? देवता में-४, प्रथम ।

५ पांच गुणस्थान किण में पावे ? तिर्यंच सन्नी पंचेन्दो में ५ प्रथम ।

में ६ प्रथम ।

७ सात गुणस्थान किण में पावे ? तेजू लेश्या  
में सात प्रथम ।

८ आठ गुणस्थान किण में पावे ? अप्रमादी में  
आठ छेहला ।

९ नव गुणस्थान किण में पावे ? स्त्रीवेद में नव  
प्रथम ।

१० दश गुणस्थान किण में पावे ? लोभ कषाय  
में दश प्रथम ।

११ इग्यारह गुणस्थान किण में पावे ? चक्षु  
दर्शन में ( १, १३, १४ टला ) ।

१२ बारह गुणस्थान किण में पावे ? सम्यक्ती  
में ( १, ३ टला ) ।

१३ तेरह गुणस्थान किण में पावे ? संयोगी में  
( चवदसीं टला ) ।

१४ चवदह गुणस्थान किण में पावे ? समचै  
जीव में ।

१२ बारहवें बोलै पांच इन्द्रां की २३ विषय—

८ विषय एकेन्द्री में ८ स्पर्श इन्द्री की ।

१३ विषय बेइन्द्री में ५ रस, ८ स्पर्श इन्द्री  
की ।

- १५ विषय त्रैदंष्ट्री में २ घ्राण, ५ रस, ८ स्पर्श  
दंष्ट्री की ।
- २० विषय चौदंष्ट्री में ( श्रुत दंष्ट्री को तीन  
टली ) ।
- २३ विषय पंचदंष्ट्री में ।
- १३ तेरहवें बोले १० प्रकार का मिथ्यात्व किण में  
पावे मिथ्याती में पावे ।
- १४ चवद्वे बोले नवतत्व ना ११५ .भेद तिणमें जीव  
ना १४—
- १ एक भेद किण में पावे ? केवल ज्ञानी में  
पावे चवदमीं ।
  - २ दोय भेद किण में पावे ? देवतां में पावे १३  
१४.
  - ३ तीन भेद किण में पावे ? मनुष्य में पावे ११,  
१३, १४.
  - ४ चार भेद किण में पावे ? एकेदंष्ट्री में पावे-  
४ प्रथम ।
  - ५ पांच भेद किण में पावे ? भाषक में पावे-६,  
८, १०, १२, १४.
  - ६ छव भेद किणमें पावे ? सम्यक्ती में पावे-५,  
७, ९, ११, १३, १४.

७ सात भेद किण में पावे ? पर्याप्ता में पावे-  
७ पर्याप्ता का ।

८ आठ भेद किण में पावे ? अनाहारिक में  
पावे ७ पर्याप्ता १ चवदमीं ।

९ नव भेद किण में पावे ? औदारिक मिश्र में  
पावे ( २, ६, ८, १०, १२ टल्या ) ।

१० दश भेद किण में पावे ? तसकाय में पावे  
( एकेन्द्री का ४ टल्या ) ।

११ इग्यारह भेद किण में पावे ? कोरा तिर्यचरे  
भेदां में ( ११, १३, १४ टल्या ) ।

१२ बारह भेद किण में पावे ? असन्नी में पावे  
( १३, १४ टल्या ) ।

१३ तेरह भेद किण में पावे ? कोरा असंयती में  
पावे ( चवदमीं टल्यो ) ।

१४ चवदह भेद किण में पावे ? समचै जीव में

५ पन्द्रहवें बोले आत्मा आठ ८—

१ एक आत्मा किण में पावे ? द्रव्य जीव में  
पावे-द्रव्य आत्मा ।

२ दोय आत्मा किण में पावे ? उपशम भाव में  
पावे-दर्शन, चारित्र

३ तीन आत्मा किण में पावे ? उदय भाव में

पावे-कषाय, योग, दर्शन ।

४ चार आत्मा किण में पावे ? सिद्धां में पावे-  
द्रव्य, उपयोग, ज्ञान, दर्शन ।

५ पांच आत्मा किण में पावे ? निर्जरा में पावे-  
( द्रव्य, कषाय, चारित्र टली ) ।

६ छव आत्मा किण में पावे ? मित्याती में पावे  
( ज्ञान, चारित्र टली ) ।

७ सात आत्मा किण में पावे ? श्रावक में पावे-  
( चारित्र टली ) ।

८ आठ आत्मा किण में पावे ? साधु में पावे ।

१६ सोलहवें बोलि दण्डक चौबीस २४—

१ एक दण्डक किण में पावे ? सात नारकी में  
पावे-१ प्रथम ।

२ दोय दण्डक किण में पावे ? श्रावक में पावे-  
२०, २१ ।

३ तीन दण्डक किण में पावे ? शुक्त लेश्या में  
पावे-२०, २१, २४ ।

४ चार दण्डक किण में पावे ? तिर्यंच तसकाय  
में पावे -१७, १८, १९, २० ।

५ पांच दण्डक किण में पावे ? एकेन्द्री में  
पावे-१२, १३, १४, १५, १६ ।

- ६ ऋक् दशडक क्रिण में पावे ? त्रसकाय में नपुंसक में पावे-१, १७, १८, १९, २०, २१ ।
- ७ सात दशडक क्रिण में पावे ? कोरा अचक्षु दर्शन में पावे-१२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ ।
- ८ आठ दशडक क्रिण में पावे ? कोरा असन्नी में पावे-१२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९ ।
- ९ नव दशडक क्रिण में पावे ? तिर्यच में पावे-१२ से २० तांई ।
- १० दश दशडक क्रिण में पावे ? असन्नी में पावे-१२ से २१ तांई ।
- ११ इग्यारह दशडक क्रिण में पावे ? नपुंसक वेद में पावे ( १३ देवता का टल्ला ) ।
- १२ बारह दशडक क्रिण में पावे ? गर्भ बिना सन्नी कृष्ण लेश्या में पावे-१ से ११ तांई, १ बाईसमीं ।
- १३ तेरह दशडक क्रिण में पावे ? सर्व देवता में पावे-२ से ११ तांई, २२, २३, २४ ।
- १४ चवदह दशडक क्रिण में पावे ? कोरा सन्नी में पावे-१३ देवतां रा, १ नारकी रो ।
- १५ पन्द्रह दशडक क्रिण में पावे ? स्त्रीवेद में



पावे-१३ देवतांरा, २०, २१.

१६ सोलह दण्डक क्रिण में पावे ? सन्नो में पावे

( ५ स्यावर, ३ विकलेन्द्री टल्या )

१७ सतरह दण्डक क्रिण में पावे ? चक्षु दर्शन में

पावे ( ५ थावर, बेड्दन्द्री तेड्दन्द्री का टल्या )

१८ अट्टारह दण्डक क्रिण में पावे ? तेजू लेश्या

में पावे ( ३ विकलेन्द्री, नारका, तेउ, वाउ  
का टल्या ) ।

१९ उगणीस दण्डक क्रिण में पावे ? सम्यक्ती में

पावे ( ५ थावर का टल्या ) ।

२० बीस दण्डक क्रिण में पावे ? अट्ठाई द्वीप

बारे नीचा लोक में ( २१, २२, २३, २४  
टल्या ) ।

२१ द्वाकवीस दण्डक क्रिण में पावे ? नीचा लोक

में पावे ( २२, २३, २४ टल्या ) ।

२२ बार्दस दण्डक क्रिण में पावे ? कृष्ण लेश्या

में पावे ( २३, २४ टल्या ) ।

२३ तेईस दण्डक क्रिण में पावे ? एकेन्द्री की

आगत में ( नार की रो एक दण्डक पहलो  
टल्यो ) ।

२४ चौबीस दण्डक क्रिण में पावे ? अब्रतीमें पावे ।

१७ सतरहवें बोले लेश्या छव—

१ एक लेश्या किण मे' पावे ? तेरहवें गुणस्थान मे' पावे-१ शुक्ल ।

२ दोय लेश्या किण मे' पावे ? तिजी नारकी मे' पावे-कापोत, नील ।

३ तीन लेश्या किण मे' पावे ? तेउकाय मे' पावे-कृष्ण, नील, कापोत ।

४ चार लेश्या किण मे' पावे ? पृथ्वी काय मे' पावे ( पद्म, शुक्ल टली ) ।

५ पांच लेश्या किण मे' पावे ? सन्यासी री गत देवता मे' पावे ( शुक्ल टली ) ।

६ छव लेश्या किण मे' पावे ? समचै जीव मे' ।

१८ अठारहवें बोले दृष्टि तीन ३—

१ एक दृष्टि किण मे' पावे ? चौथे गुणस्थान मे' पावे सम्यक् दृष्टि ।

२ दोय दृष्टि किण मे' पावे ? वेद्वन्त्री मे' पावे-सम्यक्, मिथ्या ।

३ तीन दृष्टि किण मे' पावे ? समचै जीव मे' ।

१९ उगणीसवें बोले ध्यान चार ।

१ एक ध्यान किण मे' पावे ? केवलारां मे' पावे-१ शुक्ल ।

२ द्दोय ध्यान क्रिण मे' पावे ? सातवे' गुणस्थान  
से' पावे-धर्म, शुक्त ।

३ तीन ध्यान क्रिण मे' पावे ? श्रावक मे' पावे  
( शुक्त टलां ) ।

४ चार ध्यान क्रिण मे' पावे ? समचै जीव मे' ।

२० बीसवे' बोले ६ द्रव्य रा ३० बोल ।

१ एक द्रव्य अलोक मे' पावे-आकाशास्तिकाय ।

६ छव द्रव्य लोक मे' पावे ।

२१ द्दुकवीसवे' बोले रास द्दोय २—

१ एक रास क्रिण मे' पावे ? जीव मे पावे-१  
जीव रास ।

२ दोह रास क्रिण मे' पावे ? लोक मे' पावे ।

२२ वार्डसवे' बोले श्रावकरा १२ व्रत—ते श्रावक मे'  
पावे ।

२३ तेर्डसवे' बोले साधुजी ना पांच महाव्रत—साधु मे'  
पावे ।

२४ चौवीसवे' बोले भांगा ४६—श्रावक मे' पावे ।

२५ पच्चीसवे' बोले चारित पांच ५—

१ एक चारित क्रिण मे' पावे ? केवलपां मे'  
पावे-यथाख्यात ।

२ द्दोय चारित क्रिण मे' पावे ? पुलाकनियंठा

में पावे-सामायक, छेदोस्थापनीय ।

३ तीन चारित्र्य कृष्ण में पावे ? छट्टे गुणस्थान  
में पावे-सामायक, छेदोस्थापनीय, परिहार  
विशुद्ध ।

४ चार चारित्र्य कृष्ण में पावे ? लोभकषाय में  
पावे ( १ यथाख्यात टल्लो ) ।

५ पांच चारित्र्य कृष्ण में पावे ? साधु में  
पावे ।



## अथ हुण्डी लूँकारि लिख्यते ।

शहर जेताण मध्ये लूँका गुजराती सरूपचन्दजी रामचन्द्रजी रा उपासरा थी हुण्डी आशी तिण में शुद्ध प्ररूपणा जाणी ने उणरे देखा देख लिखी छै ।

( १ ) तीन ही काल का भाव केवल ज्ञानी देख्या कोई जीवने नव तत्वरे जाणपणा बिना संसार समुद्र सं तिरतो देख्यो नहीं । साख सूत्र प्रथम सृय-गडांग, अध्ययन १२, गाथा १६ ।

( २ ) जीव ने अजीव रास दो कही तीसरी रास कहवे तिणने त्रिरासियो निन्हव कहीजे । सा० सू० उववाडे, प्र० १६,

( ३ ) जीव अजीव चम थावर जाणे नहीं तिणरा प्रचक्षणा दुपचक्षणा कछ्या । सा० सू० भगवती, श० ७, उ० २,

( ४ ) जीव अजीव ने जाणे नहीं जीव अजीव दोनां ने जाणे नहीं तिणने संजमरी ओलखना नहीं । सा० सू० दशवैकालिक, अ० ४, गा० १२,

( ५ ) सम्यक्त बिना चारित नही समयक्त बिना व्रत नहीं । सा० सू० उत्तराध्ययन, अ० २८, गा० २६,

( ६ ) ज्ञान बिना दया नहीं दया चारित्र एक ही कछा सा० सू० दशवैकालिक, अ० ४, गा० १०.

( ७ ) असंजती अब्रती अपच्चखाणीने सूजतो असूजतो फासु अफासु देवे तिणने एकान्त पाप कछो निर्जरा नथी । सा० सू० भगवती, श० ८, उ० ६.

( ८ ) साश्वता असाश्वता री खबर नहीं तिण ने बोध रहित कछो । सा० सू० प्र० सूयगड़ांग अ० १, उ० २, गा० ४.

( ९ ) साधु थोड़ा असाधु घणा । सा० सू० दशवैकालिक, अ० ७, गा० ४८.

( १० ) साधुरे सर्व थकौ प्राणातिपात का त्याग कै तिणरे अपच्चक्वाणी परिग्रह री क्रिया नहीं । सा० सू० पन्नवणा, पद २२.

( ११ ) साधु रो आहार असावद्य कछो साधु रो आहार ब्रत में कछा साधु पाप रहित कै । सा० सू० दशवैकालिक, अ० ५, उ० १, गा० ६२.

( १२ ) भगवान् श्री महावीर स्वामी ठंडो आहार घणा दिना रो नीपनो लियो । सा० सू० प्र० आचारांग, अ० ८, उ० ४, गा० १३.

( १३ ) केवल ज्ञानी परूप्यां बिना आप आपरी परूपणा करे जिक्के ने किंचित मात्र जाणपणो नहीं ।

सा० सू० प्र० सूयगडांग, अ० १, उ० २ गा० १४.

( १४ ) श्रावक ने केवल ज्ञानी प्रहृष्यां विना दूसरा धर्म मानणो नहीं । सा० सू० उववाद्दे, प्रश्न २०.

( १५ ) समयक्ती ने धर्म केवल ज्ञानी प्रहृष्यो मानणो दूसरो मानणो नहीं । सा० सू० उत्तराध्ययन, अ० २८, गा० ३१.

( १६ ) केवल ज्ञानी री पाखंडियारी बचनां री खबर नहीं । जिकारे घणो अकाममरण बालमरण होसी । सा० सू० उत्तराध्ययन, अ० ३६, गा० २६५.

( १७ ) पर वचन सूँडे अर्थ परमार्थ शेष याकता रक्षा सोई सर्व अनर्थ । सा० सू० उववाद्दे, प्रश्न २०.

( १८ ) केवलगां री आचार सोई छद्मस्थ री आचार, केवलगां री अनाचार सोई छद्मस्थ री अनाचार । सा० सू० प्र० आचारांग, अ० २, उ० ६.

( १९ ) वत्तवया दीय कही—१ स्वसमय वत्तवय, २ परसमय वत्तवय । स्वसमय वत्तवय की साधु तो आज्ञा देवे । परसमय वत्तवय में सात औगुण—अनर्थ १, अहित २, असंजम भाव ३, अक्रिया ४, उनमारग ५, उपयोग रहित ६, मिथ्यात ७ । सा० सू० अनुयोगहार, ७ नय पृगी हुई जठे.

( २० ) केवली प्रहृषियो एकन्त धर्म कही । सा०

सू० प्र० सूयगङ्गांग, अ० ६, गा० ७.

( २१ ) केवली प्ररूपियो धर्म यथार्थ सबल शुद्ध  
भाया कपटाई रहित। सा० सू० प्र० सूयगङ्गांग,  
आ० ६ गा० १.

( २२ ) जिन करणी में किंचित माल हिंसा नहीं  
ते करणी ज्ञान री सार कही। सा० सू० प्र० सूयग-  
ङ्गांग, अ० १, उ० ४, गा० १०.

( २३ ) केवल ज्ञानी भाष्यो धर्म सन्देह रहित  
कहो। सा० सू० प्र० सूयङ्गांग, अ० १०, गा० ३.

( २४ ) आपरो हान्दो रुंड़े ते धर्म। सा० सू० उत्त-  
राध्ययन, अ० ४, गाथा ८.

( २५ ) केवली प्ररूपियो धर्म अहिंसा संजसोत्तवो ।  
सा० सू० दशवैकालिक, अ० १, गा० १,

( २६ ) अपकृन्दारी प्रशंसा करे करावे करता ने  
भलो जाणे तो प्रायश्चित। सा० सू० निशीथ, उ० ११  
वो० ८१.

( २७ ) बालमरण री प्रशंसा करे करावे करताने  
भलो जाणे तो प्रायश्चित। सा० सू० निशीथ उ० ११,  
वो० ६१.

( २८ ) गृहस्थी ने असंजती ने असाण, पाण,  
खादस. स्वादस, वत्य, पडिगह, कम्पल, पायपुच्छण,



८ बोल देवे, दिवावे, देवतां ने भलो जाणे तिगणे  
वेसासी प्रायश्चित्त आवे । सा० सू० निशीथ, उ० १५  
बो० ७४—७५.

( २६ ) वोसराया ने अणवोसराया कहे अणवां-  
सराया ने वोसराया कहे तिगणे प्रायश्चित्त । सा० सू०  
निशीथ, उ० १६, बो० १३-१४.

( ३० ) सरीषा साधु होकर के सरीषा साधुवो  
ने थानक देवे नहीं दिरावे नहीं देवतां ने भलो जाणे  
नहीं तो प्रायश्चित्त । सा० सू० निशीथ, उ० १७, बो०  
२२३.

( ३१ ) गृहस्थ ने व्यावच करे करावे करतो ने  
भलो जाणे तो प्रायश्चित्त । सा० सू० निशीथ, उ० ११,  
बो० ११.

( ३२ ) सरीषी साध्वियां ने थानक देवे नहीं  
दिरावे नहीं देवतां ने भलो जाने नहीं तो प्रायश्चित्त ।  
सा० सू० निशीथ, उ० १७, बो० २२४.

( ३३ ) साधु वसे तिगणे थानक में न्याति, अन्य  
न्याति, आवक अथवा आविका आधी रात वा सारी  
रात राखे तो प्रायश्चित्त । सा० सू० निशीथ, उ० ८  
बो० १२.

( ३४ ) वसे तिगणे तीन करण, तीन जोग

नहीं निषेधे तो प्रायश्चित । सा० सू० निशीथ, उ० द्  
बो० १३.

( ३५ ) गृहस्थी प्रते दान देवे तिणारी प्रशंसा करे  
तो छव काया रो हिंसा लागे । सा० सू० सुयगडांग,  
अ० ११, गा० २०.

( ३६ ) विप्रय सहित धर्म प्ररूपे ते बुरो ज्यं ताल-  
पुट विष खायां बुरो । सा० सू० उत्तराध्ययन, अ०  
२०, गा० ४४.

( ३७ ) भाषा दोय कहौ—१ आराधक भाषा,  
२ विराधक भाषा । विराधक भाषा में ४ औगुण—  
असंजम, अब्रत, अपाडियार्डे, अपच्चक्रिया पाप कर्म ।  
सा० सू० पन्नवणा, पद ११.

( ३८ ) मिश्र भाषा बोल्यां महा मोहणी कर्म  
बंधे । सा० सू० दशाश्रुत सकंध, अ० ६, बो० ६.

( ३९ ) मिश्र भाषा छोडे कुडावे तिणने समा-  
धि कहौ । सा० सू० प्र० सूयगडांग, अ० १०, गा० १५.

( ४० ) मिश्र भाषा सर्व थकी छोडणी कहौ ।  
सा० सू० दशवैकालिक अ० ७, गा० १.

( ४१ ) मिश्र भाषारे धणीरी वचन अवक्तव्य  
अणविमासियेरो बोलणहार कह्यो, अज्ञानवादी कह्यो,  
पूछ्यां रो जबाब देवा असमर्थ कह्यो मिश्र धर्म प्ररूप-

शेवाली आपरो मत थापवा भणी कल बल मांडी छै ।

सा० सू० प्र० सुयगडांग, अ० १२, गा० ५.

( ४२ ) साधुरी आज्ञा बारे धर्म अहे तिणने काम भोग में खूतो कह्यो, हिंसा रो कारयेवाली कह्यो ।

सा० सू० प्र० आचारांग, अ० ६, उ० ४.

( ४३ ) साधु री आज्ञा बारे धर्म कहसी तिणरा तप ने नियम भृष्ट कह्या, ने लूख कह्या । सा० सू० प्र० आचारांग, अ० २, उ० २.

( ४४ ) आज्ञा बारे धर्म कहे आज्ञा मांहि पाप कहे, ए दो बोल कोई जीव ने होजो सती । सा० सू० प्र० आचारांग, अ० ५, उ० ६.

( ४५ ) परबचन सुं बिरुद्ध प्ररूपयेवाली ने भगवान् निन्हव कह्यो, निन्हवारी आचार छे । सा० सू० उववाई, प्र० १६.

( ४६ ) राग द्वेष ने पाप कह्यो । सा० सू० उत्तराध्ययन, अ० ३१, गा० ३.

( ४७ ) कोई कोई इम कहे साता दिवां साता होवे तिवारे श्री भगवान कव बोल प्ररूप्या—१ आरज मार्ग सुं बेगलो, २ समाधि मार्ग सूं न्यारो, ३ जैन धर्म रो हेलणा करणहार कह्यो, ४ थोड़ा सुखारे कारये घणा सुखां रो हारणहार कह्यो, ५ असोच री

कारण कह्यो, ६ लोहबाणियां नी परे घणो भुरसौ ।  
सा० सू० प्र० सुयगडांग, अ० ३, उ० ४, गा० ६-७.

( ४८ ) साधु होकर की अणुकमपारे वास्ते तस-  
जीव ने बांधे बंधावे बांधतां ने भलो जाये, छोडे कुडावे  
छोडतां ने भलो जाये तिणने चोमासी प्रायश्चित आवे  
सा० सू० निशीथ, उ० १२, बो० १--२.

( ४९ ) सोच रा सागं जाये नहीं तिणने श्री-  
भगवान् री आज्ञा रो लाभ नहीं । सा० सू० प्र० आचा-  
रांग, अ० ४, उ० ४.

( ५० ) ब्राह्मणां नें जिमायां तमतमा पहुंचे ।  
सा० सू० उत्तराध्ययन, अ० १४, गा० १२.

( ५१ ) साधुरे अठारह पाप रा सर्व थकी त्याग  
छै, देश थकी नहीं । सा० सू० उववार्द्ध, प्र० २१.

( ५२ ) साधु रा भण्ड उपकरण परिग्रह मे कहा  
नहीं, मुरच्छ राख ता परिग्रह लागे । सा० सू० दश-  
वैकालिक, अ० ६, गा० २१.

( ५३ ) साधुरे नवकाटि पचक्वण कह्यो । सा०  
सू० दशवैकालिक, अ० ४.

( ५४ ) आचारजां री आज्ञा बिना आहार करे  
करतां ने भलो जाये तो प्रायश्चित । सा० सू० निशीथ  
उ० ४, बो० २२.

( ५५ ) पुण्य पापसं जीवने पचतो दीठो ।  
सा० सू० उत्तराध्ययन, अ० १०, गा० १५.

( ५६ ) पुण्ये पापने खपावणो कह्यो । सा० सू०  
उत्तराध्ययन, अ० २१, गा० छेहली.

( ५७ ) उसन्ना पासत्थो ढीला ने बंदना प्रशंसा  
करे करावे करतां ने भलो जाणे तो चौमासी प्राय-  
श्चित । सा० सू० निशीथ, उ० १३, बो० ४२-४३-  
४४-४५.

( ५८ ) साधु गृहस्थी को औषधि करे करावे  
करतां ने भलो जाणे तो प्रायश्चित । सा० सू० निशीथ,  
उ० १२, बो० १७.

( ५९ ) सामायक दोय कह्यो—१ आगार सामा-  
यक, २ अणागार सामायक । सा० सू० ठाणांग, ठा०  
२, उ० ३, बो० ६.

( ६० ) चारित्र दोय कह्यो—१ आगार चारित्र,  
२ अणागार चारित्र । सा० सू० ठाणांग, ठा० २,  
उ० १, बो० २५.

( ६१ ) धर्म दोय कह्यो—१ सूत्र धर्म, २ चा-  
रित्र धर्म । सा० सू० ठाणांग, ठा० २, उ० १, बो०  
२५.

( ६२ ) कर्म खपावा री करणी दीय कही—१ संयम, २ तप । सा० सू० उत्तराध्ययन, अ० २८, गा० ३६.

( ६३ ) मार्ग दीय प्ररूप्या—१ भगवान री प्ररूप्यो मार्ग, २ पाखण्डियांरो मार्ग । सा० सू० उत्तराध्ययन, अ० २३, गा० ६३.

( ६४ ) संवर गुण ने आस्रव गुण जुदा जुदा कहा छै । सा० सू० प्र० आचारांग, अ० ४, उ० २.

( ६५ ) करणी ४ कही—१ इहलोक ने हित, २ परलोक ने हित, ३ कीर्ति श्लाघा हित, ४ निर्जरा ने हित । सा० सू० दशवैकालिक, अ० ६, उ० ४.


( ६६ ) प्रज्ञा दीय कही—१ ज्ञान प्रज्ञा, २ पचकखाण प्रज्ञा । सा० सू० प्र० आचारांग, अ० २, उ० ४.

( ६७ ) धर्म दीय कहा—१ आगार धर्म, २ आणोगार धर्म । सा० सू० उववाइ, भगवान ने कोणिक राजा वन्दना करने गया जठे.

६८. ध्यान चार कहा—१ आर्त ध्यान, २ रुद्र ध्यान, ३ धर्म ध्यान, ४ शुक्त ध्यान । सा० सू० उववाइ तथा भगवती.

६६ साधु असंजती ने जभो रह, वैठ, सो, आव,  
जव, काम कर । ए ६ बोल साधु ने कहणा नहीं ।  
सा० सू० दशवैकालिक, अ० ७, गा० ४७.

---



# श्रीं प्रदेशी राजा री संघ ।

## ॥ दोहा ॥

संघ प्रदेशीराय नी, राय प्रसेखी मांय ।

तिण अनुसारि हूं, कहूं सांभलज्यो चित लाय ॥१॥

अमल कम्पा नगरी तिहां, अंबशाल ना बाग ।

तिहां श्री वीर समोसखा भव जीवांरि भाग ॥२॥

खवर हुद्र नगरी मांहि लोक बांढण ने जाय ।

सेन राजा पिण आवियो सेव करे चित लाय ॥३॥

चारु दिश रा देवता आया वन्दण काज ।

लुल लुल ने लटका करे धन्य दिहाडो आज ॥४॥

## ॥ ढाल १ ली ॥

सूरियाभ देव तिण अवसरे बेठो सूरियाभ विमा-  
णरे । प्रथम देवलोक सुधर्मी सभा सह परवार संग  
जाणरे ॥ पून्य तणा फल एहवा ॥ १ ॥ सामानिक  
चारु हजार रे । अग्रमहेषी चारे भली । ते पिण  
सहित परिवार रे ॥ २ ॥ परषधा तीन साते अणी ।  
आतम रत्तक रा देवरे । सोले ही सहस्र सूरियाभ नी ।



अहो निशि करत है सेवरे ॥ ३ ॥ बले अनेरा देवता ।  
 वैसे सूरियाभ ने पास रे । तेहनें संग परवस्यो थकी ।  
 लौला करे मन हुलास रे ॥ पु० ॥ ४ ॥ तिण विरियां  
 सूरियाभ तो । दीधो अवध गिनान रे ॥ बाग में वीर  
 ने देख नें । पामियो हर्ष अशमान रे ॥ पु० ॥ ५ ॥  
 उठियो बेग सतावसूं । बले उत्तवासण कीधो तेहरे ॥  
 सात आठ पग सहामो जाय नें । नमोत्युगं करी धर  
 नेहरे ॥ पु० ॥ ६ ॥ एक कियो रे सिद्धां भणी । दूसरो  
 वीर नें कीधरे ॥ देखो हो आप उहां थकी । एम  
 बोल्हो मन लहलीन रे ॥ पु० ॥ ७ ॥ बले सूरियाभ  
 मन चिन्तवे । नाम सुण्या हुलसाय रे ॥ अरिहन्त नें  
 भगवन्त नें । दीठांङ्ग दुःख टल जाय रे ॥ पु० ॥ ८ ॥  
 बाणी सुणी बनणा कियां । पर भव में सुख होय रे ॥  
 दुःख दालिद्र देखै नहीं । शंका नहीं तिल कोय रे ॥  
 पु० ॥ ९ ॥ एहवो करी विचारणा । सेवग देवने तेडरे ।  
 वेग जा जम्बूरे द्वीप में । वीर जिनेश्वर कीडरे ॥ पु०  
 ॥ १० ॥ भगवन्त नें वन्दणा करे । दे सत्कार सन्मान  
 रे ॥ मांडलो निपट चोखो करे । एक जोजन परि-  
 माणरे ॥ पु० ॥ ११ ॥ अगर तगर गंध वटी । फेर  
 सुगन्ध कर चंपरे । पोह पहलुग रिषेवने । आगन्या  
 पाछी संपरे ॥ पु० ॥ १२ ॥ ए सूरियाभ कच्चां थकां ।

पामीयो हर्ष उल्लास रे ॥ आयो कै बेग सताव सूं ।  
 वीर जिणेप्रवर पासरे ॥ पु० ॥ १३ ॥ कहै हूं सेवक  
 सूरियाभ नो । बन्दणा करूं बारम्बार रे ॥ वीर जिणे-  
 प्रवर द्रम कहै । जूनो कै तुम आचार रे ॥ पु० ॥ १४ ॥  
 द्रम सुणी सुर हर्षीं घणो । उठियो धर्म नें प्रीत रे ॥  
 मांडलो निपट चोखो करगो कही सु करी सर्व रीतरे  
 पु० ॥ १५ ॥ सूरिमाभ देव कने आय नें । दीधी सर्व  
 जताय रे ॥ सूरियाभ सुण हर्षित धयो । बोलियो ए-  
 हवी बाय रे ॥ पु० ॥ ६ ॥ सुधर्मी सभा मभे जाय नें ।  
 सुखर घण्टा बजाय रे ॥ मोटे मोटे शब्दे करी । देव  
 भेला हुवा आयरे ॥ पु० ॥ १७ ॥

## ॥ दोहा ॥

बचन सुणी सूरियाभनो । सेवक हर्षित धाय ॥  
 सुधर्मी सभा मभे । घण्टा दीवी बजाय ॥ १ ॥  
 सूरियाभ देव वीर वान्दवा । जासी धर्म नें हेज ॥  
 देव देवी बेगा आवज्यो । विलम्ब न कीज्यो जेज ॥ २ ॥  
 हंता देव प्रमाद में । विषय रोग में ताम ॥  
 घण्टा शब्द सुण्या पक्यौ । सह हुवा सावधान ॥ ३ ॥  
 मांहीं मांही द्रसड़ी कहै । बान्दण नें जगनाथ ॥  
 आपणा धणी पधारियां । आपां हुम्यां साथ ॥ ४ ॥

## ॥ ढाल २ जी बालुडा नी देशी ॥

एकाएकी देव बन्दणा कारणे । केई पूजा सत्का-  
 रीनेए । केई अरथ ने हेते प्रश्न पूकस्यांए । अर्थ तणो निह-  
 चो करीए । १ । केई किलोल भूत केईक जिन तणाए ।  
 वचन अपूरव सांभल्या हे । २ । एकाएकी बयण सुर सूरि-  
 याभना आघा लड्डु सके नहीं ए । ३ । मांहिरा बयण ।  
 केई मानत केई भगवन्त री भक्तनेए । ४ । केई सूरियाभ  
 निमित्त केईक द्रम कहै जीवित व्यवहार आपणोए ।  
 ॥ ५ ॥ अपनी ऋद्ध समेत सूरियाभेए । बेगा आवनें  
 भेला हुवाए ॥ ६ ॥ देव देवी आया देख सूरियाभ  
 हर्षियो । सेवक नें बोलावियोए ॥ ७ ॥ हुकम करे छै  
 एम जाण विमाण नें बेग सताबी करो ए ॥ ८ ॥ अनेक  
 थंभ लगाय शोभै पूतला रूप विविध प्रकार का ए ॥ ९ ॥  
 घण्टी धरटानी सेण मणिरत्ना तणो जाल्यां जोर विरा-  
 जतौ ए ॥ १० ॥ लख जोजन परिमाण चालै उंतावलो  
 बेग सताबी करो ए ॥ ११ ॥ अधिकी जल्लुस बणाय  
 म्हारी आगन्या पाखी बेगी सोंपवो ए ॥ १२ ॥ अभोगि  
 ए देव सुण हर्षित हुवो प्रमाण करी सर्व अगन्याए ॥  
 १३ ॥ देव शक्त तत्काल रुड़ी रीत सूं कियो विमाण ज  
 शोभतो ए ॥ १४ ॥ विमाण पाबाडिया तीन उत्तर

बारणा पूरब उत्तर दक्षिण दिशा ए ॥ १५ ॥ बज्र रत्न  
 में नौव जंडी मूलसूं रिष्ट रत्न मांहिं जड़ीए ॥ १६ ॥  
 बिंटली रत्न जड़ी सांध रूप सोवन तणां पावडिया नां  
 पाटिया ए . ॥ १७ ॥ बज्र रत्न जड़ी सांध पावडियां  
 तणी मांहोंमांहिं खिसै नहीं है ॥ १८ ॥ मोटो तोरण  
 एक देव वेगरो पावडिया नें आगले ए ॥ १९ ॥ रूप  
 विविध प्रकार तोरण उपरै अचरिजकारी अति घणाए  
 ॥ २० ॥ सूरज किरण सम तेज तोरण दोपतो देखंता  
 लोयण ठरै ए ॥ २१ ॥ आठ आठ मंगलिक तोरण  
 ऊपरै शोभमान ज्ञानी कछा ए ॥ २२ ॥

## ॥ दोहा ॥

अभियोगी देवता, जाण विमाणरे मांय ।  
 पोष्या मंडप घर कछा, अनेक थंभ लगाय ॥१॥  
 शोभै तोरण पूतला, विविध भारी रूप ।  
 पेष्ठा मंडप घर तणे, अति विस्तार अनूप ॥२॥  
 खसबोई कै अति घणी, बाजारो विस्तार ।  
 राग कृतीस आलापता, पामै सुख अपार ॥३॥

## ॥ ढाल ३ जी ॥

सुणज्योरे नर वारीवा मतरा चोरे रमणी रस रंगके चेतोरे चेतो  
प्राणिया ( पदेशी )

पेथ्या मंडप घर आंगणो रे । वैकारो देव अनूप ।  
सुंवालो पंच बरणो रे । लता चित्राम सरूपरे ॥ पुन्य  
तणा फल जो ज्यो ॥ १ ॥ भोगि भागे मधि वैक्रव्यो  
रे मोटो चौतरो एक । च्याहू पासा बज्र रत्न में ।  
दीठाई हर्ष विशेष रे ॥ पु० ॥ २ ॥ मणि पीठका उपरे  
रे । कियो सिंहासन एक ॥ विविध प्रकार का रूप  
में ओतो देखवा जोग विशेष रे ॥ ५ ॥ ३ ॥ रत्न  
सोना में चाकलो । हेठलो तणे रूपा में भाग ॥ च्याहू  
पाया सोना तथा । मस्तक मणि लाग रे ॥ पु० ॥ ४ ॥  
ईस उपला गातर रे जं वू सोना में मणि । बज्र रत्न  
सोना में जड़ी ॥ मणि रतनां नांवाहे वाण रे ॥ पु० ॥  
५ ॥ रूप छै विविध प्रकार कारे । रचिया रूडी रीत-  
के । पान पीठ मणि स्थन में । जाव विमाण ही रीत रे ।  
॥ पु० ॥ ६ ॥ आठ जोजन लांबो कछो रे । चौडो  
ही इतरो जाण रे ॥ च्यार जोजन ऊंचो कछो रे ।  
सर्व रतनां मांहे बखाण रे ॥ पु० ॥ ७ ॥ समुद्रा नवां  
शोभता रे । ठांको सिंहासन एक ॥ राता वस्त्र सुं  
मौटियोरे । सुंवालो साखण जिस ॥ पु० ॥ ८ ॥ तिण

सिंहासण उपरैरे । वैक्रुव्यो चंद्रवो एक ॥ विचे दख्ख  
 अति दीप तो । धोला रतनां मांहि विशेष रे ॥ पु० ॥  
 ९ ॥ रतन चंद्रवा विचमें रे । वज्र चांकुडो जाण ॥  
 तिण में सोती वैक्रुव्यो । ओतो मोटा कुम्भ समान रे ॥  
 ॥ पु० ॥ १० ॥ च्यार सोती तिण्णी पाखती । षड्  
 कुम्भ समान । लहिणे मोल्यांरो कुम्भको । सोवन पन-  
 डां जाण रे ॥ पु० ॥ ११ ॥ चार अठारै नोसरण रे ।  
 त्यां करी शोभे सार । चिहुं दिशि सोती वेगला । उठै  
 शब्द तणी क्कण कार ॥ पु० ॥ १२ ॥ ओत्यां रो शब्द  
 सुहामणो । तन मन नें सुख थाय । शब्द दशो दिशि  
 प्रगटे । एहवी माल रही लहकाय रे ॥ पु० ॥ १३ ॥  
 सामानिक देवतां तणारे भद्रासण च्यार हजार रे ।  
 ईशाण बायव कूणमें । एतो शोभ रच्चा श्रीकार रे ॥ पु०  
 ॥ १४ ॥ च्यारज देवी लूलगी रे । त्यांरा सिंहासण  
 च्यार ॥ पूर्वं दिश में वैक्रुव्या । वे तो दोठांइ हर्ष  
 चमार रे ॥ पु० ॥ १५ ॥ अभिंतर प्रषधा तणा । भद्रा-  
 सण आठ हजार रे । सिंहासण रे पाखती । क्किया  
 अग्नि कूणारे सांयरे ॥ पु० ॥ १६ ॥ दश हजार भद्र-  
 सणा रे । मध्य प्रषधा राजाण रे ॥ दक्षिण दिशि में  
 वैक्रुव्या । सेवक चतुर सुजाण रे ॥ पु० ॥ १७ ॥ निरत  
 कूणमें चारली तणा रे । भद्रासणा चार हजार रे ।

पश्चिम दिश सात अणका ताणा । विक्रुव्या साते ही  
 सार रे ॥ पु० ॥ १८ ॥ आतम रिख रा देवता रे ।  
 भद्रासण सोलि हजार रे । सिंहासण रे चिहुं दिशे ।  
 रचिया रुडे आकार रे ॥ पु० ॥ १९ ॥ शोभोयमान  
 दिसे घणोरे । राते वर्ण विमाण । जगते सूरज जेहवा  
 वलि इणसुं रे अधिको जाण ॥ पु० ॥ २० ॥ वर्ण रस  
 गंध फर्ग नो रे । वर्ण कछो जिनराय । प्रधानिक  
 विमाण निपाय नें । कछो सूरियांभ नें आयरे ॥ पु०  
 ॥ २१ ॥ सूरियांभ सुण हर्षी घणो रे । वेठो सिंहा-  
 सण आय । कीजाई देवी देवता । अतो वेठो ठिकाणे  
 आय रे ॥ पु० ॥ २२ ॥ वाजं च शब्द हुंता थकां रे ।  
 आगल पांछे घाट रे । पसवाड़े देवी देवतारे । एतो  
 वह घणा गह घाट रे ॥ पु० ॥ २३ ॥ असंख्याता तिरछा  
 लोकना लंघ्या समुद्र ने द्वीप । नंदीश्वर द्वीप आवि-  
 यो रे । रुचक पर्वत समीपरे ॥ पु० ॥ २४ ॥ देवनी  
 ऋद्ध संकोचतो रे । जम्बू द्वीप आयो धीर । अश्वर  
 कम्पारे वागमें रे । जठे विचरे श्रीमहावीर रे ॥ पु०  
 ॥ २५ ॥ सूरियांभ ऋद्ध सुं परिवस्योरे । अग्र महें  
 नी तीर । भाव भगत कीधो घणी । पकै बान्द्या  
 महावीर रे ॥ पु० ॥ २६ ॥

## ॥ दोहा ॥

बन्दणा करने इम कहै, हूं कूं सूरियाभ देव ।  
बान्दु कूं हूं पूज्यने, भाव सहित कर सेव ॥१॥  
बलता वीर इसड़ी कहै, ओकारज सुखकार ।  
च्याखूं जातना देव नो, जूने छै आचार ॥ २ ॥  
बचन सुण्यो श्रीवीरनो, सूरियोभ हर्षित थाय ।  
बन्दना करी नौचासणे, सन्मुख बेठो आय ॥३॥  
भगवन्त दीधी देशना, आण मोटो मंडाण ।  
काचा सुख संमार ना, साचा सुख निर्वाण ॥४॥  
बाणी सुण नें परषधा, हिवड़े हर्षित थाय ।  
सूरियाभ देव पूछा करे, ते सुण ज्यो चित लाय ॥५॥

## ॥ ढाल ४ थी ॥

सूरियाभ नें बोले बेकर जोड़ी । विनो करी नें  
सदन सचकोड़ी । कृपा करी कहो अन्तरजामी ।  
हूं भवसिद्ध के अभवो स्वामी ॥ १ ॥ समकित के वा  
मिथ्या मत भारी । प्रत के वा अप्रत संसारो । सुलभ  
दुलभ बोधी ज्ञानी । आराधक विराधक अज्ञानी ॥२॥  
चर्म केवा अचर्म स्वामी प्रभुजी । वारे बोलांरी चरचा  
बूजी । बलता वीर कहै इम जावे । सांभल बाणी तूं  
सूरियाभ ध्यावे ॥ ३ ॥ वारे ही बोल है तेरे मांही ।



बला है पिण्ड अबला नाहीं ॥ बोर बखाणज इसड़ी  
पांच्यो । हृषीं देव तथा थडू नाच्यो ॥ ४ ॥ लुल लुल  
सूरियाभ पाये लागो । भगवंत कन्हें चायो सांसे  
भागो । बन्दणा करी ने बोले बाण । प्रभुजी तीन काल  
रा जाण ॥ ५ ॥ हुवो हुबेलो होसी स्वामी । आप से  
वात नहीं काई छानी । द्वादिक् जाणो ने देखो ।  
मैं ऋद्ध लागी पासे विशेषो ॥ ६ ॥ गोतमादिक् अम-  
ण ने दिखाडूं । बतीस विध रो नाटक पाडूं । वीर  
सुणी सूरियाभ नी बाण । नो अखै नो पर जाण ॥ ७ ॥  
हां कल्यां तो सावद्य लागे । ना कल्यां भोगी रा भोगज  
भागे । मुनीश्वर नी है एही बाणी । देव तणो ए छान्दो  
जाणी ॥ ८ ॥ साध वचन सावद्य नहीं भाखै । पाप  
ठिकाणे चुपज राखै । साधारी तो एहिज बाणी ।  
जद सूरियाभ वात मन जाणी ॥ ९ ॥ सूरियाभ मन  
में इसड़ी धारी नाटक पाडो ऋद्ध विस्तारी । लुल  
लुल सूरियाभ लागो पाडू । चायो जिण दिश पाछो  
जाई ॥ १० ॥

॥ दोहा ॥

देव तणी ऋद्ध देख नें, पूछै गोतम स्वाम ।  
इतनी ऋद्ध विस्तार नें, घाली कुण से ठाम ॥ १  
माला सुंनर नीसगी, वारै करे फलाव ।

मेह जाणो पाछा धसै, ऋद्ध पेठी तिण न्याव ॥२॥

दूहां सूरियाभ देव नो, किहां सूरियाभ विमाण ।

वीर कहै उर्द्ध लोकमें, सर्व रत्ना में जाण ॥३॥

सुधर्म देव लोकना, बतीस लाख विमाण ।

मध्य भाग शक्र इन्द्रना, पांच विमाण बखाण ॥४॥

विचला सुधर्म विमाण सुं, पुरव दिश ने जाण ।

संख्याता जोजन गयां, त्यां सूरियाभ विमाण ॥५॥

लाख सवा छ, जोजन पोहलो जाण ।

गोल चन्द्रमा सारौषो, सोवन कोट बखाण ॥६॥

ऊंचो जोजन तीनसे, धुरसो जोजन जाण ।

पचास जोजन मध्य विच, ऊपर पचीस बखाण ॥७॥

## ॥ ढाल ५ मी ॥

देशी चौपाई नी ।

कोसौसा मणिय रहल तणा । पंच वर्ण शोभे अति  
घणा । लाखा एक जोजन तणा । अर्द्ध जोजन ज्यांरा  
पोहल पणा ॥१॥ ऊंचा देश उणा जोजन कछा । प्रतर  
रूप मान ए शोभ रह्या ॥ १ ॥ दरवाजा च्यार च्यार  
हजारी । त्यांरा थोडा सा कहुं विस्लारी ॥ २ ॥ पांच  
सो जोजन छे ऊंच पणो । अढाई सो जोवन पहोल  
पणो । अढाडू से जोजन प्रवेश पणा । ऋषादिक रूप  
चित्राम घणा ॥ ३ ॥ सहंस सूरज उद्योत घणो ।

सूरियाभ विमाण री पोल तणो । लग रहेया हार अह  
 हारी । देखण नैणा नें सुख कारी ॥ ४ ॥ भोम तणे  
 सोवन पसख्यो । पंच वर्णो मणियां मांहि जडो । देह-  
 ली हंस गर्भ रतन तणी । इन्द्रादिक गो मेज मांहि  
 भणी ॥ ५ ॥ द्वार ऊपर तीरसा ऊतरंगा । जोतक  
 रत्ना में शोभे चंगा । पुतलियां जोहिताक तणी । रूप  
 रुडो दह दीपमान घणी ॥ ६ ॥ वेडूर्य रतन किंवाड  
 जड्या रुडा । तिके छिद्र रहित दृढ़ पूरा । बजर रतन  
 नांस सांध जडी तासा । बर में भोगल भोगल पासा  
 ॥ ७ ॥ द्वार पासा दोनूं अंक रतन तणा । अनेक रत्न  
 में घोष घणा । पोल में बेलू सोवन तणी । इसडी  
 ऋद्ध रो सूरियाभ धणी ॥ ८ ॥ द्वारा पासा दोनूं प्रवेश  
 घस्या । सोला सोला कलशा चंदन भरा । नाग दंता-  
 दिक घंटा तेह तणो । तिण रो पिण छै विस्तार घणो  
 ॥ ९ ॥ विमाण में एक लण कहै पूरा । पांचसे जोजन  
 छै दूरा । च्यार बाग चिहुं दिश नें रुडा । साढी  
 वारा जोजन तणो । कहै अधिकैरो लांब पणो ॥ १० ॥  
 पांच से जोजन उंचेरा कहा । दोला दोला गढ विंटी  
 रछा । शब्द उठै त्यां तिणारे तणो । त्यां बागारो  
 विस्तार घणो ॥ ११ ॥ विमाण में एकलण कछी । लाख  
 जोजन चोतराजे रछी । तिण ऊपर सहिल सूरियाभ

तणा । शिखर बंध शोभै अतिघणा ॥ १२ ॥ मध्य भाग  
 एक प्रसाद भणो । पांच से जोजन री ऊंच पणो ।  
 तिण पाखती च्यार प्रसाद कछ्या । अठाइ से  
 जोजन उर्द्ध रछ्या ॥ १३ ॥ तिण चिहुं दिश सोलै प्रसाद  
 तणो । सवा से जोजन ऊंच पणो । बले चोसठ प्रसाद  
 कछ्या तेह । साढा बासठ जोजन ऊंचा जेह ॥ १४ ॥  
 सर्व पच्यासौ तणो । ऊंचा सुं आधो पहल पणो ।  
 भोम ऊपर पंछट भोम कही । सूरियाभ बिमाण में  
 शोभ रही ॥ १५ ॥

## ॥ दोहा ॥

कुण हुंती पूरव भव, बसतो कुणसी गाम ।  
 कुण करणी इण करी, कृपा करौ कहो खाम ॥१॥  
 वौर जिणेश्वर दुभ कहै, सुण गोतम करी खंत ।  
 कही दिखालुं तो कन्है, पूरव भव विरतंत ॥२॥

## ॥ ढाल ६ ठी ॥

तिण काले ने तिण समेरे । जंवूद्वीप मझार ॥  
 भरत क्षेत्र स्वतंबिकारे ! नगरी हुंती ऋद्ध दार रे ॥  
 गोतम सुण पूरव भव एह ॥ १ ॥ मृघवन नांवे बाग  
 थोरे । ईशाण कूणरे मांय । फल फूल कर शोभतोरे

शीतल गहरी छांयरे ॥ गो० ॥ २ ॥ तिण नगरी रो छो  
 धणीरे । राय प्रदेशी नाम । अधरमी अधिको धणीरे ।  
 रिक्ततो माठा कामरे । ॥ गो० ॥ ३ ॥ आकरा कर  
 लेतो घणारे । करतो जीवारी घात ॥ पर सुखिये  
 दुःखियो हुंतोरे । रहता लोही खरड़ा हाथरे ॥ गो०  
 ॥ ४ ॥ धजा ज्युं चाहवो हुंतोरे । अधरमी अवनीत ।  
 पापे धन भेलो करै रे । दुष्ट नी खोटो नीतरे ॥ गो० ॥  
 ५ ॥ बाणी खोटी बोलतोरे । थोड़े गुने घणी मार ॥  
 काण न राखै क्कहनी रे । रुद्र ध्यान भयंकार रे ॥ गो०  
 ॥ ६ ॥ हाथ पाव छेदन करै रे । कान आंख जीभ  
 दांत ॥ मार कूट दे बहु विधरे । पड़े देशां में धाकरे  
 ॥ गो० ॥ ७ ॥ थड़-हड़ कान्पे नेड़ा थका रे । अलगा  
 पाप वचन ॥ औरसं री-तो कुण्ड चले रे । न माने-मा-  
 इतां-रा-बैण रे ॥ गो० ॥ ८ ॥ पटराणी तिण राय नी  
 रे । सूरिकन्ता नाम ॥ राजा सुं राजी घणीरे । रूप-  
 वंत अभिराम रे ॥ गो० ॥ ९ ॥ तिण राणी रे । जन-  
 मियो रे । सूरिकन्त कुमार ॥ युवराज पदवी दीपतोरे ।  
 रूप गुणे सुविचार रे ॥ गो० ॥ १० ॥ बडो भाई चित  
 स्वारथी रे । प्रीतकारी प्रधान ॥ भार सुंप्यो कै राज  
 नो रे । राय वधारे मान रे ॥ गो० ॥ ११ ॥ काम  
 चलावे राज नो रे । च्याहूं बुद्धि निधान ॥ डंड ले

पिण संतोष नें रे । राज नीत सावधान रे ॥ गो० ॥  
 १२ ॥ पूछ्वा रूप मेठी सुत कै रे । चक्षु भुत आधार ।  
 सगलाही दीधी अगन्यां रे । करै राज सुविचार रे ।  
 गो० ॥ १३ ॥ तिणकाले नें तिण समै रे । देश कुणाल  
 ऋद्धवंत । नगरी सारथी मोटकी रे । कोटग बाग सोहंत  
 रे ॥ गो० ॥ १४ ॥ तिण नगरी रो अधिपति रे । जित शत्रु  
 सिरदार । प्रदेशी के कै घणो रे मांहीं मांही प्यार रे  
 ॥ गो० ॥ १५ ॥ राय प्रदेशी एकदा रे । भारी भेटणो  
 सभाय । चित स्वारथी नें मेलियो रे । दियो जित  
 शत्रु नें जाय रे ॥ गो० ॥ १६ ॥ राज पंथ आवास  
 में रे । चित नें उतास्यो जाय । भारी लीला भोगवैरे  
 नाटक में दिन जाय रे ॥ गो० ॥ १७ ॥

## ॥ दोहा ॥

देश कुणालो दीपतो, साध घणा तिण मांय ।  
 आरज क्षेत्र अति भलो, साधां री घणी चाहय ॥१॥  
 ज्यां ज्यां विचरे साधुजी, करै घणो उद्योत ।  
 धर्म दीपावे जिन तणो, टाले मिथ्या छोत ॥२॥  
 तेइंससा जिनवर तया, साध घणा तिणवार ।  
 च्यार ज्ञान तया घणी, केशी नाम कुमार ॥३॥

## ॥ ढाल ७ मी ॥

तिण काले नें तिण समैरे । पास संतानिक साध  
 कैसी कुमर समगुण शोभताजी । संजम तप री समाध ।  
 भलाई पधास्याहो पास सन्तानियांजी ॥ भव जीवारे  
 भाग । मर्ग बतावे हो मुनिवर मोखरो रे । उपजावे  
 बैराग ॥ भला० ॥ २ ॥ विनयवन्त गुरु ना छै घणाजी  
 लज्या नें दयावन्त ॥ ज्ञान दर्शण च्यार निरमलाजी ।  
 जशवन्त वचन महंत ॥ भ० ॥ ३ ॥ जीत्या कषाय  
 इन्द्रा निन्द्राजी । जीता परिसाह जाण । जामण मरण  
 तणो भय सेटने जी । तप करी नें प्रधान ॥ भ० ॥ ४ ॥  
 गुण घणा त्यां में छै सही जी । कहिये आगम जोय ।  
 सोटा मुनीश्वर दो मुख निरमलाजी । बलवन्त रूपवन्त  
 होय ॥ भ० ॥ ५ ॥ जमावन्त मुनि सत्यवन्त छै जी ।  
 जवदे पूरव धार ॥ त्यागी बैरागी सागे तेहनेजी ।  
 पांच से ही अणगार ॥ भ० ॥ ६ ॥ चाय उतरिया  
 कोटग वागसे जी । टाली मिथ्या जोड़ । सावथी नग-  
 री ना लोकां मझे जी । खबर जुई ठोड़ ठोड़ ॥ भ०  
 ॥ ७ ॥ लोक वान्दण नें जावे छै घणा जी । मन धर  
 अधिक उल्लास ॥ चितनी सेवग तेड़ी आपरो जी ।  
 पूछा कीध्री तास ॥ भ० ॥ ८ ॥ लोक जावे छै सोटा

कुल तणा जी । किणरी सहोच्छव काज ॥ सेवक हाथ  
जोड़ी नें इम कहै रे । साध पधास्या आज ॥ भ० ॥  
६ ॥ वचन सुणी नें चित हर्षित हुवोजी । गुड़वेल बैठ  
बांद्गण जाय ॥ बन्दणा कर बाणी सांभली जी देशना  
दिधी मुनिराय ॥ भ० ॥ १० ॥ लोकालोक नव तत्व  
तणाजी भाख्या भिन्न २ भेद । काचा सुख संसार नां  
रे । मतकरो कूड़ी खेद ॥ भ० ॥ ११ ॥ काम भोग  
दोनूं कर्म छै रे । बिलसंतां विगड़न्त । सुख थोड़ा ने  
दुःख छै अति घणा जी । रीझ कूड़ कर खन्त ॥ भ०  
॥ १२ ॥ दोय धर्म उज्जल दिखाड़िया जी । आगार नें  
अणगार । पांच महाव्रत चोखा साधना जी । श्रावक  
ना व्रत वार ॥ भ० ॥ १३ ॥

## ॥ दोहा ॥

चित सुण नें रिभ्यो घणो, सरध्या तुमना वैण ।  
ये तारक भव जीवना, मिलिया साचा सेण ॥१॥  
सेठ सन्यापति राजवी, धन्य ते हुवे अणगार ।  
इसी सगत सो में नहीं द्यो श्रावक ना व्रत वार ॥२॥  
श्रावक ना व्रत आदस्या, भाव सहित कर सेव ।  
डिगायो डिगे नहीं, जो चलावे नर देव ॥३॥  
पोसा पडिकमणा करे, देय सृपावे दान ।  
स्वैतस्वीकारी बिनती, करिवा सूं छै ध्यान ॥४॥



## ॥ ढाल ८ मी ॥

चीतलेद्व राजा नो भेटणो । आयो गुरां रे पास  
 हो महामुनि । सेतम्बीका नें हो पूज्य जी जांवतां ।  
 बन्दणा करुं उलास हो महामुनि । पूज्य जी पधारो  
 हो नगरौ हम तणी ॥ १ ॥ होसी घणो उपकार हो  
 महा० घणा लोकां नें हो मारग घालस्यो । थे देस्यो  
 पार उतार हो महा० ॥ पू० ॥ २ ॥ सेविया-नगरी हो  
 स्वामीजी दीपती । छै वा देखवा जोग हो महा० ॥  
 तिण में तो आयां नफो बहु निपजे । सुखिया वसे  
 सहू लोग हो महा० ॥ पू० ॥ ३ ॥ प्रदेशो नें सेल्यो  
 भेटणो । ले चालूं हूं स्वाम हो महा० ॥ एकवार दोय-  
 वार कीनी विनती । गुरु नहीं बोल्या ताम हो महा०  
 ॥ पू० ॥ ४ ॥ तीजी वार करतां विनती । गुरु बोल्या  
 हेत लगाय हो चतुर नर फलियो फूलियो हो चिता बाग  
 छै । पशु जावे की न जाय हो । चतुर नर । उत्तर दे  
 मोने दूण वातरो ॥ ५ ॥ हां स्वामी चित कहै जावे  
 सही । वले गुरु बोल्या आम हो चतुरनर । तिणही  
 बाग में कोई पारधी वसे । तो जायके न जाय हो ॥  
 ॥ चतु० ॥ उ० ॥ ६ ॥ हां स्वामी चित कहै जावे नहीं ।  
 भय उपजे तिण मांयहो ॥ महा० । गुरु कहै बाग ज्यं

नगरी सेविद्या । पारधी प्रदेशी राय हो ॥ च० ॥ ७ ॥  
 अकर अन्याई पापो अति घणो । तिण वागमें कीम  
 रहवाय हो । चतु० मुलक घणोई र्हानें विचरवा ।  
 सुखे सुखे विहार कराय हो ॥ च० ॥ उ० ॥ ८ ॥ थारि  
 सुं प्रयोजन राय सुं । वचन बदे चित एम हो  
 महा० । लोग बसे सहु सेठ सैन्यापति । सेवा करसी  
 धर प्रेम हो महा० । पू० ॥ ९ ॥ भाव सहित बहिरा-  
 दसी । अशणादिक च्याखुं आहार हो महा० । वस्त्र  
 पात्र देशी अति घणा । करसी बन्द्या नें नमस्कार हो  
 म० । पू० ॥ १० ॥ बार बार कीनी विनती । चित  
 डाहो सुवनीत हो म० । कलता मुनि कहै जाणीजसी  
 ज्युं साधारी रीत हो चतु० । उ० ॥ ११ ॥ सांभल  
 वाणी चित हृष्यो घणो । रोमांचित हुइ सारी देह हो  
 म० । रीभयो ते नो विशेष कखाणिये । धर्म दलाली  
 सुं बेह हो महा० ॥ पू० ॥ १२ ॥

## ॥ दोहा ॥

बन्द्या कीधी भाव सुं, गुरां सुं बहु राग ।  
 लेइ भेटयो चालियो, आयो मृगवन बाग ॥१॥  
 वन पालक नें इम कहै, जो आवे इहां साध ।  
 थानक देजे आगन्यां, उपजाजे समाध ॥२॥

क्लेशी साध पधारियां, तुरत कहै मुझ आय ।  
 हर्ष वधाइ दियां थकां, देसुं दालिद्र गमाय ॥३॥  
 इम जीतावण दे करी, आयो चितो राय ।  
 सिरपाव लेइ गयो, धर्म करे चित लाय ॥४॥  
 पर उपगारी जाण नें, आधा तिहां चलाय ।  
 पांच सो मुनि परिवार सुं, निरलोभी ऋषराय ॥५॥  
 बागवान पृथ्वी करी, धानक आगन्या दौध ।  
 आई चितजी नें कछी, जाणै अमृत पीध ॥६॥  
 मुण आसण सुं उतरयो, बन्दणा बे कर जोड़ ।  
 रथ विसी आयो बागमें, नमः घणो धर कोड ॥७॥  
 बन्दणा कर बाणी सुणी, आगल बेठो आय ।  
 सतगुरु दौधी देशना, परषधा सुणै चितलाय ॥८॥  
 परषधा सुण हरषत हुई, जिण मारग कै धन ।  
 धरम दलाली चित करै, ते सुणज्यो एक मन ॥९॥

## ॥ ढाल ६ मी ॥

हाथ जोड़ी करूँ विनती, सांभल ज्यो मुनिराय  
 हो । स्वामी । ओ राय प्रदेशी पापियो । ओणो मारग  
 ठाय हो । स्वामी । म्हांरा राजा नें धर्म सुणावज्यो ॥  
 १ ॥ आकरा डंड लेवे घणा । ओ करे घणा अकाज  
 हो स्वा० । ओ काण न राखै केहनी । न आणै किण

री लाज हो स्वा० ॥ २ ॥ धर्म कथा कहो अगत सुं ।  
 समझै प्रदेशी राय हो स्वा० । आकरा डण्ड लेवे नहीं  
 पाप कर्म टल जाय हो स्वामी ॥ म्हारा० ॥ ३ ॥ दो  
 पद चौपद पशु पंखिया । दया उपजै दिल् मारहे हो  
 स्वामी । जीव हिंसा सुं निवृत्ते । तो संवर निर्जरा थाय  
 हो स्वा० ॥ ४ ॥ परदेशी समभयां थकां । समझै घणा  
 नर नार हो स्वा० ॥ आ हुवै बधोतर जिन धर्म नी ।  
 द्रुण परदेश मभार हो स्वा० ॥ म्हं ॥ ५ ॥ बार  
 बार करूं बिनती, थि उपगारी परम हो स्वा० । गुरु  
 कहै चार बोल बिनां । न लहे केवलियो धर्म हो  
 चिता हूं धर्म सुणावुं किण बिधे ॥ ६ ॥ धर्म तणो  
 दोषी घणो । किम करूं अणुंगय हो चिता ॥ चार  
 बोल प्रगट कहूं । सांभल ज्यांरो नाम हो चिता हूं  
 धर्म० ॥ ७ ॥ वाग में आयां साधु कने, र्हामो न जाय  
 चलाय हो चिता० अबन्दणा भाव करे नहीं । चरचा  
 न करे काय हो० चिता ॥ हूं० ॥ ८ ॥ गांव माहिं  
 आयां थकां । बन्दणा न करे काय हो चिता । घर  
 आवी पिण साध नें । दान दियोरे नहीं जाय हो चिता  
 ॥ हूं० ॥ ९ ॥ ऊंच नीच जगणे नहीं । हाथ नें ऊंचो  
 थाय हो चिता । ओ सहांमो पिण जोवे नहीं । मुखड़े  
 देवे ओ ठांक हो चिता ॥ हूं० ॥ १० ॥ चार बोल

समला हुवां । पांमें धर्म विशेष हो चिता ।  
ही मांहिलो । बोल न पावे एक हो चिता ॥ हू० ॥ ११ ॥  
घोड़ा देश कमोद ना । मैं राख्या कै तांय हो स्वामी ।  
किण हिक बिरियां राय नें दीधो सब जीताय ।  
स्वामी० ॥ १२ ॥ इण मिस कर थां कने आणसु ।  
राय समभण नीत हो स्वामी । ये धर्म कथा निशंक  
सुं कहज्यो आप निचिंत हो ॥ स्वा० ॥ १३ ॥

## ॥ दोहा ॥

सतगुरु कहै जागीजसी, काले अवसर देख ।  
इम सांभल चित स्वारथी, हर्षित हुवो विशेष ॥ १ ॥  
उठी नें बन्दणा करी, आयो नगरी मांय ।  
किण बिध ल्यावे राय नें, सांभल ज्यो चित लाय ॥ २ ॥

## ॥ ढाल १० मी ॥

आय राजा नें इम कहै । सांभल ज्यो सहाराय  
जी । ॥ घोड़ा देश कमोदना । मैं ताजा किया चरा-  
यजी ॥ धर्म दलाली चित करे ॥ १ ॥ किण बिध  
ब्यावे राय नें । सांभल ज्यो नर नारोजी ॥ चि  
सरीषा उपगारिया । बिरला इण संसारोजी ॥ ध०  
॥ आप मोने सूंधा हूता । ते देख लेज्यो चौड़े न

अवसर बरते एहवो । घोड़ा किसड़ाक दोड़े जी ॥ ध०  
 ॥ ३ ॥ राय प्रदेशी चिन्तवे । मान्यो बचन अनुपोजी ॥  
 राजा नें बहुली हुवे । घोड़ा हाथी नौ चूमोजी ॥ ध०  
 ॥ ४ ॥ रथ रे घोड़ा जोतरा । चढियो प्रदेशी रायो  
 जी ॥ चित बेठो खड़वा भणी । घणा जोजन ले जायो  
 जी ॥ ध० ॥ ५ ॥ आहमा रहामा दोड़िया । हुई  
 छायां तणी उमेदोजी ॥ राय प्रदेशी इम कहै । चिता  
 पामुं छुं खिदो जी ॥ ध० ॥ ६ ॥ प्रदेशी कछ्यां थकां ।  
 चित अवसर रो जाणोजी ॥ गैरी छायां बागरी । रथ  
 उभो राख्यो आणोजी ॥ ध० ॥ ७ ॥ धर्म कथा कीसी  
 कहै । मोटे मोटे सादोजी ॥ राय प्रदेशी देख नें ।  
 मन मान्यो बिषवादोजी ॥ ध० ॥ ८ ॥ कुण बक्र जड  
 मुठ ए । जड मुठ करै सेवाजी ॥ पंडित नहीं अजा-  
 ण छै काठण लागो कीवाजी ॥ ध० ॥ ९ ॥ धर्म करी  
 दीपै घणो । मुख आगे छै घाटोजी ॥ सुं एहने रोज-  
 गार छै । मोडो जंचो बैठो पाटोजी ॥ ध० ॥ १० ॥  
 अणख करी राजा घणी । धर्म तणो नहीं रागोजी ।  
 इण मोडे म्हारो आय नें । रोक्यो सगलो बागोजी  
 ॥ ध० ॥ ११ ॥ हूं उठ बैठ सकुं नहीं । मन में इसड़ी  
 आइजी ॥ जितनी हिरदा में ऊपनी । चित नें सर्व  
 सुणार्इजी ॥ ध० ॥ १२ ॥ चिता कुण जड मूठ ए ।

वाग सहु म्हारो रुधोजी इत्यादिक श्रवणे सुणो ।  
 चित उत्तर दे सुधोजी ॥ ध० ॥ १३ ॥ स्वामी ए नर  
 मोटका । केसी नाम कुमारी जी ॥ विचरता आया  
 वाग में । पांच सी मुनि परवारो जी ॥ ध० ॥ १४ ॥  
 साध तथा व्रत आदस्यां । लूकी ममता नें मायाजी ।  
 श्रद्धा यांरी एहवी । जूदा मानें जीव कायाजी ॥ ध०  
 ॥ १५ ॥ जीव काया जूदा जाण नें । तब बोलता इम  
 रायोजी । चिता ए नर जाग छै । तो हूं जावुं रे  
 चलायो जी ॥ ध० ॥ १६ ॥ स्वामी ए नर जाग छै ।  
 बचन कान मे घालेजी । राय प्रदेशी चित बेहुं ।  
 केशी स्वाम पे चालेजी ॥ ध० ॥ १७ ॥ राजो आय  
 उभो रछो । जंचो न करै हाथोजी ॥ आवो पधारो  
 म्हानें ना दियो । प्रसन्न पूछे नर नाथोजी ॥ ध०  
 ॥ १८ ॥ अही साधां यांरी अवधिका । जूदा मानो  
 जीव कायाजी । बलता मुनि इसडी कहै । डाखरो  
 हित लगायोजी ॥ ध० ॥ १९ ॥ भारी बस्त मुलाय नें  
 भयो न चाहवे डाखोजी ॥ सवलो फण्य सूझे नहीं ।  
 उजड़ पड़े अयाणोजी ॥ ध० ॥ २० ॥ इण दृष्टांते राय  
 तें । भांज्यो म्हारो डाखोजी ॥ वन्दणा भाव करी  
 नहीं । तूं उभो ठीडो सी आणोजी ॥ ध० ॥ २१ ॥  
 म्हाने वाग में देख नें । यारे मन मे इसडी आइजी ॥

कुण बक्र जड मुठ ए । ते चित नें सर्व सुगार्इजी ॥  
 ध० ॥ २२ ॥ तुमनें चित चरचा करी । चाली इहां  
 आयाजी । ए अर्थ समर्थ छै । हां स्वामी सत्यबाया-  
 जी ॥ ध० ॥ २३ ॥ काची बात थारी नहीं । पहिले  
 प्रश्न राय राच्योजी । अचरज पास्यो अतिघणो । ओ  
 मारग सही सांचो जो ॥ ध० ॥ २४ ॥ प्रदेशी राजा  
 कहै । कियोज्ञान थां पासो जी । मनरी बात म्हांरी  
 कही । ओ उत्तर प्रकाशो जी ॥ ध० ॥ २५ ॥ गुरु कहै  
 पांच ज्ञाना तयो । जूदो जूदो छै न्यावो जी । चार  
 ज्ञान छै म्हां कने । तिण सुं जाण्यो थांरो भावो जी  
 ॥ ध० ॥ २६ ॥ राय कहै केशी स्वामनें । तुमे कहे  
 तो बेसुं जी । गुरु कहै जायगां तांहरी । हूं बैसण रो  
 किम कहिस्युं जी ॥ ध० ॥ २७ ॥ आपें बेठ बेहूं जणा ।  
 प्रश्न पूछै धर प्रेमो जी । थारी २ श्रद्धा सर्व साधां तणी ।  
 श्रद्धा छै कहो किमो जी ॥ ध० ॥ २८ ॥ जीव काया  
 मानो जूदा । एम तुम नहीं मानो जी ॥ केशी कहै  
 सर्व साधां तणी । श्रद्धा एक पिछाणो जी ॥ ध० ॥ २९  
 ॥ आ श्रद्धा स्वामी थांहरी । जीव काया कहे जूदी जी ॥  
 प्रश्न पूछै साधां भणी । इण स्वतंबका रो लूदी जी ॥  
 ध० ॥ ३० ॥



## ॥ दोहा ॥

पूछै इग्यारा प्रश्न, गुरु प्रति राजान ।

गुरु उत्तर दे किण विध भला, गुण सागर बुद्धवान ।१।

पूछै प्रश्न पहलड़ो, राय प्रदेशी एम ।

गुरु समझावे किण विधे, ते सुणज्यो धर प्रेम ।२।

## ॥ ढाल ११ मी ॥

अधरमो अवनीत, चालतो भ्हांरी रीत । दादो हम  
तणो ए । पात्री हुंते घणो ए ॥ १ ॥ तुम कहणो  
मुनिराय, गया हीसी नरकां मांय । हेत दादा तणो ए ।  
मो पर हुंते घणो ए ॥ २ ॥ आय दादो कहै आप,  
पोता मत कर पाप । हूं नरकां पड़ो ए । पाप घणो  
कखो ए ॥ ३ ॥ इम दादो कहै आय, तो मालु मुनि-  
राय । नही तर मांहरो ए । मत आदयो सो खरो ए  
॥ ४ ॥ गुरु कहै चीज लगाय, सांभल प्रदेशी राय ।  
राणो तांहरी ए । सूरिकन्ता खरी ए ॥ ५ ॥ पहिर  
ओठ जल न्हाय, सहु शिखागार वणाथ । सीहन गहणा  
तणो ए जलूसाइ घणो ए ॥ ६ ॥ कोई पुरुष अनरी  
आय, काम भोग लिपटाय । निजर थारि पड़े ए । तो  
डंड कुण सी करे ए ॥ ७ ॥ छेदुं हाथ ने पाव । शूली

देवुं चढाय । शिर काट धरुं ए । पूरजो पूरजो करु  
 ए । ॥ ८ ॥ ओ नर कूरे अरदास, मो जाउं न्यातिला  
 पास । जाय नें कहुं खरो ए मो ज्यूं मती करो ए ॥ ९ ॥  
 हूं दुःख पाउं कुं आप, पर त्रिया ने पाप । तो तू जाणदे  
 ए विश्रामो खाण दे ए ॥ १० ॥ स्वामी धारा कहण रौ बात,  
 मो अपराधी साख्यात । खिणमात्र सही ए । ठीलो मूकूं  
 नहीं ए ॥ ११ ॥ इतरे गुन्हे राय, अलगा मेलयो न जाय ।  
 खिण एक जाण न दे ए । विश्रामो खाण न दे  
 ए ॥ १२ ॥ थारे दादे केलव्या कूर, संन्या पापरा पूर ।  
 जाय नरकां पड़ो ए जंजीरां जड़ो ए ॥ १३ ॥  
 पव्य सागर रौ मार । विण भुगल्यां निरधार । कुट की  
 नहीं ए । इम जाणे सही ए ॥ १४ ॥ करे परमा धामी  
 घात । ज्यांरी पन रे जात । मार घणी पड़े ए । ठील  
 नहीं करे ए ॥ १५ ॥ जाणे कहुं जाय, पिण दादो न  
 सके आय । रुखवाला घणा ए । दुःख नरकां तणा ए  
 ॥ १६ ॥ इण विध दश दृष्टन्ते राय । तूं सरध जूदा  
 जीव काय ॥ फेर जाणे मती ए । भूठन बीलारती  
 ए ॥ १७ ॥ आ दिष्टान्तो दियो मुनिराय । पिण म्हांरौ  
 न आयो दाय ॥ बुद्ध थारी घणी ए । जुगत भेलण  
 तणी ए ॥ १८ ॥ पिण दादी म्हांरी स्वाम । करंतौ धरम  
 रौ काम ॥ तप क्रिया घणी ए । नवतत्व विध तणी ए

॥ १८ ॥ हूँ दादी ने अंत, हुन्तो दृष्ट नें कंत । आपण  
 गोडती ए । अलगी नहीं छोडती ए ॥ २० ॥ संच्या  
 पून्य ना थाट । नहीं कोई दुःख उचाट । तुम कहणी  
 सही ए । वा देवलोकी गर्द ए ॥ २१ ॥ देवलोका थी  
 आय । दादी कहै मोय वाय ॥ पोता धर्म करो ए ।  
 ओ मारग खरो ए ॥ २२ ॥ इसी कहै जो मोय ।  
 शंका न कहूं कोय ॥ नहीं तर मांहरौ ए । मंत  
 भाल्यो सो खरो ए ॥ २३ ॥ गुरु कहै सांभल राय ।  
 कोई देव पूजण नें जाय । स्नान मंजण करी ए । धूप  
 धारगी धरी ए ॥ २४ ॥ सिधखाना नें मांय । कोई  
 भङ्गी कहै इम वाय ॥ आवो पधारौ ए । मोसुं बातां  
 करौ ए ॥ २५ ॥ तो जाय के नहीं जाय । उत्तर दे  
 मुझ राय । किम जाय अशुच भणी ए । अछवाई  
 घणी ए ॥ २६ ॥ गुरु कहै सांभल एम । दादी आवे  
 केम । दुर्गंध इहं तणी ए । उंची जाय घणी ॥ २७ ॥  
 पांच सें जोजन लग जाय । देव न सकी आव । नेह  
 लगे तवे ए । सुखां मगन हुवे ए ॥ २८ ॥ मुहूर्त  
 नाटक सार । वर्ष जाय दोय हजार । पूकै किण भणी  
 ए । मौढ्यां खपै घणी ए ॥ २९ ॥ पल्ल सागर नी स्थित  
 मेलि देव्यां सुं चित्त । मोह रक्षा सही ए ॥ आय सव  
 नही ए ॥ ३० ॥ इम जाणी राजान । जूदा जीव काय

मान । राजा कहै बलि ए । बुद्ध थारो निरमली ए ॥  
 ३१ ॥ ज्ञानी पुरुष छो आप । ज्ञान तखे प्रताप ॥  
 हेत भेलो सही ए । मोय हिरदे बेसे नहीं ए ॥ ३२ ॥

## ॥ दोहा ॥

नीजो प्रश्न गुरु प्रते, बलि पूछै राजान ।  
 एक दिवस सभार मक्के, हूँ बेठो करी मंडाय ॥१॥  
 सेठ सेन्यापति संतवी, देखंतां सहु काय ।  
 कोटवाल दूक चोरटो, आणी सृंघ्या मोय ॥२॥  
 पारख्या करवा भणी, घाल्यो कोठी मांय ।  
 ऊपर ठांयो ठांकणो, छेक न राख्यो कांय ॥३॥  
 लोह कोठी लोह ठांकणो, सीसा सुं रे जड़ाय ।  
 रख वाला राख्या बलि, ओछ न राखी काय ॥४॥  
 उण कोठी रो ठांकणो, किणही उतायो नांय ।  
 चोर मूओ तिण कोठिये, ठीक न पड़ी काय ॥५॥  
 जीव वाहर थी निसरे, कोठी पड़ तो छेक ।  
 जीव कायरा मानत जूदा, अइत बात विशेष ॥६॥  
 छिद्र न पड़ियो कोठिये, किम मानुं हूं बात ।  
 जीव काया एकहीज छै, कूड़ नहीं तिल मात ॥७॥

( ५८ )  
॥ ठांल १२ मी ॥

परदेशी राजा सुणो ॥ काद्र कूण्ड आकारे  
लोरे । नौपी मांहिं वारथी । जंडी घणो विशालो रे ॥  
परदेशी राजा सुणो ॥ १ ॥ बावस पैसे न तेह मे ।  
आडा बजर किंवाडो रे । काई भैरी ठोल डांकी करे ।  
पडै शाला सभारो रे ॥ २ ॥ मांहि बजर किवाडु के ।  
बले छिद्र न राख्यो रे । भैरी ठोल बजावियो । बाव  
सुणो नें सुणायो रे ॥ प० ॥ ३ ॥ राय कहै शब्द सु  
सही । तब बोख्या गुरु ए मेरे । शाला रे छिद्र पड  
नहीं । शब्द निसरियो केमेरे ॥ प० ॥ ४ ॥ रूपी शब्द  
शाला सुं निसखो । न पड्यो छिद्र न वारो रे । ते  
जीव अरूपी निसखां । कोठी केम पडे बघारो रे ॥  
प० ॥ ५ ॥ शब्द शाला सुं निसखां । छिद्र न पड्यो  
रायो रे । इण दृष्टान्ते शब्द ले जूदा जीव नें कायो रे  
॥ प० ॥ ६ ॥ हेत जुगत नें ओपमा । बुद्ध सुं मेलो  
न्यायो रे । म्हारे तो दिल बैसे नहीं । किम सरध  
तुम बायो रे ॥ प० ॥ ७ ॥ चोथे प्रश्न पूछूं बलि  
म्हारे शंका पडी मन जाणो रे । एक दिवस सभा  
मभै । हूं बेठी करी मंडाणोरे ॥ प० ॥ ८ ॥ को  
वाल एक चोर टो चोरी करतो भाव्यो रे । मे

आणी सुंपियो । मै मार कोठी में घाल्यो रे ॥  
 प० ॥ ९ ॥ ऊपर दिने ठांक्णो । छिद्र छेका न  
 राखी कायो रे । काल किता एक पछै जोइयो । किड़ा  
 दिठा तिण मांच्यो रे ॥ प० ॥ १० ॥ मैं तो जतन  
 क्रिया अति घणा । रखवाला छा बैठारे । छिद्र को  
 पड़ियो नहीं । जीव कठिक्कर पैठा रे ॥ प० ॥ ११ ॥  
 जीव कोठी में पैसतां । कोठी न पड़्यो बारो रे । तो  
 म्हारी श्रद्धा छै खरी । जीव काया नहीं न्यारो रे ॥  
 प० ॥ १२ ॥ गुरु कहै धमिया लोह नें हीठो छै तें  
 रायो रे । राय कहै हीठो अछै । तो मुण तूं चित  
 लगायो रे ॥ प० ॥ १३ ॥ अग्नि सुं लोह धमतां थकां ।  
 झाल घणी जब उठी रे । अग्नि लोह में धस गई ।  
 आ बात सांची की झूठी रे ॥ प० ॥ १४ ॥ राय कहै  
 अग्नि तो धस गई । निसरी आरधी पारो रे । गुरु कहै  
 राजा कोइ लोहरे कोइ पड़ियो छिद्र बघारो रे ॥ प० ॥ १५ ॥  
 राय कहै छिद्र पड़्यो नहीं । तब गुरु बोल्या एमोरे ।  
 लोहार छिद्र पड़्यो नहीं । तो अग्नि पैठी राय की  
 मोरे ॥ प० ॥ १६ ॥ अग्नि लोहा में पैसतां । न पड़्यो  
 छिद्र लवलेसो रे । तो कोठी छिद्र किण विध पड़े ।  
 जीव काया प्रवेशो रे ॥ प० ॥ १७ ॥ प्रगट रूप तेच  
 काया रो । तूं जाणे लोह में पैठी रे ॥ कोठी में जीव

उपना । तिगरी क्युं नहीं बेठी रे ॥ प० ॥ १८ ॥ इण  
 न्याय राजा तांह रे । रहगई भोलप मोटी रे । सरध  
 जूदा जीव काय ने । तूं छोड दे सरधा खोटी रे ॥  
 प० ॥ १९ ॥ कारण हित जुगत करी । न्याय मेलख  
 बुद्ध सेठी रे । पिण थांरी श्रद्धा थां कने । रहांरे तो  
 मूल न बैठी रे ॥ प० ॥ २० ॥

## ॥ दोहा ॥

प्रश्न पूछूं पांच सों, जीव काया एक जाय ।  
 साची श्रद्धा मांहरी, कूडी न कसूं ताण ॥१॥  
 कोई चतुर है मानवी, कला शिल्प विज्ञान ।  
 समरथ सगला काम सें, बलवंत तरुण जवान ॥२॥  
 तीर कबाण हाथे ग्रही, बल सुं गाठी खांच ।  
 अलगो नहाखे जीर सुं, बाण चलावे पाय ॥३॥  
 तिमहिज बालक बुद्धि बिना, बल सुं बाण चलाय ।  
 तो सांची श्रद्धा तांहरी, जूदा जीव ने काय ॥४॥  
 ये जीव गिणो सब सायसा, नगिणो सह सें देख ।  
 भर बालक सुं नवि चले, तो जीव काया है एक ॥५॥

## ॥ ढाल १३ मी ॥

गुरु कहै तरुण पुरुष नें । तूं समरथ जाण राजा  
 न हो परदेशी । ताण करे कै अति घणी । पिण सुण  
 तूं सूरत दे कान हो प्रदेशी ॥ तूं सरध जूदा जीव  
 काय ॥ १ ॥ धन खरची बंधो नहीं । सरक भाल पां-  
 षन थोय हो प्र० । बोहिज तरुण पुरुष कै । बाण  
 चलाय के न चलाय हो ॥ प्र० ॥ २ ॥ राय कहै बाण  
 चाले नहीं । उमग्रण अंदूरा जाण हो मुनीश्वर । इण  
 दृष्टान्ते जाण ले । बालक नहीं चलावे बाण हो प्र०  
 ॥ ३ ॥ बालक री ओकी बुद्ध प्रगन्यां । बल प्राक्रम नहीं  
 पूर हो प्र० ॥ ४ ॥ तूं तरुणा रो काव साज सूं । जोर  
 न चाले काय हो प्र० ॥ तौर कबाण सैठा घणा ।  
 पिण बालक बल नहीं काय हो ॥ प्र० ॥ ५ ॥ तो दोनूं  
 पूरा समरथ हुवा । बलवंत नें जुगत कबाण हो प्र०  
 दोन्यां में एक पूरो नहीं ! तो चाले नहीं बाण हो प्र०  
 ॥ ६ ॥ इण न्याय तू सरध ले । जूदा जीव नें काय  
 हो प्र० राय कहै दिल बैसे नहीं । थे तो मेलो अण  
 हुंता न्याय हो मुनीश्वर ॥ ७ ॥ छठो प्रश्न पृष्ठे बलि ।  
 कोइ बलवन्त पुरुष प्रधान हो मुनीश्वर । लोह तांबा-  
 दिक धात नो । भार उठावा कै सावधान हो मुनीश्वर



॥ थारी श्रद्धा हो दिल बेसे नहीं ॥ ८ ॥ उतरोही भार  
 बुढो ग्रहे । दुरबल देह निरधार हो मुनी० जाजरे  
 शरीर लौलर पड़े । मांदि भूख तृषा अपार हो ॥ सु०  
 ॥ ९ ॥ दांत पड़ा डिग डिग करे । लोहादिक भार  
 ले जाय हो सु० । तो साचो श्रद्धा तांहरौ । तो जूदा  
 जीव नें काय हो मुनी० ॥ १० ॥ जी बुढा सुं भार  
 चालै नहीं । तो किम मानुं तुम बोय हो सु० साचो  
 मत छोडी मांहरौ । कूड़ी मत कीम भलाय हो सु०  
 ॥ ११ ॥ गुरु कहै राजा तूं सांभलै कांडू कावड़ छै  
 प्रधान हो प्र० बांस कावड़ो होय नवा । भार घाल्यो  
 छै उनमान हो प्र० ॥ १२ ॥ बलवन्त पुरुष प्रधान छै ।  
 कावड़ ले जाय की न ले जाय हो प्र० । राय कहै  
 ले जाय उठाय नें । तरुणा रे नहीं तमाय हो सु० ॥  
 १३ ॥ बलवंत पुरुष जवान छै । कावड़ बोदी घाय हो  
 प्र० बोहिज तरुणो पुरुष छै । कावड़ ले जाय की न  
 ले जोय हो प्र० ॥ १४ ॥ राजा कहै भार चालै नहीं ।  
 कावड़ जूनी पड़ी एम हो सु० गुरु कहै इण व्याय  
 देख ले । बुढो भार खांचे कीम हो प्र० ॥ १५ ॥ बल-  
 वंत सुं भार खंचे नहीं । जूनी पड़ी कावड़ निरधार  
 हो प्र० - ज्यूं बुढा सुं भार चाले नहीं । तूं अन्तर  
 मांहि विचार हो प्र० ॥ १६ ॥ इण दृष्टान्त तूं देख ले

जीव काया नहीं एक हो प्र० संधी पंथ बतावियो तूं  
 छोड दे कुडी टक हो प्र० ॥ १७ ॥ राय कहै बुद्ध  
 थारी निरमली । थे तो मेल्या हेत अनेक हो मु० हूं  
 मुण नें अचरज हुवो । म्हारि तो हिर दे बेसे नहीं एक  
 हो मु० ॥ १८ ॥

## ॥ दोहा ॥

प्रभू पूछै सातमो, गुरु प्रते राजान ।  
 गुरु उत्तर दे किण विधि, मुण ज्यो सूरत दे कान ॥ १ ॥  
 एक द्विवस सभा मक्के, हूं बेठा करी मंडाण ।  
 कोटवाल इक चोरटो, माने सूंयो आण ॥ २ ॥

## ॥ ढाल १४ मी ॥

जीवता चोर नें तोलियोजी । करी मसोसी नें  
 घात । पारख्या करवा जीवनीजी । मैं खेरुं कियो  
 तोलमान ॥ मुनीश्वर किम सरधुं तुम बात ॥ १ ॥  
 मारी नें वले तोलियोजी । न घद्यो मूल लिगार । म्हारि  
 तो बेसे नहीं जी । थे मेलो भेद अपार ॥ मु० ॥ २ ॥  
 इण न्याय मत म्हारो खरोजी । जीव काया छै एक ।  
 साची श्रद्धा मांहरौ जी । थे तो मेलो हेत अनेक मु०  
 ॥ ३ ॥ चोर मुवे नें जीवतो जी । फेर पड़त तिलमात  
 तो न्यारा कर जाणतो जी । मानतो थारौ बात ॥ मु०

॥४॥ गुरु कहै बाय भरी दिवड़ी जी । दोठी छै तें राय ।  
 राय कहै दीठी अकैजी । तो सुण चित लगाय ॥ प्र० ॥  
 ५ ॥ बाय भरी तोली दिवड़ी जी । तोली काठी नें  
 बाय । घटे के न घटे सही जी । सुण उत्तर दे मुझ  
 राय ॥ प्र० ॥ ६ ॥ राय कहै बाय काय में जी । भार  
 नहीं मुनिराय । दूण न्याय तूं जाय ले जी । जूदा  
 जीव नें काय ॥ प्र० ॥ ७ ॥ असंख्या बाउ काय निसरी  
 जी । दिवड़ी माहीं घटाय । एकण जीव निकल्यांजी ।  
 राजा काय केस घटाय ॥ ८ ॥ तिण कारण तूं सरध  
 ले जी । जीव काया छै दोय । छोड दे खांच आछी  
 नहीं जी । तूं अन्तर विचारी जोय ॥ प्र० ॥ ९ ॥ राय  
 कहै थारी अकल सुंजी । मेलो ए दृष्टान्त । म्हारे तो  
 दिल वैसे नहीं जी । न मिटी मन री भांत ॥ सु० ॥  
 १० ॥ प्रश्न पूछूं आठमों जी हूंथाने निरधार । सांचौ  
 अज्ञा मांहरी जी । तो देज्यो अर्थ विचार ॥ सु० ॥ ११ ॥

## ॥ दोहा ॥

बांकी प्रश्न आठमो, गुरु नें पूछै राय ।  
 मोटे संडाणे करी, बैठो सभा वणाय ॥१॥  
 कोटवाल दूक चोरटो, आशी सुंधा मोय ।  
 पारखा करवा जीवरी, मैं टूकड़ा कीधा दोय ॥२॥

जद जीव नहीं देखियो, टूकड़ा कौधा चार ।

आठ सोला संख्या किया, जीव काया नहीं न्यार ॥३॥

जीव निकलतो देख नें, तो मानत मन साच ।

तिण कारण महा मुनि, म्हारो मत छे साच ॥४॥

## ॥ ढाल १५ सी ॥

गुरु कहै राजा तू एहवो ए । कठियारा सूरख  
 जेहवो ए । राय कहै वलि एम ए । कठियारा सूरख  
 केम ए ॥ १ ॥ गुरु बोल्या चोज लगाय ए । सांभल  
 प्रदेशी राय ए । कठियारा अटवी बाट में ए । भेला  
 हुवा चाल्या काठ नें ए ॥ २ ॥ आघा अटवी मांही  
 जाय ए । मिसलत कौधी मन मांय ए । कठियारा एकण  
 भणौ ए । दीनी भोलावण भोजन तणौ ए ॥ ३ ॥ रहे  
 काठ ले आवां इतरे ए । तूं भोजन त्यार करी जितरे  
 ए । लकड़ौ थोड़ी थोड़ी कर आपस्यां ए । थारि भारी  
 कर थापस्यां ए ॥ ४ ॥ तूं रखे प्रमाद में लाग ए ।  
 कदास बुझ जावेली आग ए । तो अरणी मांही सुं  
 काठ ए । देजे काम सिराणे चाठ ए ॥ ५ ॥ इम सीखा-  
 वण दीधी घणौ ए । आया चाल्या अटवी भणौ ए ।  
 लारे नींद तणे बग्न थाय ए । अग्न खीरो गयो बुझाय

ए ॥ ६ ॥ उठौने बले पेखियो ए । अग्न खीरो बुभियो  
 देखियो ए । किम निपजावुं आहार ए । ह्यांउं पर-  
 णी मांसुं फाड़ ए ॥ ७ ॥ कमर बांधी फरसी भाल ए ।  
 आयो अरणी पे चाल ए । घणो जो माया तो होय ए ।  
 अरणी टुकड़ा किया दोय ए ॥ ८ ॥ जब निजर न  
 पड़ी आग ए । अरणी चार आठ किया भाग ए ।  
 लाए असंख्याता रो ठीग कियो ए । तोही अग्न दि-  
 खालो नहीं दियो ए ॥ ९ ॥ रह्यो फावो फीटो होय ए ।  
 आ किसी विपद पग भोय ए । हूं अधन अपून्य अभाग  
 ए । हिवे काठूं किहथां आग ए ॥ १० ॥ मोनें सूंघ्यो  
 कुण जंजाल ए । फरसी दोनी हेठी राल ए । याद  
 आवे इम बातरा ए । मो ने कांसुं कहसी साथ रा  
 ए ॥ ११ ॥ रह्यो आरत ध्यान में ध्याय ए । बले नींचो  
 माथो घाल ए । इतरा में कठियारा आविया ए ।  
 आरत रा लखण पाविया ए ॥ १२ ॥ तूं आरत ध्यान  
 किम करे ए । बले बिलखी होय बोले तरे ए । थि  
 कारज गया भोलाय ए । मो सुं गरज सरी नहीं काय  
 ए ॥ १३ ॥ निद्रा कोष्ट या अग्नि तणी ए । सहुवात  
 कही साथ्यां भणी ए । अग्न न निकली लकड़ी मांय  
 ए । तिण सुं दुःख पड़ियो आय ए ॥ १४ ॥ तिण का-  
 रण हूं दिलगीर ए । भाई जाहां दुःख जाहां पीड

ए । मांही मांही सहु इम भणे ए । आपां रंघ्या भरो  
 से जठ लणे ए ॥ १५ ॥ इतरा में निपुण छै एक ए ।  
 चतुराई वंत विशेष ए । कला जाणे छै जे कर्तो ए ।  
 लकड़ी में लकड़ी घाल मयी ए ॥ १६ ॥ अग्न संदूषो  
 पाड़ ए । निपजाया च्याहूँ आहार ए । सनान संपाडो  
 कर बहु ए । परि पक पड़ा ने सहु हुवा सरु ए ॥ १७  
 ॥ भेला हुई भोजन करी ए । चलु करी नें मुख मुं-  
 कण घरी ए । जीमी नें ताजा होय ए । तिण नें कहै  
 सूरख जोय ए ॥ १८ ॥ ते क्रोध कियो घट मांय ए ।  
 ते में अकल दिसै न कांय ए । इम पाडी जे आग ए ।  
 संसार चतुर रो माग ए ॥ १९ ॥ कठियारो स्रूठ अया-  
 ण ए । लकड़ी सुं मांडी ताण ए । आग पड़ै नहीं  
 पारखो ए । राजा तूं कठियारा सारखो ए ॥ २० ॥  
 राजा पूछै गुरु भणी ए । स्वामी परषधा मिली अति  
 घणी ए । थे चतुर अवसर रा जाण ए । सोनें कठण  
 कहो को बाण ए ॥ २१ ॥ देखे परषधा लोग ए । था  
 नें सूरख कहणो जाग ए । गुरु कहै राजा एतली ए ।  
 परषधा चाली कौतली ए ॥ २२ ॥ जाणुं छूं स्वामी हूं  
 सही ए । परषधा च्यारे कहै ए । न्यारा न्यारा नांव  
 किसा ए । राय कहै हुवे जिसा ए ॥ २३ ॥ चत्री गाथा  
 पति ब्राह्मण तणी ए अष्टषिष्वरांरी चौथी भणी ए । गुरु

कहै तू जाये इसी ए । आरां अपरोध्यानि डण्ड  
 किसो ए ॥ २४ ॥ राजा रों खून करुं तरे ए । न्हान  
 केदी केदी नें पूरजो र करुं ए । तांहरो अपराधी थाय  
 ए । तन बाल तिण लगाय ए ॥ २५ ॥ ब्राह्मण रो अप  
 राधी घणो ए । लखण खान कागला पन तणो ए  
 गाल कूंडाला नें आकार ए । सोरदागदे सामे लिला  
 ड ए ॥ २६ ॥ ऋषिश्चरां सूं रहामो बह ए । तिण नें  
 डण्ड सूरख जड कहय ए ॥ २७ ॥ तें प्रश्न पूछो बां  
 कडा ए । तिकी क्रोध उघड टांकडा ए । म्हार तो  
 मन माह ए । तिल मात्र आवी नांह ए ॥ २८ ॥ त  
 बांकी चरचा पूछी घणो ए । तिण सूं जड सूरख कछो  
 तो भणो ए । बल तो बोले राय ए । स्वामी सांभलो  
 म्हारी वाय ए ॥ २९ ॥ हूं पहिलो प्रश्न पूछियो ए ।  
 म्हारी किरतव यानें सुभियो ए । म्हारी कही मनागम  
 बात ए । तबही समभो स्वामी नाथ ए ॥ ३० ॥ आडा  
 टिडा आण ए । में तो प्रश्न पूछा जाण ए । ज्ञान तणो  
 प्राप्त भणो ए । में तो बांकी चरचा पूछो घणो ए ॥ ३१ ॥  
 ज्यूं ज्यूं पूछूं बांकी तरे ए । ज्यूं ज्यूं जिण धर्म रो  
 खबर पडे ए । जाणवा जीव अजीव ए । समकित  
 चारित्रि नी नीव ए ॥ ३२ ॥ में मन में विचार इसी  
 क्रियो ए । जाणी नें बांकी बरतियो ए । जाण पणां सूं

सुधरे काज ए । बलता बोल्या मुनिराज ए ॥ ३३ ॥  
 जाणे कै राय तूं एतला ए । बोपारी चाल्या केतला ए ।  
 हां स्वामी जाणुं चार ए । त्यांरो न्यारो न्यारो विचार  
 ए ॥ ३४ ॥ ए कदे पिण करडो बोल ए । देरोसो  
 गंठिडी खोल ए । एक नरमाई करे घणो ए । पिण  
 समरथ न देवा भणी ए ॥ ३५ ॥ तीजा दे सन्मान बहु  
 परे ए । व्याज दाम मुख आगे धरे ए । बले नरमाई  
 करे घणी ए । बले भाव भगत बोरा तणी ए ॥ ३६ ॥  
 चौथी थारी खोटी नीत ए । पाछो देवगरी नहीं गीत  
 ए । बोरो आय मांगे तरे ए । बोले गाल धका धूमी  
 करे ए ॥ ३७ ॥ गुरु कहै च्यारां मांह ए । कुण विव-  
 हारियो कहाय ए । कुण न कहिये विवहारियो रे ।  
 राजा कहै जिम धारियो ए ॥ ३८ ॥ राय कहै व्योपारी  
 तीन ए । चौथो नहीं परबीण ए । बलता गुरु बोल्या  
 एतरे ए । तूं पहिला व्योपारी नौ परे ए ॥ ३९ ॥ बांका  
 प्रश्न वातां कहि ए । पिण जाणु ब्रत लेसी सही ए ।  
 अंन भगत रो पारखी ए । तूं पहिला बोपारी सारखी  
 ए ॥ ४० ॥ गुरु मिलिया ज्ञान भंडार ए । त्यां दिना  
 कै जाब विचार ए । खुसामदी नहीं काण ए । मुनि  
 बोल्या कै अमृत वाण ए ॥ ४१ ॥ प्रश्न कछा हित जुगत  
 ए । तिण सुं बेगी मिली मुगत ए । तूं शंका लूल न



राख ए । सूत्र राय प्रसेणी में साख ए ॥ ४२ ॥

## ॥ दोहा ॥

गुरु प्रते राजा कहै, थे चतुर अवसर रा जाण ।  
आप उपदेश भला कछा, निपुण गुणारी खांण ॥१॥  
शरीर में सुं जीव काठबा, थे समरथ छो अतीव ।  
आंवला प्रमाण हाथसे, मोनें काठ दिखालो जीव ॥२॥

## ॥ ढाल १६ मी ॥

तिण काले नें तिण समेंजी, राय प्रदेशी पास ।  
वृद्ध तणा जे पानड़ाजी । वाय हलावे तास ॥ मुनिश्वर  
उत्तर दे छै जी एम ॥ १ ॥ गुरु कहै राजा प्रतेजी, वृद्ध  
तणा जे पान । देव नाग वे किन्नराजी, जाव गंधव  
राजान ॥ मुनि० ॥ २ ॥ राय कहै नहीं देवताजी,  
गंध्रव नहीं ए हिलाय । वृद्ध तणा जे पानड़ाजी, हला  
वे वाजकाय ॥ मु० ॥ ३ ॥ गुरु कहै तूं देखे अब्जेजी ।  
रूप सहित वाजकाय । कर्म वेद ले श्या तेहनें जी ।  
मोह शरीर कषाय ॥ मु० ॥ ४ ॥ राय कहै देखूं नहीं  
जी । जब गुरु बोला एम । तूं वायु रूप देखे नहीं रे  
तो जीव देखालुं केम ॥ मु० ॥ ५ ॥ छमस्थ तो देखे  
नहीं रे, दश स्थानक रा जान । देख तो श्री केवली

जी । तू जीव काया जूदा मान ॥ मु० ॥ ६ ॥ सांभल  
 राय हर्षी घणो जी । ए रत्नारी खाण दशमो प्रश्न पूछू  
 वलिजी, मोटा ज्ञानी गुरु जाण ॥ मु० ॥ ७ ॥ ये कही  
 हाथी कंधवोजी, जीव बराबर होय । गुरु कहै राजा  
 तूं सांभले रे, जीव में फेर न होय ॥ मु० ॥ ८ ॥ तो  
 हाथी थी कंधवा रे, थोडा सा कर्म बंधाय । आकाया  
 आ सर्व अल्प है रे । बलि छोटी तिणारी काय ॥ मु०  
 ॥ ९ ॥ सोस उसास तो कंधवारे, इतना वा जिनराय  
 आहार निहार ओछे तेहनेजी । जीव बरोबर कहाय ॥  
 मु० ॥ १० ॥ ओछी ऋद्ध क्रांत कंधवा रे हाथी री मोटी  
 जाण गुरु कहै राजा इमज है रे, तूं शंका भूल न  
 आण प्रदेशी तूं सरध जूदा जीव काय ॥ ११ ॥ आप  
 कहो जीव सारसा जी, ओछी अधिको क्रांत । गुरु कहै  
 राजा तूं सांभले रे, दीवारो दृष्टान्त ॥ प्र० ॥ १२ ॥  
 गंभीर मोटी शाला हुवेरे । कोर्ड दीवो म्हैत्यो मांय ।  
 आडा जड़ किवाड़ ने रे, बलि छेती न राखे काय ॥ प्र०  
 ॥ १३ ॥ मांहे दीवो उजालियो रे, शाला में करे उ-  
 जास । वारे जोत न निसरै रे, इतरो ही करे प्रकाश  
 ॥ मु० ॥ १४ ॥ दीवा ऊपर डालो दियो रे, जोत इत-  
 रो ही दूर सकार । शाला में मांही बारणो जी, सगले  
 हुवे अंधार ॥ प्र० ॥ १५ ॥ सुडो कुडो नें सिरावलो रे ।

आधो पाथो जाण ॥ चाथे भाग नें सोलवें रे, जाव  
 बतीस चौष्ट प्रमाण ॥ प्र० ॥ १६ ॥ तिण दीवारा ठांक  
 णा सं दीवो ठांकि काय । तो पिण जोत मांही रहै रे,  
 बारे उजास न होय ॥ प्र० ॥ १७ ॥ चौसठ बहे तेह  
 नेजी, बारे उजास न थाय । इण दृष्टांते जीवडीजी  
 राजा रहे कै काया मांय ॥ प्र० ॥ १८ ॥ मोटी काया  
 बांधी जीवडे रे, तिहां करे घणो उद्योत । कर्म  
 घणा काया न्हानडी जी, तिण सुंदब गर्द जात ॥ प्र०  
 ॥ १९ ॥ इण दृष्टांते सरधले जी जूदा जीव नें, काया  
 ए जूदा कर सरधिया पिण मत छोडो नही जाय ॥  
 प्र० ॥ २० ॥

## ॥ दोहा ॥

प्रश्न पूछूं इग्यार मीं, मुनि उत्तर दीनो जाव ।  
 लोह बाणियो कच्ची तव, आई धरम री आव ॥ १ ॥  
 राय प्रदेशी गुरु प्रते, बोले जाडी हाय ।  
 पहलो प्रश्न हूं पूछियो, न्हारी कही मनोगत बात ॥ २ ॥  
 मैं जाणी नें पूछिया, आड़ा टेडा बैण ।  
 ज्ञान तणी प्राप्ते भणौ, धे मीलिया साचा सैण ॥ ३ ॥  
 दादा पड़ दादा तणो, दर पीडां रो राह ।  
 बडा बुढां रो सेवियो, किम कूटै स्वामी जाह ॥ ३ ॥

मैं खरो कर जाणियो, यांरो धर्म कै सार ।  
 पिण मो सुं कुटै नहीं, बडा बुढां रो भार ॥५॥  
 मत घणा दिन भालियो, छोडंतां आवे लाज ।  
 जिम कै तिमहिज हरण द्यो, थे मोटा मुनिराज ॥६॥  
 बचन सुखी राजा तयो, तब गुरु बोल्या एम ।  
 राजा तूं पिछतावसी, लोह बाणिया जेम ॥७॥  
 स्वामी कुख लोह बाणियो, कहे हुवो कै जेम ।  
 कृपा कर सुणाय द्यो, हूं सुणस्युं धर प्रेम ॥८॥

## ॥ ढाल १७ मो ॥

( देशो चोपाई नी )

गुरु बोल्या राय सांभल जेह, प्रभु इग्यारमां रो  
 उत्तर एह । केइक बाणियार धनरी चाह, भेला हुई  
 अटवी सांही जाय ॥ १ ॥ जांतां जांतां चाये उद्यान,  
 आगे आई लोहरी खान । निरधन रे ती लोहरो ज धन,  
 खान देखी सहु हरष्या मन ॥ २ ॥ जाण्यो दलिट्र  
 गयो ज दूर, लोहरो भार उपाड़ो पूर, सगला अत्यन्त  
 हुवा खुसाल, विण पर्ईसां ए मीलियो साल ॥ ३ ॥  
 आगा चाल्या धनरी चाय, तखो देखी आयो दाय ।  
 न्हाखयो सहु लोह रो भार, सगला तरवो बांधो भार

॥ ४ ॥ कछो मान लोह दीना राल, तरवो बांध लियो  
 तत्काल । इतरा मांही बाणियो एक, लोह नें सांगे  
 कियो विशेष ॥ ५ ॥ सगला साथी बोल्यो एम, तूं लोह  
 छो छोडि नहीं केम । तरवा थी लोह आवे घणो, भार,  
 छोड दे लोहड़ा तयो ॥ ६ ॥ तब पाछो बोलियो तिण  
 वार, मैं दूर थकी उपाड़्यो भार । खप कीनी न्हारी आ  
 जाय, तिण कारण छोडूं नहीं भाय ॥ ७ ॥ तिहां थीं  
 चाल आविरा गया, तब ते खान तांबा री लह्या ।  
 लोह न्हाख तांबे दियो घाल, उग मूरख रे वाहिव  
 बाल ॥ ८ ॥ आगे आर्क रूप सेनारो खान, डूमहिज  
 हीरा रतन वखाण । मणि दाणिक मेती आविया,  
 सगलां रे मन भाविया ॥ ९ ॥ न्हाखदियो सहु पिछलो  
 भार, बज्रहीरा बांध्या सार । उभे देखे लोह बाणियो ।  
 लोह भार रो मोह आवियो ॥ १० ॥ सगला कहे छोड  
 दे लोह, लोह थकी उतार दे मोह । बज्र हीरा रो लोह  
 आवे बहु, आपां सारीसा हुर्यां सहु ॥ ११ ॥ लोह  
 बाणियो बाल्यो वाय, छोडा मेलो करे बलाय । मैं तो  
 भार लीयो सैही लीयो, ये छोड मेल नें का सु  
 कियो ॥ १२ ॥ तब सगला मन में जाणियो, ए मूरख  
 दिसै लोह बाणियो । साथ्यां सीख दौधी छै घणी,  
 पिण मत न उपनी मूरख भणी ॥ १३ ॥ सगला पाछ

आया तिवार, आय पींहता अपणे घर बार । भारी  
 माल लाया बहु घरे, एक हीरा रा दमड़ा करे ॥ १४  
 तिण रा आव्या बहुला दाम, दाम थकी सिक्कै बहु काम  
 सत भोम्या बणाया आवास, तरुणी नार मिली त्यां  
 पास ॥ १५ ॥ मादल बाज रच्या धूंकार, बतीस विध  
 नाटक विस्तार । सेवक जोड़ खड़ा रहे हाथ, कीर्ई न  
 लोपि तेहनी बात ॥ १६ ॥ बिलस रच्या मन गमता  
 भोग, पुन्य थकी आय मिली संयोग । लोह वाणिये  
 मन में पास्यो सोग, हड़ हड़ हांसे सगला लोग ॥  
 १७ ॥ लोह नें बेच्यो गंठड़ी खाल, तिण रो मिली  
 अल्पसी माल । घोड़ा दिन में दियो निठाय । क्युंही  
 नाहीं लारे गर्ई खाय ॥ १८ ॥ घर में आई दलिट्र  
 भूख, भूख थकी देही गर्ई लूक । साथ्यां तणी मेहला-  
 यत देख नाटक क्रिया सुख विशेष ॥ १९ ॥ ज्यूं देखे  
 ज्यूं सोच करे, पकै गरज कही कुणसी सरे । अधन्य  
 अपुन्य अकृत पुन्य तणो, तूटती अभावस रो जख्यो ॥  
 २० ॥ दूरपन्त लखण ली वाय; सज्या दया रही, नहीं  
 काय । कछो न कख्यो साथ्यां तणो, पकै पिसतावो  
 थयो घणो ॥ २१ ॥ तेह तणी पर सांभल राय, रखे  
 तोने पिछता वो थाय । पहिली क्युं तूं कर्म बंधाय,  
 पकै हुवेली धर्मरी चाय ॥ २२ ॥

## ॥ दोहा ॥

लोह बाणिये जिम कियो, तिम छूँ न करूँ स्वाम  
धां सरिसा गुरु मेटिया, सरिया बंछित काम ॥  
प्रदेशी प्रति बुझियो, सांभल एं दृष्टान्त ।  
इत जुगत करी लारियो, मिलिया कीसी संत ॥  
स्वामी ये मोटा पुरुष, म्हांरा खोल्या अन्तर नै  
कृपा कर सुणाय दो, तुम मुख हंदा बैष ॥३॥  
मुनिवर दीनी देशना, मोटी परषवा मांय ।  
राय प्रदेशी आइ दे, सुणे सब चितलाय ॥४॥

## ॥ ढाल १८ - मी ॥

( विण जारारी देशी )

चेतन चेतो रे मनुष्य तयो भव पाय । प्रमाद में  
पड़ज्यो मती ॥ चेतन चेतोरे ॥ १ ॥ चेतन चेतो रे  
जरा रोग हुवे आय, सैंठा रहज्यो शूरा सती ॥ चेतन०  
॥ २ ॥ चेतन० बासी बसियो आय, जीव बटाउ पा-  
हुणो ॥ चे० ॥ ३ ॥ चेत० देहरी सूरका मति आण,  
कूडी मतकर चाकरी ॥ चे० ॥ चे० छोडी जासी प्राण,  
टेरी करसी राखरी ॥ चे० ॥ ४ ॥ चे० रोग न व्याप्या  
आय, पांचु इन्द्रीक सावतां ॥ चे० ॥ चे० ज्यां चेतन

घट मांहे, राखो धर्मरी जावता ॥ चे० ॥ ५ ॥ सत गुरु  
 नो ए सौख, ए अवसर मति चूकज्यो ॥ चे० ॥ चे०  
 पर निन्दा पर नार, तिण नेडा मत ठूकज्यो ॥ चे० ॥  
 ॥ ६ ॥ चे० पडै सगा नें सैण पडै संच्यो धन हाथ रो  
 । चे० । चे० बंधव त्रिया नें पृत, न पले धर्म जगनाथ  
 रो ॥ चे० ॥ ७ ॥ चे कर ज्यो ककु करतूत, ओ मनुष्य  
 तयो भव पाय नें ॥ चे० ॥ चे० मत द्यो नरक ना सूत  
 परनी चुगली खाव ने ॥ चे० ॥ ८ ॥ चे० आय न चाले  
 साथ, नारी सम्पत ते सही । चे० । चे० सह पाछै रह  
 जात छोड जासी निज देह सही ॥ चे० ॥ ९ ॥ चे०  
 हाथी हीं डोला नें हाट, ओरा आरसी सही । चे० ।  
 चे० तोने हुवेलो उचाट पाछै गरज सरे नहीं ॥ चे०  
 ॥ १० ॥ चे० जब लग स्वार्थ होय । तब लग मुख  
 जीजी करे । चे० । चे० स्वार्थ पुगां सोय । मुखदीठा  
 सुं लड पडै ॥ चे० ॥ ११ ॥ ए संसार सरूप । देखी  
 नें प्रति बुझज्यो । चे० । काम भोग महा कूप । तिण  
 मांही मत मुरझज्यो ॥ चे० ॥ १२ ॥ साध पणो ल्यो  
 सार । काम भोग त्यागन करो । चे० । श्रावक ना ब्रत  
 बार । शिवरमणि वेगा बरो ॥ चे० ॥ १३ ॥ अथिर  
 आछखो जाण । तन धन जीवन अथिर छै । चे० ।  
 पालो जिनवर आय पिछतावो न पडै पछै ॥ चे० ॥



१४ ॥ पायो वार अनन्त । आयु पल सागर तणो । चे०  
 । कोई अन्य न मिलियो संत । समकित रस जाण्यो  
 नहीं ॥ चे० ॥ १५ ॥ हुवा काल अनन्त भव सागर  
 रुलियो घणो । चे० वे न मिल्या साचा सन्त । धर्म  
 रस पाषो नहीं ॥ चे० ॥ १६ ॥ इत्यादिक उपदेश ।  
 जाव दृष्टान्त में जाणियो । चे । किसी स्वामी कहै रस ।  
 दया धर्म दिल आणज्यो ॥ चे० ॥ १७ ॥

## ॥ दोहा ॥

सुगुरु तणी नाणी सुणी, घणोज रिभ्यो राय ।  
 हाथ जोडी नें दूम कहै, में सरध्या तुमना वाय ॥१॥  
 परदेशी राजा हिवे, आवक ना ब्रत लीध ।  
 लागो रंग मजीठ जिम, जाणै असृत पीध ॥२॥  
 उठण लागो तिण समें, बिगर खुमायो जाय ।  
 आचारज रो हेत दे, दूम बोल्या मुनिराय ॥३॥

## ॥ टाल १९ मी ॥

जाणै छै राजा तूं वातरा ए । आचारज कितरी  
 जात रा ए । राय कहै जाणु स्वाम ए । आचारज तीन  
 ज नाम ए ॥ १ ॥ कला शिल्प धर्म आयरिया ए । तीनां  
 रा नाम में धारिया ए । गुरु कहै तूं जाणै इसी ए ॥  
 आंरो विनो भगत करवी किसी ए ॥ २ ॥ जाणु धर्म

वेहु' तणी ए । कला शिल्प आयरिया भणी ए । अश-  
 णादिक च्यारुं आहार ए । जिमाउं पूजा सत्कार ए  
 ॥ ३ ॥ सिनान मंजण नाहण करी ए । पुष्पादिक माला  
 मलधरी ए । देव पुष्प पहराय ए । तिके धुर पीढ्यां  
 लग खाय ए ॥ ४ ॥ एतो संसार रा गुरु कछ्या ए । राजा  
 वार अनन्तो लछ्या ए । हिवे धर्म आचारज तणी ए ।  
 सेवा भगत करी घणी ए ॥ ५ ॥ राय कृहै धर्म आचा  
 रज तणी ए । सेवा भगत करवी घणी ए । बन्दणा  
 सत्कार सन्मान ए । देणो चवदे प्रकार रो दान ए ॥  
 ६ ॥ बचन विना सुं भाषणी ए । ज्यांरो कुरव घणींही  
 राखणो ए । आणे मारग सुल ए । स्वामी कुण क्के गुरु  
 संम तुल्य ए ॥ ७ ॥ गुरु आप तिरे पर तार ए । स्वामी  
 गुरु विना घोर अंधार ए । ज्यां राखी गुरांरी प्रतित  
 ए । जिके गया जमारो जीत ए । गुरु दौवा बुरु देव  
 ए । नित्य कीजै गुरांरी सेव ए । इम बोला मुनिघाय  
 ए । सांभल प्रदेशी राय ए ॥ ८ ॥ एहवी चतुर विच-  
 क्षण जाण ए । म्हानि बोले बांकी बाण ए । थारं कां  
 सु आई दिल मांय ए । म्हारे विगर खमाया जांय ए ॥  
 १० ॥ हिवे सांभल ज्यो मुनिराय ए । म्हानि इसडी  
 आई मन मांय ए । नगर न्यातिला में मी तणी ए ।  
 स्वामी कुजश फौलरो क्के अति घणी ए ॥ ११ ॥ म्हारी

होती खोटी नीत ए । रहती घणा नें अप्रतिभ ए ।  
 रहती मिथ्या मत राच ए । कुण माने पापी रो साच  
 ए ॥ १२ ॥ म्हारो कुटम्बो लोग लाय ए । पक्के लाग  
 सुं थारो पाय ए । नर नारी जाणे जेहवो ए । ओ  
 अनड नमायो एहवो ए ॥ १३ ॥ तव बोला मुनिराय  
 ए । राय ज्युं तोने सुख थाय ए । हिवे नगरी मांही  
 थाय ए । कुटम्ब भेलो कियो राय ए ॥ १४ ॥ व्याही  
 न्याति लोग ए । घणार्ड मिलियो कै थोक ए । सूरि-  
 कन्तादिक राणियां ए । राजा राय वैसाणी नें आणीया  
 ए ॥ १५ ॥ अधिका धर्म सुं प्रेम ए । राजा चढियो  
 घोणक जेम ए । गजहोदे असवार ए । राजा चालो  
 मध्य बाजार ए ॥ १६ ॥ मृग वन नेडो आय ए । हेठो  
 उतरियो राय ए । देखै सह परवार ए । खमावे वार-  
 म्वार ए ॥ १७ ॥ लोक सह मन जाणियो ए । पापी नें  
 पडे आणियो ए । धन २ वीसी स्वाम ए । प्रदेशी रा  
 साया काम ए ॥ १८ ॥ लोक सह मन भारवियो ए ।  
 स्वामी इसडा नें नमावियो ए । मोटा जिन मारग वहे  
 ए । तो पावंडी दविया रहें ए ॥ १९ ॥ ओ धर्म कै  
 राजवियां तणो ए वले सांचे मन करै तां तणो ए ।  
 शूरवीर रो कै सही ए । इहां जात रो कारण नहीं ए ॥  
 २० ॥ समझो प्रदेशी राय ए । आयो घणा जगारी

हाथ ए । नरनारी वांछे आपणा ए । ते राजी हुवे ते  
घणार ए ॥ २१ ॥ देखा देखी बान्धे कामं ए । देखा देखी  
बाधे धर्म । ए इम सांभल नें नर नार ए । करज्यो आ-  
तस नो उद्धार ए ॥ २२ ॥

## ॥ दोहा ॥

बाण्णी सुग नें परबधा, हरप हुवी मन मांय ।  
सगत सारु ब्रत आदरी, आयो जिण दिश जाय ॥१॥  
उठण लागो तिण सभें, गुरु कहै रहजि ठौक ।  
पहली हुवे रमखीक तं, पछै मत हुवे अरमखीक ॥२॥  
रमखीक स्वामी किस हुवे, अरमखीक हुवे धीम ।  
जलता गुरु इसडौ कहै, राय सांभल हुवे जेम ॥३॥  
इच्छु खेत नें बाग खला, बले नटवारी शाल ।  
महली तो रमखीक हुवे, पछै अरमखीक हुवे भूपाल ॥४॥

## ॥ टाल २० मी ॥

इच्छु रहतो रे, ज्यांरा माका खेतोरे । लागार स-  
चालारे, त्यांरा बहै घणा जालारे । बहु भाजक भवोला  
रे भौड़ लागी रहे रे ॥ १ ॥ इच्छु रस पीलीजे रे, खाई  
ने दीजेरे । बोहला रस पीजे रे । देख देखने गीऊरे  
तब लागे हो रमखीक इच्छुरा खेत सुहायसा रे ॥ २ ॥

रस ले घर आया रे, ठिकाणे लंगाया रे । सूका नें  
 खेतो रे, मांहीं उडे रेतो रे जद लागे हो इचुरा खेत  
 अशोभता रे ॥ ३ ॥ हिवडा में वेठारे, थारा प्रणाम  
 सेंठारे । विहार कर जावां रे, अनेरा गावां रे । तोतूं  
 इचुरा खेत जिम राजिन्द मत हुवे रे ॥ ४ ॥ बाग गह  
 री छायां रे, मांजर ए आयां रे । बहु फूल नें फलिया  
 रे, फल नें भार ठलिया रे । तब लागे हो राजिन्द  
 वाग सुहावणा रे ॥ ५ ॥ कीर्द्ध आवे नें जावे रे, बहु  
 चीजां खावे रे । पामे रे तस साता रे, पान नीला  
 नें राता रे । तब लागे हो रमणीक वाग सुहावणा रे  
 ॥ ६ ॥ फागुण वाय वाजे रे, पान झडवाने लागे रे ।  
 निकल गया डाला रे, नहीं फल रसाला रे, तब काला  
 झंखर लागे हो वाग अशोभता रे ॥ ७ ॥ हिवडा में  
 वेठारे, थारा प्रणाम सेंठारे । विहार कर जावां रे,  
 अनेरा गावां रे । तो तूं फागुण रा वाग सम राजिन्द  
 मत हुजे रे ॥ ८ ॥ लाटा धान माहिजे रे, खाईं जे  
 नें दीजे रे । उपजे उदमादोरे, ठीग देवे अगाधोरे ।  
 तब जादा हो लाटा चैल लागी रहै रे ॥ ९ ॥ धुर नें  
 बले वोरा रे, मिलिया ठोड़ा ठोड़ा रे । हाकम लाटा  
 रे । डूंबडा २ वजार रे बले विणजारा सोदागर  
 सहणां भोमियां रे ॥ १० ॥ चोधरी पटवारी रे, तुला-

वट चारू रे । काय घका नुंगारे, कीई लेता चुंगारे  
 तब लागे हो लाटा राजिन्द सुहामणा रे ॥ ११ ॥ लाटा  
 ले चाल्यारे, धान ठिकाणे घाल्यारे । भीड़ की ते सह  
 भागीरे, रेत उडवा लागी रे । तब लागे हो राजा  
 लाटा अशोभता रे ॥ १२ ॥ हिवडां ती भ्लाभोरे, थारो  
 वर्ग ताजोरे । धर्म पायो रसीलो रे । रखे पड़ जाय  
 ढीलारे । ते तूं सटक बैरागी हो राजिन्द मत हुजारे  
 ॥ १३ ॥ नटवारी शालारे, गावे गीतरसाला रे । बाजा  
 ताल बजावे रे, सह देखणा आवेरे । तब लागे हो  
 नटवारी शाला सुहावणारे ॥ १४ ॥ जल सुं मुख धोवे  
 रे, हड़ताल लगावेरे । सांग नवां २ आणेरे । नाच  
 रूप रसाणे रे । जद लागे हो नटवारी शाल सुहा-  
 वणी रे ॥ १५ ॥ दिहाडो गया उगीरे, नाटक गयो  
 पूगी रे । लोग लागे ठिकाणेरे, नर लागे काम  
 खाणेरे । तब लागे हो नटवारी शाल अशोभतीरे  
 ॥ १६ ॥ ओजीके हुंतारे, कीई पड़िया ने सूतारे ।  
 मुख काज लटेरा रे, आंख्यां गींड भंखिरा रे । तब  
 लागे हो नटवारी शाल अशोभती रे ॥ १७ ॥ रहजेतूं  
 ठीका रे, तेने दोनी के सीखारे । च्याहूं रमणीकारे  
 धर्म पाल सदीकारे । ज्यूं तुंने टीकारे आवसी धर्म  
 तणो रे ॥ १८ ॥

( ८४ )  
॥ दोहा ॥

अरमणीक स्वामी नहीं हुवुं, न्हारे धम रा  
सात हजार गांव खालसे, जगारा करदेसु चार भाग  
एक भाग राख्या, निमत, दूजो भाग खजाना  
तीजो भाग घोड़ा हाथियां, चौथा भाग दान ॥१॥  
आप कन्हे ब्रत आदख्या, चोखा पालसु स्वाम  
सामायक पोसा करी, सारु आतम काम ॥३॥  
प्रदेशी डूम बोलियो, घर वैराग्य अतीव ।  
बेले बले पारखो, कराय हो जाव जीव ॥४॥  
डूम परतीत उपजाय नें, भेख्या गुरु ना पाय ।  
कर जोड़ी बन्द्या करी, आयो जिण दिण जाय ॥५॥  
कैसी सरीषा गुरु मिल्या, चित सरीषा प्रधान ।  
प्रदेशी पापी हुंती, आयो धर्म रे ठाम ॥६॥

॥ ढाल २१ मी ॥

प्रदेशी आवक ययो, नवतत्व खीरो जाण रे ।  
डिभायो डिगे नहीं, जो देव चलावे आणरे ॥ वैरागि  
मन बालीयो ॥ १ ॥ सामायक पोषा करे, शीलव्रत रो  
नेम रे । आछी पाले आंखड़ी, देव गुरु धर्म सुं प्रेमरे  
॥ वै० ॥२॥ दान दे चवदे प्रकार की, साधां नें निर्दा  
षरे । हाड मींजो धर्म सुं रंगी, मन लागो शिव

मोख रे ॥ वै० ॥ ३ ॥ देव गुरु धर्म परख नें, सेंठो  
 समकित धार रे । शंका कांखा मिट गई, रुचिया  
 प्रबचन सोर रे ॥ वै० ॥ ४ ॥ तिखादिन सुं ब्रत आदस्या  
 राज देश भण्डार रे बल बाहण राखां लखी, न करे  
 सार संभाल रे ॥ वै० ॥ ५ ॥ चाकर नफ़र परिवार  
 सुं उतरियो मन राग रे । पर भव की खरची भणी,  
 बात दिवस रह्यो लोगे रे ॥ वै० ॥ ६ ॥ बिले बिले पार-  
 यो, तपस्या करे अभङ्गरे । मोक्ष भणी उठ्यो सही,  
 करतो कर्मा सुं जङ्गरे ॥ वै० ॥ ७ ॥ करजे हुंती  
 राजवी, रुचियो जिन धर्म रे । लाम्यो रसायण एहवी  
 भाज गयो मन भ्रम रे ॥ वै० ॥ ८ ॥

## ॥ दोहा ॥

जगं लग धर्म पायो नहीं, करतो माठा पाप १  
 भासण रे मन भांवतो, मड़ती लोकां में छाप ॥१॥  
 सूरिकन्ता उपरे, हुंती घणोज प्यार ।  
 तिण नामें सुत जो दियो, सूरिकन्त कुवार ॥२॥  
 कुण बेटो कुण पोतरो, कुण नारी कुण भाय ।  
 स्वार्थ लग सहु की सगा, परमार्थ मुनिराय ॥३॥  
 राणी मन में जाणियो, दूण सुं न सरे काज ।  
 सूरिकन्त कुमार ने, लेई बैसाणु राज ॥४॥



## ॥ ढाल २२ मा ॥

हिवे राणी मन में जाणियो, ओतो भ्रम गया भू-  
पाल रे । लाला । सार करे नहीं राजरी, मेने लागे  
कुण जंजाल रे लाला ॥ जोय जो स्वार्थ का सगा ॥ १  
॥ एतो मुतलब केरा यार रे लाला जो मुतलब हूँ तो  
नहीं, तो छटक दिखाड़े केह रे । लाला । जोय जो  
॥२॥ दूण राजा सुं गरज सरे नहीं । नहीं चाले राजरी  
भार रे । लाला । किण ही जहरादिकरा जोग सुं, के  
न्हाखुं हूं मार रे । लाला ॥ जो० ॥ ३ ॥ एहवी करी  
ये विचारणा, ओतो कवर बुलायो पासरे । लाला ।  
जितरी हिरदा में उपनी, जेती कह सुनाई बातरै ।  
लाला ॥ जो० ॥ ४ ॥ बेटा थारा बाप नें मारतू, किण  
ही शस्त्रादिक रा जोगरे । लाला जूँ राज वेसाणुं  
तो भणी, न्हारे मिट जावि दुःख नें सोगरे । लाला ॥  
जो० ॥ ५ ॥ कुमर सुणी मन चिन्तवे, ओतो दुष्टणी  
दिसै मातरै । न्हारो पिता पिण पापी हुं तो, रहता  
लोही खरद्या हाथ रे ॥ लाला ॥ जो० ॥ ६ ॥ नां  
कहुं तो सो वुरी, हां कहूं तो न्हारो बापरै । ओतो  
अणबेलि उठी गया डर नें रछो चुप चापरै ॥ लाला ॥  
॥ जो० ॥ ७ ॥ कंवर अक्सर रो जाण के दूण पाछे न

दियो जावरे । जद राणी मन में जासीयो, हाहा गई  
 र्हारी आवरे ॥ लाला ॥ जो० ॥ ८ ॥ मैं तो कछो क्छो  
 हित भणौ, डूण रे न आई दायरे । कदास जाय कह-  
 सी बाप नें, तो पड़े गला में आय रे ॥ लाला ॥ जो०  
 ॥ ९ ॥ मन मांहीं चिन्ता अति घणौ, लाग रहौ उत्पा-  
 तरे । लाला । क्लार्ई अवसर देखो अटकली, पहिलां  
 कहां हूं घातरे । लाला ॥ जो० ॥ १० ॥ छल छिद्र  
 जोती फिरे, एकदिन अवसर जाण रे । धारे बेलारो  
 क्छे पारणो, सो र्हारे किजे आणरे । लाला ॥ जो० ॥  
 ११ ॥ बारबार करी बिनतौ, तव राजा मानी बातरे ।  
 लाला । आ भोजनरी त्यारी करै, करण कंधनी घातरे  
 लाला ॥ जो० ॥ १२ ॥ मुख ऊपर मीठीं लवे, बालि  
 वोहली प्रीतरे लाल । आ अन्तर घात खिले घणौ, आदु-  
 समण केरी बात रे लाला ॥ जो० ॥ १३ ॥ कुण माता  
 पिता नें कामणी, बले सजन सगानें भाय रे । ए दुस-  
 मण कपड़ा डीलरा कर्म उदै हुवा आयरे ॥ जो० ॥  
 १४ ॥ पहिलो सगपण पिउ तणो, दूसरो वारे व्रत  
 धारो रे । तीजा तपसी वैरागियो, राणी करुणा न  
 आयी लिगारी रे ॥ जो० ॥ १५ ॥ आवक व्रत लीधां  
 पछै, तप तेरे बेला कीधरे । एक कम चालीस दिन,  
 राजा जश रा नगरा दीध रे लाला ॥ जो० ॥ १६ ॥

द्वितीय आय रे ॥ जो० ॥ ११ ॥ राय प्रदेशा ज्ञान्या जरा  
 घणी रे, रघ्यो ज हड़ धर्म नें ध्यान रे । इसडी ती  
 जमा साधु करे रे, तो सही पाँमै केवल ज्ञान रे ।  
 जो० ॥ १२ ॥ तेरमा खेला ना छे पारणा रे, आलीदे  
 निन्दी निशत्य थाय रे । काल अक्सर मरणा लही  
 करी रे, ओ सूस्व्याभ देव हुवा कै जायरे ॥ जो० ॥  
 ॥ १३ ॥

इति प्रदेशी राजा क्री सिंध समाप्त



श्री श्री १०८ श्री जीतमलजी स्वामी कृत

उपदेश की ढाल लिख्यते ।

॥ दोहा ॥

अरिहन्त देव अराधिये, निर्मल गुरु निग्रन्थ ।  
धर्म जिन आज्ञा चितधरो, तत्व अमोलक तन्त्र ॥ १॥  
मुठ मिथ्यात मन मोहियार, थापे हिंसा धर्म ।  
षान्दे निर्गुण देव गुरु, ते भूल्या अज्ञानी भ्रम ॥ २॥  
कहै धर्म ने कारणे, प्राण हणयां नहीं पाप ।  
देव गुरु कारणे हणया, आज्ञा दे जिन आप ॥ ३॥  
इन कही विरुद्ध प्ररूपतर, नहीं आणे मन लोज ।  
देवल प्रतिमा कारणे, करे अनेक अकाज ॥ ४॥  
हिंसा धर्मी जीव ना, भाख्या फल भगवन्त ।  
ठाम ठाम सूत्र सध्ये, ते मुणजी करि खंत ॥ ५॥

॥ ढाल ॥

पृथ्वी हणि देवल प्रतिमा करावे, धर्म हते जीव  
मारै । त्यांने मन्द बुद्धि कल्या दशमें धंगे, वले पहले

ही आस्रव द्वारे रे । कुमत्यां थे हिंसाधम काद यामा ॥  
 ए आंकड़ी ॥ समण माहण काई हिंसा प्ररूपे, केदन  
 भेदन सीग । सूयगडांग अठारमें आख्यो, बाल्हारो पड-  
 सी विजोगरे ॥ कु० ॥२॥ आचाराङ्गरे चौथे अध्ययन,  
 दूजे उदेशे प्रमाण । धर्म हेत हणया दोष नहीं के, आ  
 अनारजरी बाणरे ॥ कु० ॥ ३ ॥ आचाराङ्गरे चौथे  
 अध्ययन, दूजे उदेशे जाणो । धर्म हेत काई जीव नहीं  
 हणना, ओ आरज वचन प्रमाणोरे ॥ कु० ॥ ४ ॥ जीव  
 जन्म मरण मुकाव्या, पामे अहेत अबोध । आचाराङ्गरे  
 पहले अध्ययन, पहले उदेशे साधरे ॥ कु० ॥ ५ ॥ आचा-  
 राङ्गरे चौथे अध्ययन, पहलो उदेशे पिछाणो । धर्म हेत  
 जीव नहीं हणना, तीन काल जिन बाणोरे ॥ कु० ॥  
 ६ ॥ प्रश्न व्याकरणरे पांचमें अध्ययन, प्रतिमा परिग्रह  
 में चाली । परिग्रह सेवी धर्म कहौने, कुमति हिये काई  
 घाली रे ॥ कु० ॥ ७ ॥ तीन मनोरथ आवक ना चालया,  
 ठाणांग तीजे ठाणे । आरम्भ परिग्रह छोडणारी भावना  
 ते सेव्यां धर्म किस जाणरे ॥ कु० ॥ ८ ॥ दशबैका-  
 लिक धर्म अहिंसा, दया ज्ञान रो सारो । सूयगडांग  
 पहले अध्ययन, चौथे उदेशे सभारो रे ॥ कु० ॥ ९ ॥  
 अठाइसमें उतराध्ययन में, मोक्ष ना मारग अमोक्ष ।  
 देवगुरु धर्म मोलरा थापो, आहीज मोटी मोलरे ॥ कु० ॥

१० ॥ धर्म ठिकाणे जीव हणो तो, दया किसी ठोड  
 माली । कुगुरां ना बहकाया आतमने, कांय लगावो  
 कालोरे ॥ कु० ॥ ११ ॥ उतराध्ययनरे बारमें अध्ययन,  
 तीर्थ शील बतायो । धे शत्रुंजादिक तीर्थ थापो,  
 ओई पिण झूठ चलायारे ॥ कु० ॥ १२ ॥ ज्ञान दर-  
 शणरा जतन करेते, यात्रा कही सुखदायो । ज्ञाता  
 सूत्र पांचमें अध्ययने तो याने तो खबर न कायो रे ॥ कु०  
 ॥ १३ ॥ इम ही महावीर सोमल ने, यात्रा भगवती में  
 भाखी । शतक अठारमें दशमें उदेशे, चारित्र जतन  
 ते यात्रा दाखीरे ॥ कु० ॥ १४ ॥ ठाम ठाम तीर्थ यात्रा  
 समेलक जिन कछो आगम माहिं । ते तीर्थ यात्रा  
 थासूं करनी न आवे, तिण सूं मांडी वोकलाईरे ॥  
 कु० ॥ १५ ॥ शत्रुंजय ने पर्वत कछो जिनेश्वर, पिण  
 तीर्थ न कछो लिगारो । अन्तगढ़ ज्ञाता सूत्र माहीं,  
 देखो पाठ उघाडोरे ॥ कु० ॥ १६ ॥ तीर्थ कहे तिण  
 माथे पग देवो, तिण पर चढो जूती सुधा । वले मल  
 सूत्र तिण ऊपर न्हाखी, त्यांरे लेखे ते पूरा ऊंधारे ॥  
 कु० ॥ १७ ॥ मुख सूं कहे मै चूर्णी टीका मानां, वले  
 माना आगम पेटाली । तेपिण बोल्यां रो नहीं ठिकाणो  
 त्यांरे कर्म तणी रेख कालीरे ॥ कु० ॥ १८ ॥ महा-  
 निशीष रे अध्ययन पांच में, कमलप्रभा कछो सोय ।

सावज पाप न सर्व जिनालय, त्याने मुठ न माने काय  
 रे ॥ कु० ॥ १९ ॥ मिथ्यातपणे द्रोपदी प्रतिमा पूजा,  
 एक थयां समयक्त पाई । गन्ध हस्त अचारज कक्षी छे,  
 ओघ निर्युक्ति वृत्ति मांडीरे ॥ कु० ॥ २० ॥ अश्वी संग-  
 सादिक प्रतिमा पूजा, तेहिज प्रतिमा खूर्वाभ पूजे । ते  
 जीत व्यवहार लौकिक रीत छे, ओघ निर्युक्ति वृत्ति न  
 सुभे रे ॥ कु० ॥ २१ ॥ भगवन्त ने वंदतां तथा दीक्षा  
 लेतां, कह्यो पेक्षा हियाए सुहाए लायो । तथा परलोक  
 हियाए सुहाए, राय प्रसेणि भगवती मांयोरे ॥ कु० ॥  
 २२ ॥ प्रतिमा पूजा तथा लाय सूं धन काढतां कह्यो  
 पच्छा हियाए सुहाए । राय प्रसेणी भगवती माहिं,  
 तिहां पेक्षा पाठ कह्यो नाहीरे ॥ कु० ॥ २३ ॥ प्रतिमा,  
 पूजे लाय सूं धन काढे, तिहां पेक्षा हियाए नहीं  
 कांहीं । भगवन्त ने वांदतां दीक्षा लेतां, तिहां पच्छा  
 पाठ छे नाही रे ॥ कु० ॥ २४ ॥ पच्छा हियाए ते इणभव  
 मांहि लौकिक खाते संगलीक । पेक्षा हियाए ते पर-  
 भव मांही, लौकीकर खाती तहतीक रे ॥ कु० ॥ २५ ॥  
 काई काहे जिन प्रतिमा पूजे, ते ती निसेस्ताए पाठ  
 लाव जाणे । ती खंधक ने अधिकारे लाय सूं धन  
 काढे, त्यां पिण निसेस्ताए पाठ पिछायोरे ॥ कु० ॥  
 २६ ॥ पच्छा पाठ लारे निसेस्ताए कह्यो छे, ते इण

भव मांहे द्रव्य मोक्ष जोय । लाय थकी धन वारो  
 काव्यां; दरिद्र ते मुक्तावो होयरे ॥ कु० ॥ २७ ॥ राज  
 वेसतां सूर्याभ प्रतिमा पूजी; त्यां पिण पच्छा पाठ लारै  
 निसेससाए । ते पिण इण भव में; विघ्न सेटण ने मोक्ष  
 मुहायरे ॥ कु० ॥ २८ ॥ तुंगीया नगरी ना श्रावकां  
 पिण, किया विघ्न सेटण ने द्रव्य मंगलीक । सरसव द्रोव  
 दही ने अन्नत, तिम सूत्राभ कियो लोकीकरे ॥ कु० ॥  
 २९ ॥ भगवन्त ने वांरतां दोक्षा लेतां, पेच्चा परलोए  
 लारै निसेससाए । तो लोकीत्तर खाते परलोक नी  
 मोक्ष; यो जाणो कर्म थकी मुकायरे ॥ कु० ॥ ३० ॥  
 भसम ग्रह उतरिया पाके, समण निग्रंथ नी उदै २ पूजा  
 थाय । ए प्रत्यक्ष पाठ कछो सूत्र में; ते पिण बिकलाने  
 खबर न कायरे ॥ कु० ॥ ३१ ॥ सिंघपट्टो कियो जिन  
 बल्लभ खरतरो; तिणतीर्थ यात्रा उडाई । जिन प्रतिमा  
 थापे करि पेट भरार्डे; भसम ग्रह प्रताप वतार्डेरे ॥ कु०  
 ॥ ३२ ॥ इत्यादिक प्रकरण टीका में; बोल कछा के  
 अनेक । ये कहो प्रकरण टीका म्है मानां; पिण बोल  
 नहीं मानो एकरे ॥ कु० ॥ ३३ ॥ जद कहे प्रकरण  
 टीका नहीं मानो तो, चारो नाम लेवो किणन्याय ।  
 सूत्र नी उत्तर कहूं इण ऊपरी, ते सुणजो चितलायरे  
 ॥ कु० ॥ ३४ ॥ सुखदेव ने कछो थावरचा पुत्र, सीमल



ने कच्छो महावीर । धारे ब्राह्मण सम्बन्धिया  
 कच्छो के, कुलथा मास मां भेद उदाररे ॥ कु० ॥ ३५ ॥  
 ब्राह्मण रा मत महावीर न माने, पिण त्यारे  
 साख दिखार्दे । ज्यं थाने प्रकरण री पिण साख बताई  
 भव जीव समझावण तार्दे ॥ कु० ॥ ३६ ॥ मुख सं कहे  
 प्रकरण सह मानां, तो इतरा बोल न मानो किण  
 लेखे । अभिन्तर आंख हिया री फूटी, आप भाख्यो  
 सामो नहीं देखरे ॥ कु० ॥ ३७ ॥ वले मुख सं कहे  
 जिन आज्ञा मानां, पिण आज्ञा री नहीं ठोक । आज्ञा  
 रो नाम लेई झूठ बोले, ओ प्रतज्ञ पाषंडीकरे ॥ कु०  
 ॥ ३८ ॥ सूर्याभ ने वांदन री आज्ञा, पिण नाटकरी  
 आज्ञा नहीं दीध । मन माहिं नाटक ने नहीं अलु-  
 मोद्यो, रायप्रसेणि प्रसिद्धरे ॥ कु० ॥ ३९ ॥ सर्वमान  
 जिन आगे नाटकरी, आज्ञा न दीधी तहतोक । तो  
 प्रतिमा आगे आज्ञा किम देशी, ओ तो पिण आंधां  
 ने नहीं के ठीकरे ॥ कु० ॥ ४० ॥ आज्ञा आज्ञा कर  
 रक्षा ए सुख, आज्ञा रा मुठ अजाण । भोलां ने भरम  
 में पाड बिगोया, ते पिण डूबे कर कर ताणरे ॥ कु०  
 ॥ ४१ ॥ जिन आज्ञा मांहि धर्म कच्छो, जिन आज्ञा  
 वारे नहीं अंश । ए समयत्त रा मूल मुठ अजाण,  
 ह्या रक्षा जीव निधंसरे ॥ कु० ॥ ४२ ॥ कही कही ने

कितरोएक कहुं, आज्ञा दया एक जाणो । पिण आज्ञा  
 रो निरणो करे न्याय वादी, तो पामें पद निरवाणोरे  
 ॥ कु० ॥ ४३ ॥ आज्ञा वारे कहे धर्म अज्ञानी, आज्ञा  
 मांही पाप मन भ्रान्त । द्रव्य लिङ्गी साधां रे भेष  
 माहीं, ते पिण हिंसा धर्मी री पांतरे ॥ कु० ॥ ४४ ॥  
 मुख सूं कहे म्हे दया धर्मी छां, चाले हिंसा धर्म री  
 चाल । जीव खवायां में धर्म प्ररूपे, तो मोह मिथ्यात  
 में लालरे ॥ कु० ॥ ४५ ॥ इव्रत सेवायां में धर्म प्ररूपे  
 पाप सेव्यां कहे पुण्य । त्यां ने ही हिंसा धर्मी जाणो,  
 त्यांरो श्रद्धा आचार जबूनरे ॥ कु० ॥ ४६ ॥ इम  
 सांभल उत्तम नर नारी, हिंसाधर्मी नो संग न कीजे ।  
 दया धर्मी जिन आज्ञा में चाले, त्यांरो सिद्धो शिर  
 पर धर लीजेरे ॥ कु० ॥ ४७ ॥ सम्वत अठारह से  
 नब्बे वर्षे, द्वितीय भाद्रवा सुद पांचम बुधवारो । हिंसा  
 धर्मी ओलखावण काजे, जोड़ कीधी वालीतरे शहर  
 सभारो रे ॥ कु० ॥ ४८ ॥

## ढल पलरुवचनुदु सूरि कृत

दुलहो नर भव पामणों जीवने, दुलहो श्रावक  
कुल अवतारो । गुणवन्त गुलनों संग के दोहिलो ते  
धामीने मत हारोरे ॥ प्राणी जीव दया व्रत पालो ॥  
गुरु सभ सांभल आगम बाणी । छे परमार्थ संभालोरे  
प्राणी जीव दया व्रत पालो ॥ १ ॥ आस्रव प्रति पक्ष  
संवर बोल्यो, तेहनी रहस्य विचारो, आरम्भ आस्रव  
संजम सम्बर, इमजाणी जीव म भारोरे ॥ प्राणी जी०  
॥ २ ॥ जीव सहते जीवणो वंछे, मरणी न वंछे कोई  
आपणो दुख के जिस के परनें, हिये विमासी जोईरे ॥  
प्राणी जी० ॥ ३ ॥ अंग उपाङ्ग शस्त्र धारा अणी सुं,  
नख चख छेदे मेदे कोई । जेहवी बेदनां मनुष्यने होवे  
तेहवी एकेन्द्रीने होईरे ॥ प्राणी जी० ॥ ४ ॥ जोजरा  
पुरुषने बलवन्त तरुणो, देवे सुष्ठि प्रहारो । जेदुःख वेदै  
तेहवो एकेद्रिनें, लीधां हाथ मभारोरे ॥ प्राणी जी० ॥  
५ ॥ समकित विन गज भव सुसला री, दया चीखै  
चित पाली । प्रति संसार कियो तिण्ठामें, मेघकुंमर  
हुयो दुखटालीरे ॥ प्राणी जी० ॥ ६ ॥ इभयदान दानां

मांहि मोटो, वले दान सुपात्रे दाख्यो । आगम सांभ-  
 लने जिनमत जीवो, लूल दयाधर्म भाष्योरे ॥ प्राणी  
 जी० ॥ ७ ॥ लोह शिला ज्यो तिरे सहोदधि, कदा  
 पश्चिम ऊगै भागा । सहज अग्नि परा शीतल होवै, तोही  
 हिंसा में धर्म स जाण्योरे ॥ प्राणी जी० ॥ ८ ॥ अग्नि  
 सींचिने कमल वधारे, चीर धोवा ने कादो आणे । ज्युं  
 कुगुरु प्रसंगे सूरख जानव, जीव हबो धर्म जाण्योरे ॥ प्राणी  
 जी० ॥ ९ ॥ आगम वेद पुराण कुरान में काह्यो  
 दया धर्म सारो । बलि जिनजी रा वचन सांचा जाणो  
 तो, कः काय जीवांन सत मारोरे ॥ प्राणी जी० ॥ ११ ॥  
 अर्थ अनर्थ धर्म जाण्योने, जीव हबो मन्द बुद्धि । प्रिय  
 धर्म काजि कः काय हबो त्यांरी, अज्ञा घयो कै ऊंधीरे ॥  
 प्राणी जी० ॥ १२ ॥ सूर्द्धरे नाके सींधडो पोवे, ते किम  
 आघो पैसे । हिंसा सांही धर्म प्ररुपे, ते सालो साल न  
 बेसरे ॥ प्राणी जी० ॥ १३ ॥ पिता विना पुत्र उपन्नो,  
 मा विन वेटो जायो । यों हिंसामें धर्म प्ररुपे, यो म्हने  
 अचरिज आयोरे ॥ प्राणी जी० ॥ १४ ॥ पार्श्वचन्द्र सूरि  
 भयो दूख परे, आखां सहित करुणा पाले । तेनर दुर्गति  
 ना दुखटाले ज्ञान कला उजवालेरे ॥ प्राणी जी० ॥  
 १५ ॥

चरन कमल चित्त नित नमं, प्रणमं शिर-नामी ।  
 सावथी नगरी पिता मात लक्षण अवगाहना । वर्ण आ-  
 ऊखे कुंवर पदे, तपस्या प्रमाणा । चारित्रं तपं प्रभुं  
 गुणानिला हे, कृद्मस्थ केवल नाण । तीर्थं गणधर केवली  
 जिन शासण प्रमाण ॥ १ ॥ देव लोक दशमें बीस सागर  
 पूरण थिती पाये । कुरडलपुर नगरी चवी, श्रीजिनवर  
 आये । पिता सिद्धार्थ पुत्र, माता लसलादे नंदा ।  
 ज्यांरी कुत्ते अवतस्या, श्री वीर जिगन्दा । ज्यांरे चरणे  
 लंछन सिंहनो हे, अवगाहना कर सात । तन कञ्चन  
 कर शोभता, ते प्रणम जगनाथ ॥ २ ॥ बहोतर वर्ष  
 नो आउखो, पायो सुखकारी । चौस वर्ष लग कुंवर  
 पदे रक्षा अभिग्रह धारी । सुमेर गिरि पर इन्द्र चौष्ठ  
 मिल सोखव कीधा । अनन्त वली अरिहन्त जाण, नाम  
 प्रभु वीरज दीधा । ज्यांरी मात पिता शुद्ध गत लक्षा  
 हे, पळे लियो संयम भार । तपस्या कीधी निरमली,  
 साडी वारै वर्ष मभार ॥ ३ ॥ नव चौमामी तपकियो  
 एक कियो छमासौ । पांच दिन ऊणो अभिग्रहो, छमास  
 चौमासौ । एक एक मासौ तप कियो, प्रभु द्वादश  
 विरियां । बोहतर पख छमास दोय विरिया कीधा  
 तीन अठाइ दोय तीन हे डेड दोय मासौ दोय । भव  
 सोभद्र महाभद्र तपकियो, इम सोला दिन होय ॥ ४ ॥

भिन्न नौ पड़िमां अष्ट भक्त नौ द्वादश कीनी । दोयसे  
 ने गुण तीस छठ तप गिणती लीनी । इग्यारे वर्ष  
 छ मास पचीस दिन तपस्या करी इग्यारे मास उग-  
 गिस दिवस हे पारणा भलिरा । इग्यविध प्रभुजी तप  
 कियो हे, पकै उपन्यो केवल नाण । तीस वर्ष जणा  
 विचरिया, ते प्रणमं बद्धमान ॥ ५ ॥ प्रथम अष्ट दूजो  
 प्रष्ट दोय चंपा भणिये । चतुर्दश नालंदि पाहड छः  
 मथुरा भणिये । भदलपुरना सब मिल अड़तीसज  
 गिणिये । एक आलम्बी एक सावथी हे एक अनार्यज  
 जाण । चर्म चौमासो पावापुरी, त्यां पहुंता निरबाण  
 ॥ ६ ॥ ज्यांरे मुनिवर चवदे सहस्र सहंस छतीसे आ-  
 र्जिका । एक लक्ष गुणसठ सहंस श्रावक तीन लाख  
 श्राविका । अधिक अठारा सहंस इग्यारे गण धरनी  
 माला । गौतम स्वामी बड़ा शिष्य सती चन्दन बाला ।  
 ज्यांरे केवल ज्ञानी सात सो हे प्रभु पहुंता निरबाण ।  
 शासन बरते स्वाम नो, इकवीस सहस वर्ष परमाण  
 ॥ ७ ॥ पुरब तीन से जाण, तेरेसे अवधिज ज्ञानी ।  
 मनपर्यव ज्ञानी पांच सात से केवल ज्ञानी । वेक्रे  
 लब्ध ना धार सात से मुनिवर कहिये । वादी चारसे  
 जाण, के चरचा भिन्न २ लहिये । एका एक संजम  
 लियो हे, प्रभु एका एक निरबाण । चौष्ट वर्ष लग

चालियो हे दर्शण केवल नाश ॥ ८ ॥ बारै नरवर एक  
 वृषभ, वृषभ दश हयवर । दश हयवर एक मेष, मेष पांच  
 से गज भयवर । पांच से गजहर एक सिंह, सिंह दोय  
 सहस्र अष्टापद । बीस लाख अष्टापद एक वासुदेव, दोय  
 वासुदेव एक चक्रहृद । कोड़ चक्रिया एक सुर गण्यो  
 हे कोड़ सुरां एक इन्द । इन्द अनन्ता सेना नमः  
 चिंटी आगुली अय जिण्ड ॥ ९ ॥ आप तणाजी प्रभु  
 गुण अनन्ता कोर्ड पार न पावे । लब्ध प्रभावे कोड़  
 कायो कर शीश बनावे । श्री श्री कोड़ा कोड़ बदन गुण  
 करे आवक ना कोड़ी कोड़ा सागर लगे हे, करुं ज्ञान  
 गुण सार । आप तणा जी प्रभु गुण अनन्ता मोसे  
 कहतां न आवे पार ॥ १० ॥ चवदे राज लोक बले  
 बालुनी कणिया । सर्व जीवनी रोम राय, नहीं जाये  
 गिणिया । एक एक बालुड़ी अनंत अनंत गुण करे  
 अनन्ता । पूज्य प्रसादे कहै लालचंद नहीं आवे अन्ता ।  
 सग्वत अठारे बासठे हे मास मृगसिर अरेरी छन्द ।  
 रामपुरे गुण गाविया । धन्य २ वीर जिणन्द ॥ ११ ॥


## ॥ ढाल उपदेशिक ॥

मति ताक हे नार विराणी ॥ ए आंकड़ी ॥ पर-  
 नारी हे काली नागण के विष बेल समाणी । तेज

मुणवन्त नें बालण छाणी ॥ मति० हेरी ए नर्क तणो  
निसाणी ॥ मति० ॥ १ ॥ रावन राय त्रिखण्ड नो  
माहिब, सीता हरि घर आणी । राम चव्या दाल बा-  
दल-लेकर माख्यो हे सारंग पाणी । कथा आगम मांहे  
प्राणी ॥ मति० ॥ २ ॥ पद्मोतर निज लाज गमाई,  
किचक नींच कहाणी । मनोरथ मुञ्चो मैणारच्या बश,  
अपजशनी अहनाणी । जग मांहे प्रगट कहाणी ॥ मति०  
॥ ३ ॥ गौ ब्राह्मण नें बाल हत्या, ऋष नार हत्या बले  
जाणी । तेह थी पाप अधिक पिण लागे, भाख्यो केवल  
नाणी । अनन्त दुःखारौ खाणी ॥ मति० ॥ ४ ॥ रत्न  
यत्न कर शीयल आराधो, क्रीडी ने कुमति प्राणी । मुक्त  
महेल नीं सहलं अचल सुख, मुक्त रमण निसराणी ।  
कहुं वीर जिगांदरी वाणी ॥ मति० ॥ ५ ॥ साल क्रिया  
सिय महा मन्दिर में, शील कथा सुबखाणी । शील  
विनां सहु जन्म अख्यारथ, क्या राजा क्या राणी । शील  
जश उत्तम प्राणी ॥ मति० ॥ ६ ॥



# अथ पच्चीस बोल



१ पहिले बोले गति च्यार ४

नर्कगति १ तिर्यंचगति २ मनुष्यगति ३ देव-  
गति ४

२ दूजे बोले जातिपांच ५

एकेन्द्री १ वेइन्द्री २ तेइन्द्री ३ चोइन्द्री ४  
पंचेन्द्री ५

३ तीजे बोले काया छव ६

पृथ्वीकाय १ अग्निकाय २ तेजकाय ३ वायु-  
काय ४ बनस्पतिकाय ५ जलकाय ६

४ चौथे बोले इन्द्री पांच ५

श्रोतइन्द्री १ चक्षु इन्द्री २ घ्राणइन्द्री ३ रस-  
इन्द्री ४ स्पर्शइन्द्री ५

५ पांचमें बोले पर्याय छव ६

आहारपर्याय १ शरीरपर्याय २ इन्द्रीय पर्याय  
शामोश्वासपर्याय ४ भाषापर्याय ५ मनपर्याय

## ६ छठे बोले प्राण १०

श्रोतेंद्री बलप्राण १ चक्षूइन्द्रीबलप्राण २ घ्राण  
इन्द्री बलप्राण ३ रसेन्द्रीबलप्राण ४ स्पर्शइन्द्री  
बलप्राण ५ मनबलप्राण ६ बचनबलप्राण ७ काया  
बलप्राण ८ श्वासोश्वास बलप्राण ९ आज्ञाबल  
प्राण १०

## ७ सातमें बोले शरीर पांच ५

औदारिक शरीर १ वैक्रियशरीर २ आहारिक  
शरीर ३ तेजसशरीर ४ कार्मणशरीर ५

## ८ आठवें बोले जोग पंद्राह १५

### ४ चारमनका

सत्यमनजोग १ असत्यमनजोग २ मिश्रमन जोग  
३ व्यवहारमनजोग ४

### ४ चारबचनका

सत्यभाषा १ असत्यभाषा २ मिश्रभाषा ३ व्यव-  
हार भाषा ४

### ७ सातकायाका

औदारिक १ औदारिक मिश्र २ वैक्रिय ३ वैक्रिय  
मिश्र ४ आहारिक ५ आहारिक मिश्र ६ कार्मण  
जोग ७

## ९ नवमें बोले उपयोग बारह १२

५ पांच ज्ञान

मतिज्ञान १ श्रुतिज्ञान २ अवधिज्ञान ३ मनप-  
र्यवज्ञान ४ केवलज्ञान ५

३ तीन अज्ञान

मतिअज्ञान १ श्रुतिअज्ञान २ विभक्तअज्ञान ३

४ चार दर्शन

चक्षुदर्शण १ अचक्षुदर्शन २ अवधिदर्शण :

केवल दर्शण ४

## १० दशमें बोले कर्म आठ ८

ज्ञानवर्गी कर्म १ दर्शणावर्गी कर्म २ वेदनी  
कर्म ३ मोहणी कर्म ४ आयुष्य कर्म ५ नामकर्म  
६ गोत्रकर्म ७ अंतरायकर्म ८

## ११ इग्यारामें बोले गुणस्थान चौदाह १४

१ पहिली मिथ्याती गुणस्थान ।

२ दूजो सादृखादान समदृष्टि गुणस्थान ।

३ तीजो मिश्र गुण स्थान ।

४ चौथो अब्रती समदृष्टि गुणस्थान ।

५ पांचमो देशविरती श्रावक गुणस्थान ।

- ६ ऋद्धो प्रमादी साधु गुणस्थान ।  
 ७ सातवीं अप्रमादी साधु गुणस्थान ।  
 ८ आठवीं नियट बादर गुणस्थान ।  
 ९ नवमो अनियट बादर गुणस्थान ।  
 १० दशमो सुक्ष्म संप्राय गुणस्थान ।  
 ११ इत्यारहमं उपशांति मोह गुणस्थान ।  
 १२ बारमूं क्षीण मोहनी गुणस्थान ।  
 १३ तेरमूं संयोगी केवली गुणस्थान ।  
 १४ चौदमूं अयोगी केवली गुणस्थान ।  
 १२ बारमें बोले पांच इन्द्रियांकी तेबीस विषय

श्रोत इन्द्रीकी तीन विषय

जीव शब्द १ अजीव शब्द २ मिश्र शब्द ३

चक्षु इन्द्रीकी पांच विषय

कालो १ पीलो २ धोलो ३ रातो ४ नीलो ५

घ्राण इन्द्रीकी दोय विषय

सुगन्ध १ दुर्गंध २

रस इन्द्रीकी पांच विषय

खट्टो १ मीठो २ कड़वो ३ कसायलो ४ तीखो ५

स्पर्श इन्द्रीकी आठ विषय

हलको १ भारी २ खरदरो ३ सुहालो ४ लूखो

५ चोपड़ो ६ ठण्डो ७ उन्हो ८

## १३ तेरमें बोले दश प्रकारका मिथ्याती

- १ जीवनें अजीव अइह ते मिथ्याती
- २ अजीवनें जीव अइह ते मिथ्याती
- ३ धर्मनें अधर्म अइह ते मिथ्याती
- ४ अधर्मनें धर्म अइह ते मिथ्याती
- ५ साधुनें असाधु अइह ते मिथ्याती
- ६ असाधुनें साधु अइह ते मिथ्याती
- ७ मार्गनें कुमार्ग अइह ते मिथ्याती
- ८ कुमार्गनें मार्ग अइह ते मिथ्याती
- ९ मोक्षग्यानें अमोक्षगया अइह ते मिथ्याती
- १० अमोक्षग्यानें मोक्षगया अइह ते मिथ्याती

## १४ चौदमें बोलें नवतत्वको जाण पणों तीका

### ११५ एकसो पंद्रराह बोल

१४ चौदाह जीवका—

सुक्ष्म एकेन्द्रीका दीय भेदः—

१ पहिलो अपर्याप्तो २ दूसरो पर्याप्तो

बादर एकेन्द्रीकादीय भेदः—

३ तीजो अपर्याप्तो ४ चौथो पर्याप्तो

बेइन्द्रीका दीय भेदः—

५ पांचमं अपर्याप्तो ६ छट्टो पर्याप्तो

तेद्वन्द्वीका दोय भेदः—

७ सातमं अपर्याप्तो ८ आठमं पर्याप्तो

चोद्वन्द्वीका दोय भेदः—

९ नवमं अपर्याप्तो १० दशमं पर्याप्तो

असन्नी पंचेन्द्वीका दोय भेदः—

११ द्वादशमं अपर्याप्तो १२ बारमं पर्याप्तो

सन्नी पंचेन्द्वीका दोय भेदः—

१३ तेरमं अपर्याप्तो १४ चौदमं पर्याप्तो

१४ चौदे अजीवका भेदः—

धर्मास्ति कायका ३ तीन भेदः—

खंध, देश, प्रदेश,

अधर्मास्ति कायका ३ तीन भेदः—

खंध, देश, प्रदेश,

आकाशास्ति कायका ३ तीन भेदः—

खंध, देश, प्रदेश,

कालको दशमं भेद ( ए दश भेद अरूपी है )

पुद्गलास्ति कायका ४ च्यार भेदः—

खंध, देश, प्रदेश, परमाणु

६ पुन्य नव प्रकारे

अन्नपुन्य १ पाणपुन्य २ लैणपुन्य \* ३ सयण-

\* लैण=जागां जमीनादिक ।

पुन्य \* ४ बल्यपुन्य ५ मनपुन्य ६ वचनपुन्य ७

कायापुन्य ८ नमस्कारपुन्य ९

१८ पाप अठारे प्रकारे:—

प्राणातिपात १ मृषावाद \* २ अदत्तादान ३

मैथुन ४ परिग्रह ५ क्रोध ६ मान ७ माया ८

लोभ ९ राग १० द्वेष ११ कलह १२ अभ्या-

ख्यान १३ पैशुन्य \* १४ परपरिवाद १५ रति-

अरति १६ मायामृषा १७ मिथ्यादर्शन शक्य १८

२० बीस आस्रवका:—

मिथ्यात्व आस्रव १ अब्रत आस्रव २ प्रमाद

आस्रव ३ कषाय आस्रव ४ जोग आस्रव ५

प्राणातिपात जीवन्तो हिंसा करैते आस्रव ६

मृषावाद झूठ बोलिते आस्रव ७ अदत्तादान

चोरी करैते आस्रव ८ मैथुन सवेते आस्रव ९

परिग्रह राखे ते आस्रव १० श्रुत इन्द्री मोकली

मेलि ते आस्रव ११ चक्षुइन्द्री मोकली मेलि ते

आस्रव १२ घ्राण इन्द्री मोकली मेलिते आस्रव

१३ रस इन्द्री मोकली मेलिते आस्रव १४ अपर्ण-

इन्द्री मोकली मेलिते आस्रव १५ मनप्रवर्तवि ते

\* सयन=पाट वाजोटा दिक ।

\* वाद=बोलना ।

\* पैशुन्य=चुगली ।

आस्रव १६ वचनप्रवर्तविते आस्रव १७ काया-  
प्रवर्तवि ते आस्रव १८ भण्डोपगरणमेलता अज-  
यणा \* करै ते आस्रव १९ सुई कुसाग्रमात्र  
सेवे ते आस्रव २०

२० बौस संवरकाः—

सम्यक् ते संवर १ व्रत ते संवर २ अप्रमाद ते  
संवर ३ अकषाय संवर ४ अजोग संवर ५  
प्राणातिपात न करे ते संवर ६ मृषावाद न  
बोले ते संवर ७ चोरी न करे ते संवर ८ मैथु न  
न सेवेते संवर ९ परिग्रह न राखे ते संवर १०  
श्रुत इन्द्री वश करे ते संवर ११ चक्षुइन्द्री वश  
करे ते संवर १२ घ्राणइन्द्री वश करे ते संवर  
१३ रसइन्द्री वश करे ते संवर १४ स्पर्शइन्द्री  
वशकरे ते संवर १५ मन वशकरे ते संवर १६  
वचन वश करे ते संवर १७ काया वश करे ते  
संवर १८ भण्डउपगरणमेलतां अजयणानकरे  
ते संवर १९ सुई कुसाग्र न सेवे ते संवर २०

१२ निरर्जरा बारै प्रकारैः—

अणसण \* १ उणोदरी \* भिजाचरी ३ रसपरि-

\* अजयणा=यत्नां । \* अणसण=उपवासादिक ।

\* उणोदरी=कमखानां ।



त्याग ४ वायाक्लेश ५ प्रतिसंलेषना ६ प्रायश्चित्त  
७ विनय ८ वैयावच्च ९ सिञ्जाय १० ध्यान  
११ विउसगग \* १२

४ बंध चार प्रकारे:—

प्रकृतिबंध १ स्थितिबंध २ अनुभागबन्ध ३  
प्रदेशबंध ४

४ मोक्ष चार प्रकारे:—

ज्ञान १ दर्शण २ चारित्र ३ तप ४

१५ पंद्रहमें बोले आत्मा आठ ८

द्रव्य आत्मा १ कषाय आत्मा २ योग आत्मा ३  
उपयोग आत्मा ४ ज्ञान आत्मा ५ दर्शण आत्मा  
६ चारित्र आत्मा ७ वीर्य आत्मा ८

१६ सोलहमें बोले दंडक चौबीस २४

१ सातनागकियां को एक दंडक

१० दशदंडक भवनपतिका:---

असुर कुमार १ नाग कुमार २ सोवन कुमार ३  
विद्युत कुमार ४ अग्नि कुमार ५ दीप कुमार ६  
उदधि कुमार ७ दिसा कुमार ८ वायु कुमार ९  
स्तनित कुमार १०

५ पांच थावरका पंच दंडकः—

पृथ्वीकाय १ अप्पकाय २ तैउकाय ३ वायुकाय  
४ बनस्पतिकाय ५

१ वेङ्गुन्दी को सतरमों

१ तेङ्गुन्दी को अठारमों

१ चौङ्गुन्दी को उगणीसमों

१ तिर्यञ्ज पंचेंद्री को बीसमों

१ मनुष्य पंचेंद्री को द्वादशबीसमों

१ बानव्यंतर देवतांको बाबीसमों

१ ज्योतिषी देवतांको तेबीसमों

१ बैमानिक देवतां को चौबीसमों

१७ सतरवें बोले लेश्या छः ६

कृष्ण लेश्या १ नील लेश्या १ कापोत लेश्या ३  
तेजुलेश्या ४ पद्म लेश्या ५ शुक्ल लेश्या ६

१८ अठारमों बोले दृष्टि तीन ३

सम्यक् दृष्टि १ मित्या दृष्टि २ सममिथ्या दृष्टि ३

१९ उगणीसवें बोले ध्यान च्यार ४

आर्तध्यान १ रौद्रध्यान २ धर्मध्यान ३ शुक्ल-  
ध्यान ४

## २० बीसमें बोले षट् द्रव्यको जाण पणो

धर्मास्तिकायनें पांचा बोलां ओलखीजे:—  
 द्रव्यथकी एक द्रव्य खेतथी लोक प्रमाणे काल  
 थकी आदि अन्त रहित भावथी अरूपी गुणथकी  
 जीव पुद्गल ने हालवा चालवा को साभ, अ  
 अधर्मास्तिकायनें पांचा बोलां ओलखीजे:—  
 द्रव्यथी एक द्रव्य खेतथी लोकप्रमाणे कालथकी  
 आदि अन्त रहित भावथो अरूपी गुणथी थिर-  
 रहवानों साभ । आकाशास्तिकायनें पांच बोल  
 करी ओलखीजे:—द्रव्यथी एक द्रव्य खेतथी  
 लोक अलोक प्रमाणे कालथी आदि अंत रहित  
 भाव थी अरूपी गुणथी भाजन गुण । कालनें  
 पांचा बोलां करी ओलखीजे:—द्रव्यथी अनन्ता  
 द्रव्य खेतथी अटार्ड द्वीप प्रमाणे कालथी आदि  
 अन्त रहित भावथी अरूपी गुणथी वर्त्तमानगुण ।  
 पुद्गलास्तिकायनें पांच बोलकरी ओलखीजे:—  
 द्रव्यथी अनन्ता द्रव्य खेतथी लोक प्रमाणे काल  
 थी आदि अन्त रहित भाव थी रूपी गुणथी गले  
 \* गले । जीवास्तिकायनें पांच बोल करी ओल-  
 खीजे:—द्रव्यथी अनन्ता द्रव्य खेतथी लोक प्रमाणे

कालथी आदि अंत रहित भावथी अरूपी गुणथी  
चैतन्य गुण ।

## २१ इकबीसमें बोलै राशि दोय २

जीवराशि १ अजीवराशि २

## २२ बावीसमें बोलै श्रावक का १२ वारे व्रत

१ पहिला ब्रत में श्रावक स्थावर जीव हणवाको  
प्रमाण करे और अस जीव हालतो चालतो  
हणवाका सउपयोग त्याग करे ।

२ दूजा ब्रत में मोटको झूठ बोलवाका सउपयोग  
त्याग करे ।

३ तीजा ब्रत में श्रावक राजडण्डे लोकभण्डे इसी  
मोटकी चोरी करवाका त्याग करे ।

४ चौथा ब्रत में श्रावक मर्यादा उपरांत मैथुन सेवा  
का त्याग करे ।

५ पांचमां ब्रत में श्रावक मर्यादा उपरांत परिग्रह  
राखवाका त्याग करे ।

६ छट्टा ब्रतके विषै श्रावक दशों दिशिमें मर्यादा  
उपरान्त जावाका त्याग करे ।

७ सातवां ब्रतके विषै श्रावक उपभोग परिभोग  
का बोल २६ छबीस के जिणारी मर्यादा उप-

रान्त त्याग करे तथा पन्द्रह कर्मादानकी मर्यादा उपरांत त्याग करे ।

८ आठमा व्रतके विषै श्रावक मर्यादा उपरांत अनर्थ दण्ड का त्याग करे ।

९ नवमां व्रतके विषै श्रावक सामायकको मर्याद करे ।

१० दशमां व्रतके विषै श्रावक देसावगासो संवरकी मर्याद करे ।

११ इगारमूँ व्रत में श्रावक पोषह करे ।

१२ बारमूँ व्रत श्रावक सुध साधु निर्घथनें निर्दीष आहार पाणी आदि चवदे प्रकार दान देवे ।

२३ तेवीसमें बोले साधुजीका पंच महाव्रत

१ पहिला महाव्रतमें साधुजी सर्वथा प्रकारे जीव हिंसा करे नहीं करावे नहीं करतानें भलो जाणे नहीं मनसे वचनसे कायासे ।

२ दूसरा महाव्रतमें साधुजी सर्वथा प्रकार भ्रूठ बोले नहीं बोलावे नहीं बोलतां प्रते भलो जाणे नहीं मनसे वचनसे कायासे ।

३ तीजा महाव्रतमें साधुजी सर्वथा प्रकारे चोरी करे नहीं करावे नहीं करतां प्रते भलो जाणे

नहीं मनसे वचनसे कायासे ।

४ चौथा महाव्रत में साधुजी सर्वथा प्रकारे मैथुन  
सेवे नहीं सेवावे नहीं सेवतां प्रते भलो जाणे  
नहीं मनसे वचनसे कायासे ।

५ पंचमां महाव्रत में साधुजी सर्वथा प्रकारे परि-  
ग्रह राखे नहीं रखावे नहीं राखतां प्रते भलो  
जाणे नहीं मनसे वचनसे कायासे ।

## २४ चौबीसमें बोलै भांगा ४९ गुणचास

करण ३ तीन जोग ३ तीनसे हुवे ।

करण ३ तीनका नाम—करूँ नहीं कराऊँ  
नहीं अनुमोदूँ, नहीं । जोग ३ तीनका नाम—  
मनसा, बायसा कायसा ।

आंक ११ इग्यारेकी भांगा ६:—

एक करण एक जोगसे कहणां, करूँ नहीं  
मनसा, करूँ नहीं बायसा, करूँ नहीं कायसा,  
कराऊँ नहीं मनसा, कराऊँ नहीं बायसा,  
कराऊँ नहीं कायसा, अनुमोदूँ नहीं मनसा,  
अनुमोदूँ नहीं बायसा, अनुमोदूँ नहीं  
कायसा ।

आंक १२ बाराकी भांगा ६:—

एक करण दीय जोगसे, करूँ नहीं मनसा  
बायसा, करूँ नहीं मनसा कायसा, करूँ नहीं  
बायसा कायसा, करारुं नहीं मनसा बायसा,  
करारुं नहीं मनसा कायसा, करारुं नहीं  
बायसा कायसा, अनुमोदूँ नहीं मनसा, बायसा  
अनुमोदूँ नहीं मनसा कायसा, अनुमोदूँ नहीं  
बायसा कायसा ।

आंक १३ तेराको भांगा ३ तीनः—

एक करण तीन जोगसे, करूँ नहीं मनसा  
बायसा कायसा, करारुं नहीं मनसा बायसा  
कायसा, अनुमोदूँ नहीं मनसा बायसा  
कायसा ।

आंक २१ को भांगा ६ः—

दीय करण एक जोगसे, करूँ नहीं करारुं  
नहीं मनसा, करूँ नहीं करारुं नहीं बायसा  
करूँ नहीं करारुं नहीं कायसा, करूँ नहीं  
अनुमोदूँ नहीं मनसा, करूँ नहीं अनुमोदूँ  
नहीं बायसा, करूँ नहीं अनुमोदूँ नहीं कायसा  
करारुं नहीं अनुमोदूँ नहीं मनसा करारुं  
नहीं अनुमोदूँ नहीं कायसा, करारुं नहीं  
अनुमोदूँ नहीं कायसा !

## ॥ अथ पानाकी चरचा ॥

जीव रूपीके अरूपी, अरूपी किणान्याय कालो पीलो नीलो रातो धोलो ए पांच वर्ण नहीं पावे इण न्याय ।

२ अजीव रूपीके अरूपी, रूपी अरूपी दोनू ही कै किणान्याय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश स्तिकाय काल ए च्यारुं तो अरूपी और पुङ्गलास्तिकाय रूपी ।

३ पुन्य रूपीके अरूपी, रूपी ते किणान्याय पुन्यते शुभ कर्म, कर्म ते पुङ्गल पुङ्गल ते रूपी ही कै ।

४ पाप रूपीके अरूपी, रूपी ते किणान्याय पापते अशुभ कर्म कर्मते पुङ्गल पुङ्गलते रूपी ही कै ।

५ आस्रव रूपीके अरूपी, अरूपीते किणान्याय आस्रव जीवका परिणाम कै, परिणामते जीव कै, जीव ते अरूपी कै, पांच वर्ण पावे नहीं इण न्याय ।

६ संवर रूपीके अरूपी, अरूपी किणान्याय पांच वर्ण पावे नहीं ।



आंक ३२ बत्तीसको भांगा ३ तीनः—  
तीण करण दोय जोगसें, करूं नही कराऊं  
नहीं अनुमोदूं नहीं मनसा बायसा, करूं नही  
कराऊं नहीं अनुमोदूं नहीं मनसा कायसा,  
करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदूं नहीं बायसा  
कायसा ।

आंक ३३ तेतीसको भांगो १ एकः—  
तीन करण तीन जोगसें, करूं नहीं कराऊं  
नहीं अनुमोदूं नहीं मनसा बायसा कायसा

२५ पच्चीसमें बोले चारित्र ५

सामायक चारित्र १ छेदोपस्थापनीय चारित्र  
पडिहार विशुद्ध चारित्र ३ सूक्ष्म संपर  
चारित्र ४ यथाच्चात चारित्र ५

॥ इति २५ पच्चीस बोले सम्पूर्णम् ॥



- आसरी निवद्य है अशुभ जोग सावद्य है ।  
६ संबर सावद्यके निर्वद्य निर्वद्य है ते किणन्याय  
कर्मा नें रोके ते निर्वद्य है ।  
७ निरजरा सावद्यके निर्वद्य निर्वद्य है ते किण  
न्याय कर्म तोडवारा परिणाम निर्वद्य है ।  
८ बंध सावद्यके निर्वद्य दोनूं नहीं ते किणन्याय  
अजीव है इण न्याय ।  
९ मोक्ष सावद्यके निर्वद्य, निर्वद्य है, सकल कर्म  
मूकाय सिद्ध भगवंत यथा ते, निर्वद्य है ।

## ॥ लडी तोजी आज्ञा मांहि बाहिरकी ॥

- १ जीव आज्ञा मांहि के बारे, दोनूं है ते किण-  
न्याय, जीवका चोखा परिणाम आज्ञा मांहि  
है, खोटा परिणाम आज्ञा बाहिर है ।  
२ अजीव आज्ञा मांहि बाहिर, दोनूं नहीं, अजीव  
है ।  
३ पुन्य आज्ञा मांहि के बाहिर दोनूं नहीं अजीव  
है इण न्याय ।  
४ पाप आज्ञा मांहि बारे दोनूं नहीं अजीव है ।  
५ आस्रव आज्ञा मांहिके बारे, दोनूं है, ते  
किणन्याय, आस्रव नां पांच भेद है तिणमें

- ७ निर्जरा रूपीके अरुपी अरुपी है ते किणन्याय निर्जरा जीवका परिणामके पांच वर्ण पावे नहीं इण न्याय ।
- ८ बंध रूपीके अरुपी, रूपी किणन्याय बंध ते शुभ अशुभ कर्म है, कर्म ते पुद्गल है, पुद्गल ते रूपी है ।
- ९ मोक्षरूपी के अरुपी अरुपी है ते किणन्याय समस्त कर्मासे मुक्तावे ते मोक्ष अरुपीते जीव सिद्ध थया ते मां पांच वर्ण पावे नहीं इणन्याय ।

## ॥ लड़ी दूजी सावद्य निर्वद्यकी ॥

- १ जीव सावद्यके निर्वद्य दोनूँ ही है ते किणन्याय चोखा परिणामां निर्वद्य खोटा परिणामासावद्य है ।
- २ अजीव सावद्य निर्वद्य दोनूँ नहीं अजीव है ।
- ३ पुन्य सावद्य निर्वद्य, दोनूँ नहीं अजीव है ।
- ४ पाप सावद्य निर्वद्य, दोनूँ नहीं अजीव है ।
- ५ आस्रव सावद्यके निर्वद्य, दोनूँ ही है किणन्याय मिथ्यात्व आस्रव अत्रत आस्रव प्रमाद आस्रव, कषाय आस्रव, ए चार तो एकान्त भावटा है प्राभ जोगां से निरजरा होय जिण

- आसरी निवद्य है अशुभ जोग सावद्य है ।
- ६ संवर सावद्यके निर्वद्य निर्वद्य है ते किणन्याय कर्मा नें रोके ते निर्वद्य है ।
- ७ निरजरा सावद्यके निर्वद्य निर्वद्य है ते किण न्याय कर्म तोडबारा परिणाम निर्वद्य है ।
- ८ बंध सावद्यके निर्वद्य दोनूं नहीं ते किणन्याय अजीव है इण न्याय ।
- ९ मोक्ष सावद्यके निर्वद्य, निर्वद्य है, सकल कर्म मूकाय सिद्ध भगवंत थया ते, निर्वद्य है ।

## ॥ लडी तोजी आज्ञा मांहि बाहिरकी ॥

- १ जीव आज्ञा मांहि के बारे, दोनूं है ते किण- न्याय, जीवका चोखा परिणाम आज्ञा मांहि है, खोटा परिणाम आज्ञा बाहिर है ।
- २ अजीव आज्ञा मांहि बाहिर, दोनूं नहीं, अजीव है ।
- ३ पुन्य आज्ञा मांहि के बाहिर दोनूं नहीं अजीव है इण न्याय ।
- ४ पाप आज्ञा मांहि बारे दोनूं नहीं अजीव है ।
- ५ आस्रव आज्ञा मांहिके बारे, दोनूं है, ते किणन्याय, आस्रव नां पांच भेद है तिणमें

मिथ्यात्वे अव्रत प्रमाद कषाय ए चार तो  
आज्ञा बाहिर छे अने जोग नां दोय भेद शुभ  
जोग तो आज्ञा मांहि छे अशुभ जोग आज्ञा  
बाहिर छै ।

६ संवर आज्ञा मांहि के बाहिर, आज्ञा मांहि छे  
ते किणान्याय कर्म रोकवारा परिणाम आज्ञा  
मांहि छै ।

७ निर्जरा आज्ञा मांहिके बाहर, आज्ञा मांहि छे  
ते किणान्याय कर्म तोडवारा परिणाम आज्ञा  
मांहि छै ।

८ बंध आज्ञा मांहिके बाहर, दोनू नहीँ ते किण-  
न्याय, आज्ञा मांहि बाहर तो जीव हुवे ए बंध  
तो अजीव छै इणान्याय ।

९ मोक्ष आज्ञा मांहिके बाहर; आज्ञा मांहि छे  
ते किणान्याय, कर्म लूँकाय सिद्ध यया ते आज्ञा  
में छै ।

॥ लड़ी चौथी जीव अजीवकी ॥

१ जीव ते जोव छै के अजीव, जीव । ते किणान्या  
सदाकाल जीवको जीव रहसि अजीव कदे हुवं  
नहीं ।

ते जीव के के अजीव छै, अजीव छै अजी-

वकी जीव किण ही कालमें हुवे नहीं ।

३ पुन्य जीव छै के अजीव छै, अजीव छै ते किण-  
न्याय पुन्यते शुभकर्म शुभ कर्मते पुद्गल छै पुद्गल  
ते अजीव छै ।

४ पाप जीव छै के अजीव छै, अजीव छै । किण-  
न्याय पाप ते अशुभ कर्म पुद्गल छै पुद्गल ते  
अजीव छै ।

५ आस्रव जीव छै के अजीव छै जीव छै, ते किण  
न्याय शुभ अशुभ कर्म ग्रहे ते आस्रव छै कर्म  
ग्रहे ते जीव ही छै ।

६ संवर जीवके अजीव, जीव छै ते किणन्याय  
कर्म रोके ते जीव ही छै ।

७ निर्जरा जीवके अजीव, जीव छै किणन्याय कर्म  
तोड़ै ते जीव छै ।

८ बंध जीवके अजीव छै, अजीव छै ते किणन्याय  
शुभ अशुभ कर्मको बंध अजीव छै ।

९ मोक्ष जीवके अजीव, जीव छै, किणन्याय समस्त  
कर्म लूकावे ते मोक्ष जीव छै ।

॥ लड़ी पांचवीं जीव चोरके साहूकार ॥

१ जीव चोरके साहूकार, दोनू छै किणन्याय

चोखा परिणामां साहकार है मांठा परिणामां चोर है ।

- २ अजीव चोरके साहकार दोनूँ नहीं किणन्याय चोर साहकार तो जीव हुवे ये अजीव है ।
- ३ पुम्य चोरके साहकार, दोनूँ नहीं अजीव है ।
- ४ पाप चोरके साहकार, दोनूँ नहीं अजीव है ।
- ५ आस्रव चोरके साहकार, दोनूँ है किणन्याय चार आस्रव तो चोर है, अने अशुभ जोग पण चोर है शुभ जोग साहकार है ।
- ६ संबर चोरके साहकार, साहकार है किणन्याय कर्म रोकवारा परिणाम साहकार है ।
- ७ निर्जरा चोरके साहकार, साहकार है किणन्याय कर्म तोड़वारा परिणाम साहकार है ।
- ८ बंध चोरके साहकार, दोनूँ नहीं अजीव है ।
- ९ मोक्ष चोरके साहकार साहकार किणन्याय कर्म मूँकायकर सिद्ध थया ते साहकार है ।

लडी छटी जीव छांडवा जोगके

आदरवा जोगकी ।

- १ जीव छांडवा जोगके आदरवा जोग छांडवा जोग है किणन्याय मेते जीवनूँ भाजन करे अनेरा

जीव पर ममत्व भाव न करे ।

२ अजीव छांडवा जोगके आदरवा जोग, छांडवा जोग है किणन्याय अजीव है ।

३ पुन्य छांडवा जोगके आदरवा जोग, छांडवा जोग है ते किणन्याय पुन्य ते शुभ कर्म पुद्गल है कर्म ते छांडवा ही जोग है ।

४ पाप छांडवा जोगके आदरवा जोग, छांडवा जोग है किणन्याय पाप ते अशुभ कर्म है जीवनें दुखदाई है ते छांडवा जोग है ।

५ आस्रव छांडवा जोगके आदरवा जोग, छांडवा जोग है किणन्याय आस्रव हारे जीवरे कर्म लागे है आस्रव कर्म आवानां वारणा है ते छांडवा जोग है ।

६ संबर छांडवा जोगके आदरवा जोग, आदरवा जोग है किणन्याय कर्म रोके ते संबर है ते आदरवा जोग है ।

७ निर्जरा छांडवा जोगके आदरवा जोग, आदरवा जोग है किणन्याय देशथी कर्म तोडे देशथी जीव उज्जल थाय ते निर्जरा है ते आदरवा जोग है ।

८ बन्ध छांडवा जोगके आदरवा जोग, छांडवा



जोग है, ते किगन्याय शुभ अशुभ कर्म नो बन्ध छांडवा जोगही है ।

६ मोक्ष छांडवा जोगके आदरवा जोग आदरवा जोग ते किगन्याय सकल कर्म खपावे जीव निरमल थाय सिद्ध हुवे इगन्याय आदरवा जोग है ।

॥ षट्द्रव्यपरलडी सातमी रूपी अरूपी की ॥

१ धर्मास्ति काय रूपीके अरूपी, अरूपी किगन्याय पांच वर्ण नहीं पावे इगन्याय ।

२ अधर्मास्ति काय रूपीके अरूपी, अरूपी किगन्याय पांच वर्ण नहीं पावे इगन्याय ।

३ आकाशास्तिकाय रूपीके अरूपी, अरूपी किगन्याय पांच वर्ण नहीं पावे इगन्याय ।

४ काल रूपीके अरूपी, अरूपी, किगन्याय पांच वर्ण नहीं पावे इगन्याय ।

५ पुद्गल रूपीके अरूपी, रूपी किगन्याय पांच वर्ण पावे इगन्याय ।

६ जीव रूपीके अरूपी अरूपी किगन्याय पांच वर्ण नहीं पावे इगन्याय ।

## ॥ छव द्रव्यपर लडी आठमी सावद्य निर्वद्यकी ॥

- १ धर्मास्ति काय सावद्यके निर्वद्य, दोनूं नहीं अजीव है ।
- २ अधर्मास्ति काय सावद्यके निर्वद्य, दोनूं नहीं अजीव है ।
- ३ आकाशास्ति काय सावद्यके निर्वद्य दोनूं नहीं अजीव है ।
- ४ काल सावद्यके निर्वद्य, दोनूं नहीं अजीव है ।
- ५ पुद्गलास्ति काय सावद्यके निर्वद्य, दोनूं नहीं अजीव है ।
- ६ जीवास्तिकाय सावद्यके निर्वद्य, दोनूं है खोटा परिणामा सावद्य के चोखा परिणामा निर्वद्य है ।

## ॥ छवद्रव्यपर लडी नवमी आज्ञामांहिवाहरेको ॥

- १ धर्मास्ति काय आज्ञा मांहिके बाहर दोनूं नहीं ते किण न्याय आज्ञा मांहि बाहर तो जीव है । अने ए अजीव है ।
- २ अधर्मास्ति काय आज्ञा मांहिके बाहर दोनूं नहीं किणन्याय अजीव है ।
- ३ आकाशास्ति काय आज्ञा मांहिके बाहर दोनूं नहीं किणन्याय अजीव है ।

४ काल आज्ञा मांरिके बाहिर दोनू नही किय  
न्याय अजीव है ।

५ पुद्गल आज्ञा मांरिके बाहिर दोनू नही किय-  
न्याय अजीव है ।

६ जीव आज्ञा मांरिके बाहिर दोनू के कियन्याय  
निर्वद्य करणी आज्ञा मांरिके है सावद्य करणी  
आज्ञा बाहर है दूगन्याय ।

### ॥ छव द्रव्यपर लडी दशमी चोर साहकारकी ॥

१ धर्मास्ति काय चोर के साहकार दोनू नही  
कियन्याय चोर साहकार तो जीव है ए धर्मास्ति  
काय अजीव है दूगन्याय ।

२ अधर्मास्ति काय चोरके साहकार दोनू नही  
अजीव है ।

३ आकाशास्ति काय चोरके साहकार दोनू नही  
अजीव है ।

४ काल चोरके साहकार दोनू नही अजीव है ।

५ पुद्गल चोरके साहकार दोनू नही अजीव है ।

६ जीव चोरके साहकार, दोनू के कियन्याय  
माठा परिणाम आसरी चोर के चोखा परिणाम  
है ।

## ॥ छव द्रव्यपर लड़ी इग्यारमी जीव अजीवकी ॥

- १ धर्मास्ति काय जीवके अजीव, अजीव है ।
- २ अधर्मास्ति काय जीवके अजीव, अजीव है ।
- ३ आकाशास्ति काय जीवके अजीव, अजीव है ।
- ४ काल जीवके अजीव, अजीव है ।
- ५ पुद्गलास्ति काय जीवके अजीव, अजीव, है ।
- ६ जीवास्ति काय जीवके अजीव, जीव है ।

## ॥ छव द्रव्यपर लड़ी बारमी एक अनेक की ॥

- १ धर्मास्ति काय एक है के अनेक, है एक है, किणन्याय, द्रव्यथकी एकही द्रव्य है ।
- २ अधर्मास्ति काय एक है के अनेक है एक है, द्रव्यथकी एकही द्रव्य है ।
- ३ आकाशास्ति काय एकके अनेक, एक है, लोक अलोक प्रमाणे एकही द्रव्य है ।
- ४ काल एक है के अनेक है, अनेक है द्रव्यथकी अनन्ता द्रव्य है इगन्याय ।
- ५ पुद्गल एक हैके अनेक है, अनेक है, द्रव्य थकी अनन्ता द्रव्य है इगन्याय ।
- ६ जीव एक है के अनेक है, अनेक है द्रव्यथकी अनन्त द्रव्य है इगन्याय ।

## ॥ लडी तेरमी ॥

छवमें नवमेंकी चरचा ।

- १ कर्मां को कर्ता छव द्रव्यमें कोण नव तत्वमें कोण उत्तर छवमें जीव नवमें जीव आस्रव ।
- २ कर्मांको उपावता छवमें कोण नवमें कोण उ० छवमें जीव नवमें जीव आस्रव ।
- ३ कर्मांको लगावता छवमें कोण नवमें कोण उ० छवमें जीव नवमें जीव आस्रव ।
- ४ कर्मांको गोकता छवमें कोण नवमें कोण उत्तर छवमें जीव नवमें जीव संवर ।
- ५ कर्मांको तोड़ता छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव निर्जरा ।
- ६ कर्मांको ब्राह्मता छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव आस्रव ।
- ७ कर्मांको मुक्तावता छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव मोक्ष ।

## ॥ लडी चौदमी ॥

- १ अठारि पाप सेवे ते छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव आस्रव ।

२ अठारे पाप सेवाका त्याग करे ते छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव संवर निर्जरा ।

३ सामायक छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव संवर ।

४ व्रत छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव संवर ।

५ अब्रत छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव आस्त्रव ।

६ अठारे पापको बहरक्षण छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव संवर ।

७ पञ्च महाव्रत छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव, नवमें जीव संवर ।

८ पांच चारित्र्य छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव, नवमें जीव, संवर ।

९ पांच सुमती छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव, नवमें जीव, निर्जरा ।

१० तीन गुप्ती छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव नवमें जीव, संवर ।

११ वारे व्रत छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव, नवमें जीव, संवर ।

१२ धर्म छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव, नव

में जीव, संवर, निर्जरा ।

१३ अधर्म छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव,  
नवमें जीव, आस्रव ।

१४ दया छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव,  
नवमें जीव, संवर, निर्जरा ।

१५ हिंसा छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव,  
नवमें जीव, आस्रव ।

## ॥ लडी १५ पंदरमी ॥

१ जीव छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव,  
नवमें जीव, आस्रव, संवर, निर्जरा ।

२ अजीव छवमें कोण नवमें कोण छवमें पांच  
नवमें अजीव, पुन्य, पाप, बंध ।

३ पुन्य छवमें कोण नवमें कोण छवमें पुद्गल,  
नवमें अजीव, पुन्य, बंध ।

४ पाप छवमें कोण ? नवमें कोण ? छवमें पुद्गल,  
नवमें अजीव, पाप बंध ।

५ आस्रव छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव,  
नवमें जीव, आस्रव ।

६ संवर छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव,  
नवमें जीव, संवर ।

- ७ निर्जरा छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव  
नवमें जीव, निर्जरा ।
- ८ बंध छवमें कोण नवमें कोण छवमें पुद्गल, नवमें  
अजीव, पुण्य, पाप, बंध ।
- ९ मोक्ष छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव,  
नवमें जीव, मोक्ष ।

## ॥ लडी १६ सोलहमी ॥

- १ धर्मास्ति छवमें कोण नवमें कोण छवमें धर्मास्ति,  
नवमें अजीव ।
- २ अधर्मास्ति, छवमें कोण नवमें कोण छवमें  
अधर्मास्ति, नवमें अजीव ।
- ३ आकाशास्ति, छवमें कोण नवमें कोण छवमें  
आकाशास्ति, नवमें अजीव ।
- ४ काल छवमें कोण नवमें कोण छवमें काल,  
नवमें अजीव ।
- ५ पुद्गल छवमें कोण नवमें कोण छवमें पुद्गल,  
नवमें अजीव, पुण्य, पाप बंध ।
- ६ जीव, छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव,  
नवमें जीव, आस्रव संबन्ध, निर्जरा मोक्ष ।



## ॥ लडी १७ सतरमी ॥

- १ लेखण ( कलम ) पूठो, कागद को पानों, लकड़ी को पाटी, छवमें कोण नवमें कोण छवमें पुद्गल, नवमें अजीव ।
- २ पात्रो, रजोहरण, चादर चोलपट्टो आदि भण्ड उपगरण, छवमें कोण नवमें, कोण छवमें पुद्गल नवमें अजीव ।
- ३ धानको दायों, छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव, नवमें जीव ।
- ४ रूख ( वृक्ष ) छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव, नवमें जीव ।
- ५ तावडो कायां छवमें कोण नवमें कोण छवमें पुद्गल, नवमें अजीव ।
- ६ दिन रात छवमें कोण नवमें कोण छवमें काल, नवमें अजीव ।
- ७ श्रीसिद्ध भगवान छवमें कोण नवमें कोण छवमें जीव, नवमें जीव मोक्ष ।

## ॥ लडी १८ अठारमी ॥

- १ पुन्य और धर्म एककी दोय, दोय किणन्याय, पुन्य तो अजीव है, धर्म जीव है ।

- २ पुन्य और धर्मास्ति एक के द्योय, द्योय, किण-  
न्याय, पुन्य तो रूपी है धर्मास्ति अरूपी है ।
- ३ धर्म और धर्मास्ति एक के द्योय, द्योय, किण-  
न्याय, धर्म तो जीव है, धर्मास्ति अजीव है ।
- ४ अधर्म और अधर्मास्ति एक के द्योय द्योय,  
किणन्याय, अधर्म तो जीव है, अधर्मास्ति  
अजीव है ।
- ५ पुन्य अने पुन्यवान एक के द्योय द्योय, किण-  
न्याय, पुन्य तो अजीव है पुन्यवान जीव है ।
- ६ पाप अने पापी एकके द्योय द्योय, किणन्याय,  
पाप तो अजीव है, पापी जीव है ।
- ७ कर्म अने कर्मा की करता एकके द्योय द्योय,  
किणन्याय, कर्म तो अजीव है, कर्मारो करता  
जीव है ।

## ॥ लडी १९ उन्नीसमी ॥

- १ कर्म जीव के अजीव अजीव ।
- २ कर्म रूपीके अरूपी रूपी है ॥
- ३ कर्म सावद्यके निरवद्य, दोनू नहीं अजीव है ।
- ४ कर्म चोरके साहूकार, दोनू नहीं, अजीव है ।
- ५ कर्म आज्ञा मांहिके बाहर, दोनू नहीं अजीव है ।

६ कर्म छांडवा जोग के आदरवा जोग, छांडवा जोग है ।

७ आठ कर्माँ से पुन्य कितना पाप कितना ज्ञानावर्गी, दर्शणावर्गी, मोहनीय, अन्तराय, ए च्यार कर्म तो एकान्त पाप है, बेदनी, नाम, गोत्र, ब्राह्म ए च्यार कर्म पुन्य पाप दोनूँ हीं है ।

### ॥ लडी २० बीसमी ॥

१ धर्म जीव के अजीव जीव है ।

२ धर्म सावद्य के निरवद्य निरवद्य है ।

३ धर्म आज्ञा मांहि के बाहर श्री वितराग देवकी आज्ञा मांहि है ।

४ धर्म चोर के साहकार साहकार है ।

५ धर्म रूपी के अरूपी अरूपी है ।

६ धर्म छांडवा जोग के आदरवा जोग आदरवा जोग है ।

७ धर्म पुन्य के पाप दोनूँ नहीं क्लिष्टवाय धर्म तो जीव है पुन्य पाप अजीव है ।

### ॥ लडी २१ इकीसमी ॥

१ अधर्म जीव के अजीव जीव है ।

- २ अधर्म सावद्य के निरवद्य सावद्य है ।
- ३ अधर्म चोर के साहूकार चोर है ।
- ४ अधर्म आज्ञा मांहि के बाहर, बाहर है ।
- ५ अधर्म रूपी के अरूपी रूपी है ।
- ६ अधर्म छांडवा जोग के आदरवा जोग छांडवा जोग है ।

## ॥ लड़ी २२ बाइसमी ॥

- १ सामायक जीव के अजीव जीव है ।
- २ सामायक सावद्य के निरवद्य निरवद्य है ।
- ३ सामायक चोर के साहूकार साहूकार है ।
- ४ सामायक आज्ञामांहि के बाहर आज्ञा मांहि के ।
- ५ सामायक रूपी के अरूपी अरूपी है ।
- ६ सामायक छांडवा जोग के आदरवा जोग आदरवा जोग है ।
- ७ सामायक पुन्यके पाप दोनूँ नहीं, किणन्याय पुन्य पाप अजीव है, सामायक जीव है ।

## ॥ लड़ी २३ तेवीसमी ॥

- १ सावद्य जीव के अजीव जीव है ।
- २ सावद्य सावद्य के के निरवद्य सावद्य है ।

- ३ सावद्य आज्ञा मांहि के बाहर बाहर है ।
- ४ सावद्य चोर के साहूकार चोर है ।
- ५ सावद्य रूपी के अरूपी अरूपी है ।
- ६ सावद्य छांडवा जोग के आदरवा जोग छांडवा जोग है ।
- ७ सावद्य पुन्य, के पाप दोनूं नहीं, पुन्य, पाप तो अजीव है, सावद्य जीव है ।

## ॥ लड़ी २४ चोवीसमी ॥

- १ निरवद्य जीव के अजीव जीव है ।
- २ निरवद्य सावद्य के निरवद्य निरवद्य है ।
- ३ निरवद्य चोर के साहूकार साहूकार है ।
- ४ निरवद्य आज्ञा मांहि के बाहर मांहि है ।
- ५ निरवद्य रूपी के अरूपी अरूपी है ।
- ६ निरवद्य छांडवा जोग के आदरवा जोग आदरवा जोग है ।
- ७ निरवद्य धर्म के अधर्म धर्म है ।
- ८ निरवद्य पुन्य के पाप पुन्य पाप दोनूं नहीं; किणन्याय पुन्य पाप तो अजीव है, निरवद्य जीव है ।

## ॥ लडी २५ पचीसमी ॥

- १ नव पदार्थ में जीव कितना पदार्थ अने अजीव कितना पदार्थ । जीव, आस्रव, संबर निर्जरा, मोक्ष, ए पांच तो जीव है अने अजीव पुन्य, पाप, बंध, ए चार पदार्थ अजीव है ।
- २ नव पदार्थ में सावदा कितना निरवदा कितना । जीव अने आस्रव ए दोय तो सावदा निरवदा दोनूँ है, अजीव, पुन्य पाप, बंध, ए सावदा निरवदा दोनूँ नहीं । संबर, निजरा, मोक्ष ए तीन पदार्थ निरवदा है ।
- ३ नव पदार्थ में आज्ञा मांहि कितना आज्ञा बाहर कितना । जीव, आस्रव, ए दोय तो आज्ञा मांहि पण है, अने आज्ञा बाहर पण है । अजीव, पुन्य, पाप, बंध, ए चार आज्ञा मांहि बाहर दोनूँ ही नहीं । संबर, निर्जरा मोक्ष, ए आज्ञा मांहि है ।
- ४ नव पदार्थ में चोर कितना साहकार कितना । जीव, आस्रव, तो चोर साहकार दोनूँ हीँ है । अजीव, पुन्य, पाप, बंध ए चोर साहकार दोनूँ

नहीं, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ए तीन साहूकार  
है ।

५ नव पदार्थ में छांडवा जोग कितना आदरवा  
जोग कितना । जीव, अजीव, पुन्य, पाप, आस्रव,  
बंध, ए छव तो छांडवा जोग है, संवर, निर्जरा,  
मोक्ष ए तीन आदरवा जोग है अने जाणवा  
जोग नवहीं पदार्थ है ।

६ नव पदार्थ में रूपी कितना अरूपी कितना ।  
जीव, आस्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ए, पांच तो  
अरूपी है: अजीव रूपी अरूपी दोनूँ है पुन्य,  
पाप, बंध रूपी है ।

७ नव पदार्थ में एक कितना अनेक कितना । उ०  
अजीव टाली आठ पदार्थ तो अनेक है, अने  
अजीव एक अनेक दोनूँ है, क्षिणान्याय धर्मास्ति  
धर्मास्ति आकाशास्ति ये तीनूँ द्रव्य थकी एक  
एक ही द्रव्य है ।

॥ लडी २६ छवीसमी ॥

१ छव द्रव्य में जीव कितना अजीव कितना एक

- २ छव द्रव्य में रूपी कितना अरूपी कितना जीव, धर्मास्ति, अधर्मास्ति आकाशास्ति, काल, ए पांच तो अरूपी है, पुद्गल रूपी है ।
- ३ छव द्रव्य में आज्ञा मांहि कितना आज्ञा बाहर कितना जीव तो आज्ञा मांहि बाहर दोनूँ है, बाकी पांच आज्ञा मांहि बाहर दोनूँ नहीं !
- ४ छव द्रव्य में चोर कितना साहूकार कितना जीव तो चोर साहूकार दोनूँ है, बाकी पांच द्रव्य चोर साहूकार दोनूँ नहीं, अजीव है ।
- ५ छव द्रव्य में सावद्य कितना निरवद्य कितना एक जीव द्रव्यतो सावद्य निरवद्य दोनूँ है, बाकी पांच द्रव्य सावद्य निरवद्य दोनूँ नहीं ।
- ६ छव द्रव्य में एक कितना अनेक कितना धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, ए तीनों तो एक ही द्रव्य है, काल, जीव, पुद्गलास्ति ए तीन अनेक है, इणांका अनन्ताद्रव्य है ।
- ७ छव द्रव्यमें सप्रदेशी कितना अप्रदेशी कितना एक काल तो अप्रदेशी है, बाकी पांच सप्रदेशी है, ।




( १४६ )  
॥ लड़ी २७ सत्ताइसमी ॥

---

- १ पुन्य धर्म के अधर्म दोनूँ नहीं, किणन्याय धर्म अधर्म जीव है, पुन्य अजीव है ।
- २ पाप धर्म के अधर्म दोनूँ नहीं, किणन्याय धर्म अधर्म तो जीव है पाप अजीव है ।
- ३ बंध धर्म के अधर्म दोनूँ नहीं, किणन्याय धर्म अधर्म तो जीव है बंध अजीव है ।
- ४ कर्म अने धर्म एक के दोय दोय है; किणन्याय कर्म तो अजीव है; धर्म जीव है ।
- ५ पाप अने धर्म एक के दोय दोय है; किणन्याय पाप तो अजीव है; धर्म जीव है ।
- ६ अधर्म अने अधर्मास्ति एक के दोय दोय; किणन्याय अधर्म तो जीव है; अधर्मास्ति अजीव है ।
- ७ धर्म अने धर्मास्ति एक के दोय दोय; किणन्याय धर्म तो जीव है; धर्मास्ति अजीव है ।
- ८ धर्म अने अधर्मास्ति एक के दोय दोय; किणन्याय धर्म तो जीव; अधर्मास्ति अजीव है ।
- ९ अधर्म अने धर्मास्ति एक के दोय दोय; किणन्याय अधर्म तो जीव है; धर्मास्ति अजीव है ।

- १० धर्मास्ति अने अधर्मास्ति एक के दोय दोय; किण-  
न्याय धर्मास्ति को तो चालवा नो सहाय है ।  
अने अधर्मास्तिनो थिर रहवानों सहाय है ।
- ११ धर्म अने धर्मी एक के दोय एक है; किणन्याय  
धर्म जीवका चोखा परिणाम है ।
- १२ अधर्म अने अधर्मी एक के दोय एक है; किण-  
न्याय अधर्म जीव का खोटा परिणाम है ।



# प्रश्नोत्तर ।

- १ थारी गति कांई-मनुष्य गति ।
- २ थारी जाती कांई-पंचेन्द्री ।
- ३ थारी काय कांई-तसकाय ।
- ४ इन्द्रियां कितनी पावे—५ पांच
- ५ पर्याय कितना पावे—छव
- ६ प्राण कितना पावे—१० दश पावे ।
- ७ शरीर कितना पावे—३ तीन—ओदारिक; तेज-  
स; कार्मण ।
- ८ जोग कितना पावै—९ नव पावे चार मन का;  
चार बचनका; एक काया को; ओदारिक; ।
- ९ उपयोग कितना पावै ४ चार पावै मतिज्ञान  
१ श्रुतिज्ञान २ चक्षु दर्शन ३ अचक्षु दर्शन ४ ।
- १० थारे कर्म कितना ८ आठ ।

- ११ गुणस्थान किसी पावे—व्यवहारथी पांचसू; साधु नें पृच्छे तो छट्टो ।
- १२ विषय कितनी पावे २३—तीबीस ।
- १३ मिथ्यात्वनां दश बोल पावै के नहीं, व्यवहारथी नहीं पावै ।
- १४ जीवका चवदा भेदामें से किसी भेदपावै, १ येक चवदसूं पर्याप्तो सत्री पञ्चेन्द्री को पावै ।
- १५ आतमां कितनी पावै श्रावकमें तो ७ सात पावै, अने साधु में आठ पावै ।
- १६ दण्डक किसीपावै—येक डकबीसमु ।
- १७ लेश्या कितनी पावै—६ छव ।
- १८ दृष्टी कितनी पावै—व्यवहारथी एक, सम्यक दृष्टि पावै ।
- १९ ध्यान कितना पावै—३ तीन, सुक्ल ध्यान टालके ।
- २० छवद्रव्यमें किसा द्रव्य पावै १—एक जीव द्रव्य ।
- २१ राशि किसी पावै—एक जीव राशि ।
- २२ श्रावक का बारा व्रत श्रावक में पावै ।
- २३ साधुका उच्च महा व्रत पावै के नहीं—साधु में पावै श्रावक में पावै नहीं ।

२४ पांच चारित्र्य श्रावक में पावै कौ नहीं, नहीं पावै,  
एक देश चारित्र्य पावै ।

- १ एकेन्द्री की गति कांई—तिर्यंच गति ।
- २ एकन्द्रौ की जाति कांई—एकेन्द्री ।
- ३ एकेन्द्री में कोया किसी पावै पांच थावरकी ।
- ४ एकेन्द्रीमें इन्द्रियां कितनी पावै—एक स्पर्श  
इन्द्रौ ।
- ५ एकेन्द्री में पर्याय कितनी पावै—४ च्यार मन  
भाषा एदोय टली ।
- ६ एकेन्द्री में प्राण कितना पावै ४—च्यार पावै  
स्पर्श इन्द्रिय बलप्राण १ कायबलप्राण २  
श्वासीश्वासबलप्राण ३ आयुषीबलप्राण ४
- ७ सूरड माटी मुलतानी पत्थर सीनो चांदी रत-  
नादिक पृथ्वीकाय का प्रश्नोत्तर ।

प्रश्न

उत्तर

गति कांई

तिर्यंच गति

जाति कांई

एकेन्द्री

काय किसी

पृथ्वीकाय

इन्द्रियां कितनी पावै

एक स्पर्श इन्द्रौ

पर्याय कितनी पावै

४ च्यार, मन भाषा टली

प्राण कितना

४ च्यार पावै, स्पर्श इन्द्रीवल  
प्राण १ काय वल २  
श्वासोश्वास वल ३ आयु  
वलप्राण ४

### ८ पांशी ओसादि अप्पकायकी

प्रश्न

उत्तर

गति कांई  
जाति कांई  
काय किसी  
इन्द्रियां कितनी  
पर्याय कितनी  
प्राण कितना

तिर्यच गति  
एकेन्द्री  
अप्पकाय  
एक स्पर्श इन्द्री  
४ च्यार, मन भाषाटली  
४ च्यार, ऊपर प्रमाणे

### ९ अग्नी तेउकायनी

प्रश्न

उत्तर

गति कांई  
जाति कांई  
काय किसी  
इन्द्रियां कितनी  
पर्याय कितनी  
प्राण कितना

तिर्यच गति  
एकेन्द्री  
तेउकाय  
एक स्पर्श इन्द्री  
४ च्यार, मन भाषाटली  
४ च्यार, ऊपर प्रमाणे

### १० वायु कायकी

प्रश्न

उत्तर

गति कांई

तिर्यच गति

जाति-कांई	एकेन्द्री
काय कांई	वायुकाय
इन्द्रियां कितनी	एक स्पर्श इन्द्री
पर्याय कितनी	४ च्यार ऊपर प्रमाणे
प्राण कितना	४ च्यार ऊपर प्रमाणे

११ बृक्ष, लता, पान, फूल, फल, लीलण, फूलन  
आदि वनस्पतिक्रायनी

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	तिर्यंच गति
जाति कांई	एकेन्द्री
काय कांई	वनस्पतिक्राय
इन्द्रियां कितनी	एक स्पर्श इन्द्री
पर्याय कितनी	च्यार ऊपर प्रमाणे
प्राण कितना	च्यार ऊपर प्रमाणे

१२ लट गिंडोला आदि वेन्द्रीकी

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	तिर्यंच गति
जाति कांई	वेइन्द्री
काय कांई	त्रस काय
इन्द्रियां कितनी	२ दोय, स्पर्श, रस, इन्द्री
पर्याय कितनी	५ पांच मन पर्याय टली
प्राण कितना	६ छव, रस इन्द्री बल प्राण १ स्पर्श इन्द्री बल:प्राण २ काय बल प्राण ३

श्वासोश्वासबल प्राण  
आउखो बल प्राण  
भापा बल प्राण

१३ कौड़ी मक्कोड़ी आदि तैइन्द्रीका ।

प्रश्न

उत्तर

गति कांई  
जाति कांई  
काय कांई  
इन्द्रियां कितनी  
पर्याय कितनी  
प्राण कितना

तिर्यंच गति  
तेइन्द्री  
तस काय  
३ तीन स्पर्श १ रस २ घ्राण ३  
५ पांच, मन दली  
७ सात, छव तो उपर प्रमाणे  
घ्राण इन्द्री बल प्राण वध्यो

१४ माखी कच्छर टीडी पतंगिया बिच्छु आदि

चोइन्द्री का ।

प्रश्न

उत्तर

गति कांई  
जाति कांई  
काय कांई  
इन्द्रियां कितनी  
पर्याय कितनी  
प्राण कितना

तिर्यंच गति  
चोइन्द्री  
तस काय  
४ च्यार, श्रुत इन्द्री दली  
५ पांच, मन दली  
८ आठ, सात तो ऊपर प्रमाणे  
एक चक्षू इन्द्री बल प्राण  
और वध्यो



## १५ पंचेन्द्री की ।

प्रश्न  
 गति कितनी पावै  
 जाति काई  
 काय काई  
 इन्द्रिया कितनी  
 पर्याय कितनी  
 प्राण कितना पावै

उत्तर  
 ४ च्यारूं ही पावै  
 पंचेन्द्री  
 त्रस काय  
 पांचोहीं  
 ६ छवों ही पावै सन्नीमें, और  
 असन्नी मे ५ पांच, मन टल्यो,  
 सन्नीमे तो १० दशुं ही पावै,  
 असन्नी-में ६ पावै मन टल्यो

## १६ नारकी की पूछा ।

प्रश्न  
 गति काई  
 जाति काई  
 काय काई  
 इन्द्रियां कितनी  
 पर्याय कितनी  
 प्राण कितना

उत्तर  
 नरक गति  
 पञ्चेन्द्री  
 त्रस काय  
 ५ पांचोही  
 ५ पाँच, मन भाषा भेली लेखवी  
 १० दशोही

## १७ देवताकी पूछा ।

प्रश्न  
 गति काई  
 जाति काई  
 काय काई

उत्तर  
 देव गति  
 पंचेन्द्री  
 त्रस काय

इन्द्रियां कितनी	५ पांचोही
पर्याय कितनी	५ मन भाषा भेली लेखवी
प्राण कितना	१० दशोही

### १८ मनुष्य को पूछा असनी को ।

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	मनुष्य गति
जाति कांई	पंचेन्द्री
काय कांई	त्रस काय
इन्द्रियां कितनी	५ पांच
पर्याय कितनी	३॥ श्वास लेवे तो उश्वास नहीं
प्राण कितना	७॥ श्वास लेवेतो उश्वास नहीं

### १९ सनी मनुष्य को पूछा ।

प्रश्न	उत्तर
गति कांई	मनुष्य गति
जाति कांई	पंचेन्द्री
काय कांई	त्रस काय
इन्द्रियां कितनी	५ पांच
पर्याय कितना	छव
प्राण कितना	१० दश

- १ तुमे सनीके असनी ? सनी, किणन्याष मन छै
- २ तुमे सूक्ष्मके बादर? बादर, किण? दीखूं छूं ।
- ३ तुमे त्रसके स्यावर? त्रस, किण०? हालू चालू कूं ।

४ एकेन्द्री सत्री के असत्री---असत्री, किण० मन नहीं

५ एकेन्द्री सूक्ष्म के वादर—दोनों हीं छै किण० एकेन्द्री दोय प्रकार की छै, दीखै ते वादर छै, नहीं दोखे ते सुक्ष्मछै

६ एकेन्द्री तस के स्थावर—स्थायर छै, हाले चाले नहीं

७ एकेन्द्री में इन्द्रियां कितनी—एकस्पर्श इन्द्री ( शरीर )

८ पृथ्वीकाय अग्निकाय तेउकाय वायुकाय वनस्पतिकाय

प्रश्न

सत्री के असत्री सूक्ष्म के वादर तस के स्थावर

उत्तर

असत्री छै मन नहीं दोनों ही प्रकार की छै स्थावर छै

९ वेइन्द्री तेइन्द्री चौइन्द्रीकी पृष्ठा ।

प्रश्न

सत्री के असत्री सूक्ष्म के वादर तस के स्थावर

उत्तर

असत्री छै मन नहीं वादर छै तस छै

१० तिर्यंच पंचेन्द्री की पूछा ।

प्रश्न	उत्तर
सत्री के असत्री	दोनों ही छै
सूक्ष्म के आदर	बादर छै
त्रस के स्थावर	त्रस छै

११ सत्री मनुष्य चौदे स्थानकमें नीपजै ।

प्रश्न	उत्तर
सत्री के असत्री	असत्री छै
सूक्ष्म के बादर	बादर छै
त्रस के स्थावर	त्रस छै

१२ सत्री मनुष्य ते गर्भ में उपजै जिणारी पूछा ।

प्रश्न	उत्तर
सत्री के असत्री	सन्नी छै
त्रस के स्थावर	त्रस छै
सूक्ष्म के बादर	बादर छै

१३ नारकी का नेरीया की पूछा ।

प्रश्न	उत्तर
सन्नी के असन्नी	सन्नी छै
सूक्ष्म के आदर	बादर छै
त्रस के स्थावर	त्रस छै

## १४ देवता की पूछा ।

प्रश्न	उत्तर
सन्नी के असन्नी	सन्नी छै
सूक्ष्म के वादर	वादर छै
त्रस के स्थावर	त्रस छै

## १५ गाय भैंस हाथी घोड़ा बलद पक्षी आदि पशु जानवर की पूछा ।

प्रश्न	उत्तर
सन्नी के असन्नी	दोनों ही प्रकार का छै छिमो
सूक्ष्म के वादर	छिमके मन नहीं, गर्भजके मन छै वादर छै, नेत्र से देखवा में आवै छै
त्रस के स्थावर	त्रस छै हालै चालै छै

१ एकेन्द्री में वेद कितना पावै एक नपुंसक  
वेद पावै

२ पृथ्वी पाणी वनस्पति अग्नी वायरो यां पांचां में  
वेद कितनां पावे—१ एक नपुंसक ही छै

३ वेदुन्द्री तें इन्द्री चोइन्द्री में वेद कितनां पावै—  
एक नपुंसक वेदही पावे छै

४ पंचेन्द्रीमें वेद कितना पावै—सन्नी में तो तीनों  
ही वेद पावे छै, असन्नीमें एक नपुंसक वेदहीछै

- ५ मनुष्यमें वेद कितनां पावै—असन्नी मनुष्य चौदे थानक में उपजै जीणां में तो वेद एक नपुंसक ही पावै छै, सन्नी मनुष्य गर्भ में उपजै जिणांमें वेद तीनोंही पावै छै ।
- ६ नारको में वेद कितनां पावै—एक नपुंसक वेद ही पावै छै ।
- ७ जलचर थलचर उरपर भुजपर खेचर यां पांच प्रकार का तिर्यंचा में वेद कितना पावै—छिमो-छिम उपजै ते असन्नी छै जिणांमें तो वेद नपुंसकही पावै छै, अने गर्भ में उपजै ते सन्नी छै जिणां में वेद तीनोंही पावैछै ।
- ८ देवतामें वेद कितनां पावै—उत्तर—भवनपती, वाण्यन्तर, जोतिषी, पहिला दूजा देव लोक तांई तो वेद दोय स्त्री १ पुरुष २ पावै छै, और तीजा देवलोक से स्वार्थ सिद्ध तांई वेद एक पुरुषही छै ।
- ९ चौबीस दण्डक का जीवां के कर्म कितना उगणीस दण्डकका जीवांमें तो कर्म आठही पावै छै, अने मनुष्य में सात आठ तथा चार पावै छै ।

- १ धर्म व्रत में के अव्रत में—व्रत में ।
- २ धर्म आज्ञा मांही के बाहर श्रीबीतरागदेव की आज्ञा मांही है ।
- ३ धर्म हिंसा में के दया में—दया में
- ४ धर्म मोल मिलै के नहीं मिलै—नहीं मिलै, धर्म तो असूत्य है ।
- ५ देव मोल मिलै के नहीं मिलै—नहीं मिलै, असूत्य है ।
- ६ गुरु मोल लियां मिलै के नहीं मिलै---नहीं मिलै, असूत्य है ।
- ७ साधुजी तपस्या करै ते व्रत में के अव्रत में व्रत पुष्टको कारण है, अधिक निर्जरा धर्म है ।
- ८ साधुजी पारणो करै ते व्रत में के अव्रत में अव्रतमें नहीं, किणन्याय ? साधुके कोई प्रकार अव्रतरही नहीं सब सावद्य जोगका त्याग है । तिणसं निरजराथाय है तथा व्रत पुष्टको कारण है ।
- ९ श्रावक उपवास आदि तप करै ते व्रत में के अव्रत में---व्रत में ।
- १० श्रावक पारणं करै ते व्रत में के अव्रत में--- अव्रत में किणन्याय ? श्रावक को खाणों पीणों

पहरणों ए सर्व अब्रत में कै श्रीउववाद् तया  
सूयगडांग सूत्र में बिसतार कर लिख्या कै ।

११ साधुजी नें सूजतो निर्दोष आहार पाणी  
दियां कांई होवै, ब्रतमें कै अब्रतमें—अशुभ  
कर्म क्षय थाय तथा पुन्य बंधे कै, १२ मं ब्रत कै ।

१२ साधुजी नें असूजतो दोष सहित आहार पाणी  
दियां कांई होवै तथा ब्रत में कै अब्रत में—  
श्री भगवती सूत्र में कह्यो कै, तथा श्री ठाणांग  
सूत्र के तीजे ठाणों में कह्यो कै अल्प आयुबंधे  
अकल्याणकारी कर्म बंधे तथा असूजतो दीधोते  
ब्रत में नहीं । पाप कर्म बंधे कै ।

१३ अरिहंत देव देवता के मनुष्य—मनुष्य कै ।

१४ साधु देवता के मनुष्य—मनुष्य कै ।

१५ देवता साधुनीं बंछा करै कै नहीं करै—करै साधु  
तो सबका पूजनीक कै ।

१६ साधु देवताकी बंछा करै कै नहीं करै—नहीं करै ।

१७ सिद्ध भगवान देवता के मनुष्य—दोनू नहीं ।

१८ सिद्ध भगवान सुक्ष्म के बादर—दोनू नहीं ।

१९ सिद्ध भगवान चसके स्थावर—दोनू नहीं ।

२० सिद्ध भगवान सन्नी के असन्नी—दोनू नहीं ।

२१ सिद्ध भगवान पर्याप्ता के अपर्याप्ता—दोनू नहीं ।



१ असंयती अब्रती ने दीयां काँई होवै श्री भगवती सूत्र के आठ में शतक छट्टे उपदेशे कह्यो असंयती अब्रती नें सूजतो असूजतो सचित अचित च्यार प्रकार को आहार दियां एकान्त पाप होय निर्जरा नहीं होय ।

२ असंयतो अब्रती जीवां को जीवणो बांछणो के मरणो बांछणो असंयती को जीवणो बांछणो नहीं; मरणो बांछणो नहीं, संसार समुद्र से तिरणो बांछणो ते श्रीबीतरागदेव को धर्म है ।

३ कसाँई जीवां ने मारै तिण वेल्यां साधु कसाँई नें उपदेश देवे के नहीं देवे—अवसर देखे तो उपदेश देवै हिन्साका खोटाफल कहै ।

प्रश्न—जीवां को जीवणो बांछकर उपदेश देवै के कसाँई नें तारवा निमित्त उपदेश देवै—

उत्तर—कसाँई नें तारवा निमित्त उपदेश देवै ते बीतरागको धर्म है ।

४ कोँई बाड़ामें पशु जानवर दुखिया है अने साधु जिणा रसते जाय रह्या है तो जीवांकी अनुकम्पा आणी छोड़ै के नहीं छोड़ै—नहीं

छोड़ै, किण्व्याय, उ० श्रीनिशीथ सूत्रके १२  
बारमें उद्देशमें कह्यो है अनुकम्पा करे त्रस  
जीव बांधे बंधावै अनुमोदे तो चौमासी प्राय-  
श्चित आवै, तथा साधु संसारी जीवांकी सार  
संभार करै नहीं साधु तो संसारी कर्तव्य  
ल्यागदिया ।



## \* अथ अल्पा बोहत \*

- १ सर्व घोड़ा गर्भेज मनुष्य ।
- २ तेहथी मनुष्यणी २७ गुणी ।
- ३ ,, वादर तेजकाय का पर्याप्ता असंख्यात गुणां ।
- ४ ,, पांचे अनुत्तरका देवता असंख्यात गुणां ।
- ५ ,, उपरला त्रिक का देवता संख्यात गुणां ।
- ६ ,, विचला त्रिक का देवता संख्यात गुणां ।
- ७ ,, नीचला त्रिक का संख्यात गुणां ।
- ८ ,, १२ मां देवलोकका संख्यात गुणां ।
- ९ ,, ११ मां देव लोकका संख्यात गुणां ।
- १० ,, १० मांका सख्यात गुणां ।
- ११ ,, ९ मां का संख्यात गुणां ।
- १२ ,, सातमी नरक का नैरिया असंख्यात गुणां ।
- १३ ,, कट्टी नारकी का नैरिया असंख्यात गुणां ।
- १४ ,, आठमां देवलोकका देवता असंख्यात गुणां ।
- १५ ,, सातमां देवलोकका देवता असंख्यात गुणां ।
- १६ ,, ५ मी नारकी का नैरिया असंख्यात गुणां ।
- १७ ,, कट्टा देवलोक का देवता असंख्यात गुणां ।
- १८ ,, चौथी नारकी का नैरिया असंख्यात गुणां ।

- १९ ,, पांचवां देवलोक का देवता असंख्यात गुणां ।  
२० ,, तीजी नारकी का नैरिया असंख्यात गुणां ।  
२१ ,, चौथा देवलोकका देवता असंख्यात गुणां ।  
२२ ,, तीजा देवलोकका देवता असंख्यात गुणां ।  
२३ ,, दूजी नारकी का नैरिया असंख्यात गुणां ।  
२४ ,, छिमोछिम मनुष्य असंख्यात गुणां ।  
२५ ,, दूजा देवलोकका देवता असंख्यात गुणां ।  
२६ ,, दूजांकी देव्यां संख्यात गुणां ।  
२७ ,, पहला देवलोकका देवता संख्यात गुणां ।  
२८ ,, पहलांकी देव्यां संख्यात गुणां ।  
२९ ,, भवनपति देवतां असंख्यात गुणां ।  
३० ,, भवनपति की देव्यां संख्यात गुणां ।  
३१ ,, पहली नारकी को नैरिया असंख्यात गुणां ।  
३२ ,, खेचर पुरुष असंख्यात गुणां ।  
३३ ,, खेचरणी संख्यात गुणां ।  
३४ ,, थलचर पुरुष संख्यात गुणां ।  
३५ ,, थलचरणी संख्यात गुणां ।  
३६ ,, जलचरण पुरुष संख्यात गुणां ।  
३७ ,, जलचरणी संख्यात गुणां ।  
३८ ,, वानव्यंतर देवता संख्यात गुणां ।  
३९ ,, वानव्यंतर देवो संख्यात गुणां ।

- ४० ,, जीतषी देवता संख्यात गुणां ।
- ४१ ,, जोतीषीनो देवी संख्यात गुणां ।
- ४२ ,, खैचर नपुंसक संख्यात गुणां ।
- ४३ ,, थलचर नपुंसक संख्यात गुणां ।
- ४४ ,, जलचर नपुंसक संख्यात गुणां ।
- ४५ ,, चोइन्द्रीका पर्याप्ता संख्यात गुणां ।
- ४६ ,, पंचेन्द्रीका पर्याप्ता विशेषार्इया ।
- ४७ ,, बेन्द्री पर्याप्ता विशेषार्इया ।
- ४८ ,, तेइन्द्री पर्याप्ता विशेषार्इया ।
- ४९ ,, पंचेन्द्री अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।
- ५० ,, चौइन्द्री अपर्याप्ता विशेषार्इया ।
- ५१ ,, तेइन्द्री अपर्याप्ता विशेषार्इया ।
- ५२ ,, बेन्द्री अपर्याप्ता विशेषार्इया ।
- ५३ ,, बादर प्रत्येकवनस्पती पर्याप्ता असंख्यात गुणां ।
- ५४ ,, बादर निगोद पर्याप्ता असंख्यात गुणां ।
- ५५ ,, बादर पृथ्वीकाय पर्याप्ता असंख्यात गुणां ।
- ५६ ,, बादर अप्पाकाय पर्याप्ता असंख्यात गुणां ।
- ५७ ,, बादर वायुकाय पर्याप्ता असंख्यात गुणां ।
- ५८ ,, बादर तेजकाय अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।
- ५९ ,, बादर प्रत्येक शरीरी वनस्पति अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।

- ६० ,, बादर निगोद अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।  
६१ ,, बादर पृथ्वीकाय का अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।  
६२ ,, बादर अप्पकाय अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।  
६३ ,, बादर वायुकाम अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।  
६४ ,, सूक्ष्म तेजकाय अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।  
६५ ,, सूक्ष्म पृथ्वी अपर्याप्ता विशेषार्द्धया ।  
६६ ,, सूक्ष्म अप्प अपर्याप्ता विशेषार्द्धया ।  
६७ ,, सूक्ष्म वायु अपर्याप्ता विशेषार्द्धया ।  
६८ ,, सूक्ष्म तेज पर्याप्ता संख्यात गुणां ।  
६९ ,, सूक्ष्म पृथ्वी पर्याप्ता विशेषार्द्धया ।  
७० ,, सूक्ष्म अप्प पर्याप्ता विशेषार्द्धया ।  
७१ ,, सूक्ष्म वायु पर्याप्ता विशेषार्द्धया ।  
७२ ,, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।  
७३ ,, सूक्ष्म निगोद पर्याप्ता संख्यात गुणां ।  
७४ ,, अभव्य जीव अनन्त गुणां ।  
७५ ,, पड़वार्द्ध समदृष्टी अनन्त गुणां ।  
७६ ,, सिद्ध भगवंत अनन्त गुणां ।  
७७ ,, बादर वनस्पति पर्याप्ता अनन्त गुणां ।  
७८ ,, बादर पर्याप्ता विशेषार्द्धया ।  
७९ ,, बादर वनस्पति अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।

- ८० „ वादर अपर्याप्ता विशेषार्द्धया ।  
८१ „ सर्व वादर विशेषार्द्धया ।  
८२ „ सूक्ष्म वनस्पति अपर्याप्ता असंख्यात गुणां ।  
८३ „ सूक्ष्म अपर्याप्ता विशेषार्द्धया ।  
८४ „ सूक्ष्म वनस्पति पर्याप्ता संख्यात गुणां ।  
८५ „ सूक्ष्म पर्याप्ता विशेषार्द्धया ।  
८६ „ सर्व सूक्ष्म विशेषार्द्धया ।  
८७ „ भव्य जीव विशेषार्द्धया ।  
८८ „ निगोदिया विशेषार्द्धया ।  
८९ „ वनस्पति विशेषार्द्धया ।  
९० „ एकीन्द्री विशेषार्द्धया ।  
९१ „ तिर्यंच विशेषार्द्धया ।  
९२ „ मित्यग्राती विशेषार्द्धया ।  
९३ „ अब्रती विशेषार्द्धया ।  
९४ „ सकषार्द्ध विशेषार्द्धया ।  
९५ „ कृद्गस्य विशेषार्द्धया ।  
९६ „ सजोगी विशेषार्द्धया ।  
९७ „ संसारी जीव विशेषार्द्धया ।  
९८ „ सर्व जीव विशेषार्द्धया ।

# अथ गतागतकी थोकड़ो ।

जीवका ५६३ भेदकी विगत ।

१४ सात नारकी का पर्याप्ता अपर्याप्ता ।

४८ तिर्यचका ।

४ सूक्ष्म वादर पृथ्वीकायका पर्याप्ता अपर्याप्ता ।

४ सूक्ष्म वादर अप्पकायका पर्याप्ता अपर्याप्ता ।

४ सूक्ष्म वादर वाउकायका पर्याप्ता अपर्याप्ता ।

४ सूक्ष्म वादर तेउ कायका पर्याप्ता अपर्याप्ता ।

६ सूक्ष्म (वादर प्रत्येक साधारण वनस्पति कायका पर्याप्ता अपर्याप्ता ।

६ तीन त्रिकलेन्द्रो का पर्याप्ता अपर्याप्ता ।

२० जलचर धलचर उरपर भुजपर खेचर ए पांच प्रकार का तिर्यञ्च सन्नी असन्नी का पर्याप्ता अपर्याप्ता ।

३०३ मनुष्यका—

२०२ सन्नी मनुष्य, १५ कर्म भूमि, ३० अकर्म भूमि,

५६ अन्तर द्वीप ए १०१ का पर्याप्ता अपर्याप्ता ।

१०१ असन्ती मनुष्य ते सन्ती मनुष्यका मल सूत्रादि

चत्रदे स्थानक में उपजै ते अपर्याप्ता, अपर्याप्ता अवस्था में मरै ।

१६८ देवताका—

भुवनरति १७, परमाश्रा मी १५, बानव्यन्तर १६, लिभू-

मका १०, जोतषी कलिविक ३, लोकान्तिक ६, देवलोक १२,

प्रवैयक ६, अनुत्तर विमान ५, एह ६६ जातिका

पर्याप्ता अपर्याप्ता ।

॥इति॥



भरतक्षेत्रमें ५१ पावै—

तिर्यञ्चका ४८ मनुष्य ३ ।

जम्बूद्वीप में ७५ पावै—

२७ भरतक्षेत्र १ परभरत १, देवकुह १, उत्तरकुह १,  
हरिवास १, रस्यकवान १, हेमचर १, भहगचर १,  
महविदेह १, यह नव क्षेत्र का सन्तो मनुष्य पर्यासा  
अपर्यासा १८, तथा असन्तो मनुष्य ६  
४८ तिर्यञ्चका ।

लवण समुद्र में पावै २१६—

अन्तरद्वीप ५६ का तो १६८, ४८ तिर्यञ्चका ।

धातकी खंड में पावै १०२—

५४ मनुष्य का अठारह क्षत्रों का त्रिगुण, ४८ तिर्यञ्च का  
कालोद्धि में पावै ४६—

तिर्यञ्चका ४८ में से वादर तेउका २ उल्या ।

अर्ध पुडकर वर द्वीप में पावै १०२—

धातकी खंडवत् जाणवो ।

ऊंचा लोक में पावै १२२—

७६ देवताका ।

४६ तिर्यञ्चका ।

नीचालोक में पावै ११५—

भवनपति २०, पर्माधामी ३०, नारकी १४, तिर्यञ्चका ४८,  
मनुष्यका ३ सर्व ११५

तिर्ष्णी लोक में पावै ४२३ —

३०३ मनुष्यका ।

४८ तिर्यञ्चका ।

३२ वानव्यन्तरका ।

२० त्रिभूमका ।

२० जोतिष्यांका ।



१	पहिली नारकी में	आगति २५	१५ कर्म भूमि मनुष्य, तिर्यच पंचेन्द्री ५ सन्नी ५ असन्नी पर्याप्ता
		गति ४०	१५ कर्म भूमि मनुष्य, तिर्यच पंचेन्द्री ५ सन्नी का पर्याप्ता अपर्याप्ता ४०
२	दूजी नारकी में	आगति २०	१५ कर्म भूमि मनुष्य, ५ सन्नी तिर्यच का पर्याप्ता
		गति ४०	उपरवत्
३	तीजी नारकी में	आगति १६	१५ कर्म भूमि मनुष्य, ४ सन्नी तिर्यच का पर्याप्ता भुज पर दृश्यो
		गति ४०	उपरवत्
४	चौथी नारकी में	आगति १८	१५ कर्म भूमि मनुष्य, ३ सन्नी तिर्यच पर्याप्ता ( भुजपर १ खेत्र २ दृश्यो )
		गति ४०	उपरवत्
५	पांचवी नारकी में	आगति १७	१५ कर्म भूमि मनुष्य, १ जलचर, १ उर-पुर का पर्याप्ता
		गति ४०	उपरवत्
६	छठी नारकी में	आगति १६	१५ कर्म भूमि १ जलचर सन्नी का पर्याप्ता
		गति ४०	उपरवत्

७	सातमी नारकी मे	आगति	१५ कर्म भूमि, १ जलचर सन्नी तिर्यंच का पर्याप्ता स्त्री विना
		१६	
		गति	५ सन्नी तिर्यंच का पर्याप्ता अपर्याप्ता १०
		१०	
८	१० भवनपति १५ पर्माधामी १६ वानव्यंतर १० त्रिभूमिका ५५१ जातिकामे	आगति	१०१ सन्नी मनुष्य, ५ सन्नी, ५ असन्नी तिर्यंच का पर्याप्ता १११
		१११	
		गति	१५ कर्म भूमि, मनुष्य, ५ सन्नी तिर्यंच १ पृथ्वी १ अप्य, १ वनस्पति का पर्याप्ता अपर्याप्ता सूक्ष्म साधारण विना
		४६	
६	जोतपी पहिला देवलोक में	आगति	१५ कर्म भूमि, ३० अकर्म भूमि ५ सन्नी तिर्यंच का पर्याप्ता
		५०	
		गति	उपरवत्
		४६	
१०	दूजा देवलोक मे	आगति	१५ कर्म भूमि, ५ सन्नी तिर्यंच, अकर्म भूमि, का पर्याप्ता २० ( ५ हेमवय, अरु- णवय, द्रव्या )
		४०	
		गति	उपरवत्
		४६	
११	पहिला कलिवषिक में	आगति	१५ कर्म भूमि, ५ सन्नी तिर्यंच ५ देव- कुरु ५ उत्तरकुरु का पर्याप्ता
		३०	
		गति	उपरवत्
		४६	
१२	दूजा तीजा कलिवषिकतीजा से आठवां तांड का देवना मे	आगति	१५ कर्म भूमि, ५ सन्नी तिर्यंच पर्याप्ता
		२०	
		गति	१५ कर्म भूमि ५ सन्नी तिर्यंच पर्याप्ता अपर्याप्ता
		४०	

१३	नवमांसे सर्वार्थ सिद्धिताई	आगति १५	१५ कर्म भूमि मनुष्य का पर्यासा
		गति ३०	१५ कर्म भूमि, का पर्यासा अपर्यासा
१४	पृथ्वीपाणी वनस्पति में	आगति २४३	१०१ असन्नी मनुष्य, ४८ तिर्यच १५ कर्म भूमि, का, पर्यासा अपर्यासा ३० एवं १७६ लड़ी का और ६४ जाति का देवता एवं सर्व-२४३ थया
		गति १७६	लड़ीका
१५	तेऊ वाउ काय में	आगति १७६	लड़ीका
		गति ४८	तिर्य चका
१६	तीन विकलेन्द्री में	आगति १७६	लड़ीका
		गति १७६	लड़ीका
१७	असन्नी तिर्यञ्च पंचेन्द्री में	आगति १७६	लड़ीका
		गति ३६५	१७६ तो लड़ीका, ५६ अन्तरद्वीप ५१ जानिका देवता, १ पहली नारकी १०८ का पर्यासा अपर्यासा २१६ सर्वमिली ३६५
१८	सन्नी तिर्यञ्च में	आगति २६७	१७६ तो लड़ी का, ८१ देवता ७ नारकी पर्यासा ( नवमांसे सर्वार्थसिद्ध ताई दल्या )
		गति ५२७	(नवमांसे सर्वार्थ सिद्धताईका दल्या

१६	असन्नी मनुष्य में	आगति १६१	लड़ीका में से तेउ वाउका ८ टल्या
		गति १७६	लड़ीका
२०	सन्नी मनुष्य में	आगति २७६	१७१ तो लड़ीका में से, ६६ देवता ६ नारकी
		गति ५६३	सर्व
२१	देवकुरु उत्त कुरु का युग- लिया में	आगति २०	१५ कर्म भूमि, ५ सन्नी तिर्यंच
		गति १२८	१० भवनपति, १५ पर्माधामी, १६ वाण- व्यंतर, १० त्रिकूमका, १० जोतषी, २ पहिलो दूजो देवलोक, १ पहिलो कल्वि- बिक एवं ६४ का पर्यासा अपर्यासा
२२	हरीवास रथकवास का युगलियां में	आगति २०	उपरवत्
		गति १२६	६४ जातिका देवता में से १ पहिलो कल्विपिक टल्यो
२३	हेमवय अरु- णवय का युगलियां में	आगति २०	उपरवत्
		गति १२४	६४ जातिका देवां मे कल्विपिक १ और दूजो देवलोक टल्यो
२४	५६ अन्तर- द्वीप युगलियां में	आगति २५	१५ कर्म भूमि ५ सन्नी ५ असन्नी, तिर्यंच
		गति १०२	५१ जातिका देवांका पर्यासा अपर्यासा

२५	केवल्यां में	आगति १०८	८१ देवता ( पर्मा धर्म १५, कलिव्रगिक ३ टह्या) १५ कर्म भूमि, ४ पहलो से चोथो नर्क, ५ सन्नी तिर्यच १ पृथ्वी १ अप्प वनस्पति
		गति ०	मोक्षकी
२६	तीर्थङ्करा में	आगति ३८	३५ देवता चैमानिक, ३ नरक पहली से
		गति ०	मोक्ष
२७	चक्रवर्त में	आगति ८२	८१ जाति का देवता उपरवत्, १ पहली नरक
		गति १४	७ सात नारकी में जाय पदवी में मरेतो
२८	वासुदेव में	आगति ३२	१२ देवलोक, ६ नवग्र वैयक, ६ लोका- न्तिक तथा २ नारकी पहली दूजी
		गति १४	७ नारकी में जाय
२९	वलदेव में	आगति ८३	८१ जातिका देवता उपरवत् २, नारकी पहलो दूजी
		गति ०	पदवी अमर है
३०	सम्यक दृष्टिमें	आगति ३६३	१७१ लड़ीका ( तंड वाडका टह्या ) ६६ देवता, ८६ युगलिया, ७ नारकी
		गति २५८	६६ देवता, १५ कर्म भूमि, ६ नारकी ५ सन्नी तिर्यच का पर्यासा अपर्यासा, ५ असन्नी, ३ विकलेन्दी का अपर्यासा एवं २५८

३१	मित्थ्या दृष्टिमें	आगति ३७१	१७६ लड़ीका, ६६ देवता, ८६ युगलिया, नारकी ७ एवं
		गति ५५३	५ अनुत्तर का पर्यासा अपर्यासा टल्या
३२	सममित्थ्या दृष्टिमें	आगति ३६३	समदृष्टि जिम
		गति ०	तिजे गुणठाणे मरे नहीं
३३	साधु में	आगति २७५	१७१ लड़ीका, ६६ देवता, ५ नारकी
		गति ७०	१२ देवलोक, ६ लोकान्तिक, ६ प्रवेयक ५ अनुत्तरका पर्यासा अपर्यासा
३४	श्रावक में	आगति २७६	१७१ लड़ीका ६६ देवता, ६ नारकी एवं
		गति ४२	१२ देवलोक, ६ लोकान्तिक, पर्यासा अपर्यासा
३५	पुरुष वेद में	आगति ३७१	मित्थ्याती जिमजाणवो
		गति ५६३	सर्व
३६	स्त्री वेद में	आगति ३७१	उपरवत्
		गति ५६३	सातमी नरक में नहीं जाय
३७	नधुंसक वेद में	आगति २८५	६६ देवता, १७६ लड़ीका, ७ नारकी
		गति ५६३	सर्व



गुलाबचन्दजी लुणिया कृत

## ॥ ढाल ॥

॥ राग आसावरी ॥

स्वाम जयपुर चौमास करावो । अब हुकम  
जलदो फुरमावो ॥ स्वा० ॥ ए चांकड़ी ॥ बहु वर्षोंसे  
अरज हमारी, ता पे हुकम चढावो । नूतन अर्ज पन्थ  
सुन २ की, मत पुरातन विसरावो ॥ स्वा० ॥ १ ॥ अब-  
सर क्षेत्र फर्शना कहौनें, इम किम नित ललचावो ।  
क्षेत्र न आवे इत फर्शवन, आपही महर करावो ॥२॥  
आवत आवत आवे वारी, क्युं टावर बहलावो । अल्प  
बुद्धि हम बेत न जानै, आपही बेत बतावो ॥ ३ ॥  
अपलूं सींच्यो जान कृपानिधि, जलदो सारं करावो ।  
रठ नहीं छोडें अपर न मानें । मानी मुक्त बकसावो  
॥ ४ ॥ कार जोड़ी कहै गुलाबचन्द मुक्त, अविनय  
माफ करावो । जयपुरको चौमासो अबकी, श्री मुख  
हुकम दिरावो ॥ ५ ॥

श्री भिक्षु गणिराज के गुणा की ढाल ।

आचारज जवर आप जानी, बुद्ध उत्पतिथा अतिठानी ।  
समय रस पेख वीरवाणी, प्रगट मग कियो जपै छाणी ।

अष्टादश सोलह समय, सुदि पूनम चाषाढ़ ।

संयम स्वाम समाचखो स कांई,

गुण गिरवो दिल गाढ ।

पूज्यने सुमत अधिक चांई,

स्वाम भिन्नु भजले भाई ।

निर्मल रस समय तणा शोधी,

विमल सति आप अधिक बोधी ।

युगल युतसे पाखण्ड जोधी, रमल दुर्गतिनो पन्थ रोधी ।

दान दयादिक ऊपरे, ग्रन्थ हजारों कीध ।

जीव घणा समझाविया स कांई, देश देश प्रसिद्ध ।

पूज्यनी दशाज अधिकारंई । स्वाम० ॥ २ ॥

शिष्य गणपति नामे करणा, बत्तीसा लिखत मांहे निर्णा ।

आण बिन पगला नहीं भरणा, डूमज गुणसाठे उच्चरणा ।

गण बाहिर अवनितडा, तीर्थमें न गिणाय ।

तसु वन्दे ते जिन कछ्या स कांई, आजा बाहिर ताय ।

एह मर्यादा सुखदाई ॥ स्वाम० ॥ ३ ॥

मुनि गण मांही जे स्याना, तथा बाहिर ते अलखाना ।

विहूँने पिण गणना जाणो, अवगुण बोलणारा पचखाणो ।

साथे नहीं लीजावणा, ते पिणके पचखाण ।

मन फटे जिम नहीं बोलनी स कांई, यह स्वामनी वाण ।

लिखत पै तालीसा मांही । स्वाम० ॥ ४ ॥

गुलाबचन्द्री लुणिया कृत

## ॥ ढाल ॥

॥ राग आसावरी ॥

स्वाम जयपुर चौमास करावो । अब हुकम  
जलदो फुरमावो ॥ स्वा० ॥ ए आंकड़ी ॥ बहु बर्षींसे  
अरज हमारी, ता पे हुकम चढावो । नूतन अर्ज अन्य  
मुन २ के, मत पूरातन विसरावो ॥ स्वा० ॥ १ ॥ अब-  
सर चेत्र फर्शना कहीनें, इस किस नित ललचावो ।  
चेत्र न आवे इत फर्शावन, आपही महर करावो ॥२॥  
आवत आवत आवे बारो, क्युं टावर बहलावो । अल्प  
बुद्धि हम बेत न जानें, आपही बेत बतावो ॥ ३ ॥  
अपलूं सींच्यो जान क्लपानिधि, जलदो सार करावो ।  
रठ नहीं छोडें अपर न मानें । सानी मुक्त बकसावो  
॥ ४ ॥ कार जोड़ी कहै गुलाबचन्द मुक्त, अविनय  
माफ करावो । जयपुरको चौमासो अबकी, श्री मुख  
हुकम दिरावो ॥ ५ ॥

## श्री भिक्षु गणिराज के गुणा की ढाल ।

आचारज जवर आप जानी, बुद्ध उत्पत्तिया अतिठानी ।  
समय रस पेख वीर वाणी, प्रगट मग कियो ज पै छाणी ।

अष्टादश सौलह समय; सुदि पूनम आषाढ़ ।

संयम स्वाम समाचख्यो स कांडे,

गुण गिरवो दिल गाढ ।

पूज्यने सुमत अधिक आर्द्धे,

स्वाम भिक्षु भजले भाई ।

निर्मल रस समय तणा शोधी,

विमल मति आप अधिक बोधी ।

युगल युतसे पाखण्ड जोधी, रमल दुर्गतिनो पन्थ रोधी ।

दान दयादिक ऊपरे, ग्रन्थ हजारों कीध ।

जीव घणा समझाविया स कांडे, देश देश प्रसिद्ध ।

पूज्यनी दशाज अधिकार्ये । स्वाम० ॥ २ ॥

शिष्य गणपति नामे करणा, बत्तीसा लिखत मांहे निर्णा ।

आण बिन पगला नही भरणा, डूमज गुणसाठे उच्चरणा ।

गण बाहिर अवनीतडा, तीर्थमें न गिणाय ।

तसु वन्दे ते जिन कछ्या स कांडे, आज्ञा बाहिर ताय ।

एह मर्यादा सुखदाई ॥ स्वाम० ॥ ३ ॥

मुनि गण मांही जे स्थाना, तथा बाहिर ते अलखाना ।

बिहूने पिण गणना जाणो, अवगुण बोलसर पचखाणो ।

साथे नही लीजावणा, ते पिणके पचखाण ।

मन फटे जिम नही बोलनो स कांडे, यह स्वामनी वाण !

लिखत पै तालीसा मांही । स्वाम० ॥ ४ ॥

माना लिख जाचि गण सांही, बाहिर ते ले जाणा नाही ।  
 खेलांसें पिण नहीं रहयो, लिखत गुणसठे दूम बैणो ।  
 उगणीसै पन्द्रह समय, कार्तिक पुनम पेख ।  
 पै सठ ठाणा लाडलां स कांडी, जयजश हर्ष विशेष ।  
 परम सम्यत गणपति पाई । स्वाम० ॥ ५ ॥

### श्री भिक्षु गणिराज के गुणा की ढाल ।

भेट भव चरण ले शरण भिक्षु तथा सरणरा डरक  
 सब दूर भागे । करण जोगां तणी खबर पडियां पछे,  
 स्वाम भिक्षु तणी छाप लागे ॥ भे० ॥ १ ॥ बुद्ध के पूज्य  
 भाजन भये भरत में, पंच में काल चसराल आरे ।  
 सूत्र ने वांचिया ज्ञान में राचिया, तरण तारण भविक  
 जीव तारे ॥ भे० ॥ २ ॥ पूज्य भिक्षु तथा साध वर  
 साधवी वीर गणधर जेहवी चाल चाले । पंचमें काल  
 में चीज चौथा तणी, भागलारे मन मांय साले ॥ भे०  
 ॥ ३ ॥ पूज्य भिक्षु तणी, वीर गण धर तणी, एक श्रद्धा  
 ककु फेर नाहीं । दूसरो सोय बताय भविक जन शुद्ध  
 साधु द्रण भरत सांही ॥ भे० ॥ ४ ॥ काम करडो घणो  
 स्वाम श्रद्धा तणी । हिवडे बैसवीं दीहिलो जान भाई ।  
 हिस्मत राखजो बात विचारज्यो भर्दमी राखज्यो मन  
 सांही ॥ भे० ॥ ५ ॥

## अथ जंबू कुंवर की चौपाई ।

हिवे परभव मन में चिन्तवे, मुझ में अर्बगुण  
 अनेक । दुहृत मैं कौधा घणा, सुहृत नहीं कौधो एक  
 ॥ १ ॥ मैं राजारे घर जामोलियो, संगत कौधी खोटी ।  
 चोरी कुलच्छन सिखियो, आपिण खामी मोटी ॥ २ ॥  
 चोरी करी धन लेई पारको, ते मैं पोष्या चोर । दाह  
 दीधी पर जीव नें, बांध्या कर्म कठोर ॥ ३ ॥ इण नें  
 इतरी ऋद्ध आई मिली, पिण धुड़ सम जाणी । ते  
 छोडतां बिलख करे नहीं, एतो उत्तम प्राणी ॥ ४ ॥  
 इण नें आठ कामण इसड़ी मिली, अपच्छर नें उणिहार ।  
 त्यांनें परणीजी नें परहरे, विन भोगवियां नार ॥ ५ ॥  
 आप तरुण तरुणी घरे, वय चढती कै यारी । भर जीवन  
 में व्रत आदरे, मुक्ति रहामी दृष्टि भारी ॥ ६ ॥ इसड़ी मानव  
 इण जगत में, मैं तो नयणा न दौठो । सोम निजर  
 शीतल अङ्ग कै मुझ लागि कै मीठो ॥ ७ ॥ हूं जाण तो  
 मुख मो नें घणा । पिण तृण सम जाणूं । अनोपम एक  
 धर्म विना जीवतव्य अप्रभाणूं ॥ ८ ॥ जंबू कुमर तथा  
 मुख देखतां, महारां मुख अल्पमात । ए इसड़ी मुख  
 छोडी निसरे, आ अचरज वाली बात ॥ ९ ॥ मोनें  
 पिण इणरो वैराग देखनें, खागे सागे संसार । जंबू

कुंवर साथे लगूँ, लेवूँ संजम भार ॥ १० ॥ घो साह  
जिम संयम आदरे, हूँ पिण इयरी लार । काम भोग  
सर्व छोड नें कर देवूँ खेवो पार ॥ ११ ॥

### \* टाल २ \*

हूँ जंबू कुंवर ना. वचन सुणी नें, चन्तरङ्ग माही  
भिनेरे । सुत्त तथा सुख जाण्या अनोपम, संसार-सुखां  
सूँ विहनी रे ॥ परभव चोर चोरा नें समझावे ॥ १ ॥  
जंबू कुंवर दीख्या लेसी परभाते, तिण नें संसार लाग्यो  
कै खारो रे । हूँ पिण दीख्या लेसूँ तिण लारे, थे ठील  
म जाणो लिगारो रे ॥ पर० ॥ २ ॥ आपां. चोरी करके  
पर धन मेलियो, दाङ्ग घणा रे दीधी रे । ते धन तो  
सगला न्यातिला मिल खादो, पापरी पांती किण ही  
न लीधीरे ॥ प० ॥ ३ ॥ मोह अंध जीव हुवो मतवाली,  
त्यांने न्यातिला औठा लागेरे । अनन्त जन्म मरण दुःख  
दायक, सुणिया में जंबू कुंवर आगेरे ॥ प० ॥ ४ ॥  
ए झेलो-मित्यो ते विछड़ जासो, संसार नी काची  
मायारे । हाथ घसंता रहा न्यातिला, त्यां रोय रोय  
नयण गमायारे ॥ प० ॥ ५ ॥ नित २ उठ रोवे प्रभाते,  
याद आवै ज्यूँ फाटे छातीरे । त्यांने सुपने मांहे पिण  
मेजो न दीठो, सुख दुःखरी नही पूखी बातीरे ॥ प० ॥

६ ॥ देव गुरु धर्म रत्न तीनुई, रुडी रीत ओलखायारे ।  
बले जीवादिक पदारथ नवांरा, भीन २ भेद बतायारे  
॥ प० ॥ ७ ॥ पांच सो चोर परभव रा बचन सुणी नें,  
वैराग्य सगलारे आयारे । दीक्षा लिवारी सगला मन  
धारी, ज्ञान अपूरब पायोरे ॥ प० ॥ ८ ॥ पांच से चोर  
परभव चोर आगे, सगला बोले जोड़ी धायारे । जो थे  
जंबू कुंवर साथे घर छोडो तो, रहे पिण घर छोडां  
रहवां थारी साथोरे ॥ प० ॥ ९ ॥ थे ठाकर रहे चाकर  
हूंता, रहे रहता थां सूं भेलारे । थे चारित्र ल्खो तो  
रहे पिण लेस्यां, रहे किम चूकां एवेलारे ॥ प० ॥ १० ॥  
परभव चोर पांच से चोरां सूं, हुवा संजमनें त्यारोरे ।  
थां सुक्त तणां सुख साश्रवता जाण्या अथिर जाण्यो  
संसारो रे ॥ प० ॥ ११ ॥

## ॥ ढाल ३ जी ॥

ए आठुंई कामणी, हीखे अपच्छर नें उणिहार ।  
इणनें परणिजौ नें परहरे, ए किम काटे जमवार ॥ जंबू  
कह्यो भानरे जाया इस किम दिजे कह ॥ १ ॥  
ए दुःखणी होसी घणी जाया तो विन सारी  
दुःखणी थाय । रवि आंथमतां ज्यूं हुवे जंबू बदन कमल  
ज्यूं कुमलाय ॥ २ ॥ ए आठुंई स्त्री तेह सूं सुख भोन-



वले संसार । दिन पाछा पड़ियां पछे तू लीजे संयम  
 भार ॥ जं० ॥ ३ ॥ जी भामण सुँ भीनो रहे माता न  
 करे धर्म बिचार । पिसतावो ज्यां नें पड़े, तेयुँही हारे  
 जमवार ॥ माता तुम्हे मानलो माता लेख्युँ संजम  
 भार ॥ ४ ॥ मतहिणा जी मानवी माता, ते मिथ्या  
 मत में भरपूर । रमणी रूप में ते रमे, त्यांसु दुर्गत  
 नहीं छै दूर ॥ माता० ॥ ५ ॥ ए आठुँई स्त्री त्यांने  
 समझार्ई में द्रुण रात । त्यां श्री जिन धर्म नें ओलख्यो  
 दीजा लेसी मुझ साथ ॥ माता० ॥ ६ ॥ तूँ मुझ आंधा  
 लाकड़ी जाया तूँ मुझ जीवण प्राण । तुझ बिन  
 जग सुनो अछे तूँ भाय जाण म जाण ॥ जं० ॥ ७ ॥ तोने  
 पाल पोष मोटो कियो त्यांने द्रुम किम दीजे छेह ।  
 हिवे माता पिता मेले रोवता, त्यांरी दया न आणे  
 तेह ॥ जं० ॥ ८ ॥ एक लोटो पाणी पिजं त्यांमें मात पिता  
 छै अनन्त । हिवे दया सगलारी पालसुं सारां आत्म  
 सम गीणंत ॥ माता० ॥ ९ ॥ प्रवास री विप्रवास मोनें  
 नहीं माता खिण मांही रङ्ग विरङ्ग । तो रती किम  
 पामुँ संसार में माता तिण सुँ गयो मन भंग ॥ माता०  
 ॥ १० ॥ हिवे मोह न कीजे माताजी मांहरो माता  
 मोह सुँ वंधे पाप कर्म । थे आड डोड में क्युँ पड़ो  
 थे पिण पालो साधुरो धर्म ॥ सा० ॥ ११ ॥ साध

पणो सुध पालस्यां माता कटे छे कर्मारा जाल ।  
 शिव रमणी बेगी बरे वलि मिट जावे सर्व जंजाल  
 सा० ॥ १२ ॥ ए काचो सगपण छे संसार नो माता,  
 काचो स्नेह छ एह । मो साथे ही संजम आदरो करो  
 अविचल धर्म स्नेह ॥ मा० ॥ १३ ॥

## ॥ दोहा ॥

मात पिता जंबू कुंवरना, सांभलियो जिनवर धर्म सार  
 बैरग आयो घट भींतरे, जाण्यो अथिर संसार ॥ १ ॥  
 मोरो जंबू कुंवर दीख्या लिये, म्हे पिण लीस्यां  
 लार । काल कितोएक जीवणो, हिव कर देवां खेवो  
 पार ॥ २ ॥ इम हिज आठ स्त्री तणा, मात पिता  
 तिणवार । पुत्री जंबू दीख्या लिए, म्हे पिण लीस्यां  
 संजम भार ॥ ३ ॥ आठ स्त्रीनें जंबू कुंवर ना, मा बाप  
 सहित सतावीस । वलि पांच सो चोरनें परभव, ए पांच  
 सो अठाईस ॥ ४ ॥ ए पांच सो अठावीस तणा, किया  
 दीख्या महोक्व-पुर । धन खरचे तिहां अतिघणो वाजं-  
 च वाज, रह्या रणतूर ॥ ५ ॥ आय उभा सुधर्मा  
 स्वामी कन्हे, हिवे बोले जोड़ी हाथ । काठो जन्म मरण  
 री लाय थी, दीक्षा दो स्वामी नाथ ॥ ६ ॥ पांच सो  
 अठाईस जणाने, दीक्षा दी तिण ठाम । आचोर सिखाथ  
 परिपक किया, त्यां सगलां-रा शुद्ध परिणाम ॥ ७ ॥

\* ढाल ४ \*

जंबू कुमार चारित्र लियो, पांच सौ नें सतावौस  
 लार हो । मुणिन्दा । त्यां सिंह जिम संजम आदखो,  
 ते पाले छै निरतीचारहो मु० धन्य धन्य जंबू स्वाम  
 नें ॥ १ ॥ एक जंबू कुँवर नं समझावियां, हुओ घणो  
 उपगार हो मु० हुइ बधोतर जिन धर्म रौ, बले हुवो  
 घणारो उपगार हो मु० ॥ धन्य० ॥ २ ॥ किण ही भारी  
 कर्मा नें संजम दियां, हुवे घणारो विगाड़ हो मु०  
 बलै हिला निन्दा हुवे जिन धर्मरौ, घणारे बधे अनन्त  
 संसार हो मु० ॥ ३ ॥ पांच से चोरां नें प्रति बोधिया,  
 ते हुंता प्रकृत रा फणिन्द हो मु० त्यांनै समझाय नें  
 मारग आणिया, ते पिण पाम्या परमान्द हो मु० ॥ ४ ॥  
 कीई काछ लपटी कुशीलिया, ते हुंता धाडा फाड़ हो  
 मु० त्यांनै उपदेश देई ठाय आणिया, किया मोटै,  
 अणगार हो मु० ॥ ५ ॥ चोर हुंता सगलाई पापीया,  
 ते करता अनेक अकाज हो मु० त्यांनै सगला नें धर्म  
 पमाय नें, दियो मुक्त पुरीनो राज हो मु० ॥ ६ ॥ भग-  
 वत श्रीवड्मानजी, पाटवी सुधर्म स्वाम हो मु० त्यां  
 सुधर्म स्वाम रा पाटवी, जंबू स्वामी त्यांरो नाम हो  
 मु० ॥ ७ ॥ गंध हस्तीनी त्यांनै श्रीपमां, पुरुषां मांही

सिंह समान हो मु० त्यां सिंह जिम संजम आदख्यो,  
 सिंह जिम पाल्यो चारित्र निधान हो मु० ॥ ८ ॥ बाल  
 ब्रह्मचारी थेटरा, जिन शासण रा शृङ्गार हो मु० तीजे  
 पाठ भगवान रे हुआ, घणा साधारा सिरदार हो मु०  
 ॥ ९ ॥ चार तीर्थ मांही दीपता, त्यांरी सोम निजर  
 शीतल अंग हो मु० सूरज ज्युं तप तेज आकरो, चन्द्र  
 कला ज्युं चढते रङ्ग हो मु० ॥ १० ॥ गुण त्यांमें कै  
 अतिघणा, समुद्र जेम अथाय हो मु० कीड़ जिह्वा कर  
 वर्ण वे, तोही पूरा कछ्या नहीं जाय हो मु० ॥ ११ ॥  
 बले गमता लागे तीर्थ में, तिण दीठां पामें आणन्द हो  
 मु० त्यांरी बाणौ अमृत सारणी, सुणवा आवे नरनार  
 हो मु० ॥ १२ ॥ त्यांने धर्म कथा निरन्तर कहै, कहै  
 जीवादिक्क ना भेद हो मु० कीर्ई सुण २ आवक रा ब्रत  
 आदरे, कीर्ई चारित्र लहे आण उमेद हो मु० ॥ १३ ॥  
 ते सोलह वरस घरमें रछ्या, वर्ष चौसठ चारित्र पाल  
 हो मु० तिण में वीस वर्ष कृद्दस्थ रछ्या, केवली रछ्या  
 वर्ष चमाल ही मु० ॥ १४ ॥ सर्व आऊखो असी वर्ष नो  
 पाल्यो कै जंबू स्वाम हो मु० घणा जीवां नें प्रतिबोध  
 नें, पहुंता अविचल ठाम हो मु० ॥ १५ ॥ ते कुटा  
 संसार ना दुख थकी, पास्या सुख अनन्त हो मु० बले  
 जनम सरण नहीं मुक्त में, त्यांरी कदेई न आवे अन्त

हो मु० ॥ १६ ॥ और साधनें साधवी, गया छै देवलीक  
मांय हो मु० ते पिण मुक्ति सिधावसी, आठुई कर्म  
खपाय हो मु० ॥ १७ ॥ शासण श्री वृद्धमान रो, पाछो  
दोपायो जंबू स्वाम हो मु० आप तीखा औरां नें  
त्यारीया, त्यांरो लीजे नित्य प्रति नाम हो मु० ॥ १८ ॥  
शीश नमीजे नित तेहनें, बं दीजे बारुंवार हो मु०  
ज्युं कर्म कटे निर्जरा हुवे, पाने भवजल पार हो मु०  
॥ १९ ॥ जंबू स्वामी छेहला क्वली, श्रीवीरना शासण  
मभार हो मु० ते मुक्त गया आरे पांच में, त्यांरो नाम  
लिया-निस्तार हो मु० ॥ २० ॥ ए चौपी जोड़ी जंबू  
स्वामी नी जंबू पर्दना कथा रे अनुसार हो मु० द्रण में  
अधिको ओछो कह्यो हुवे, ते ज्ञानी वदे ते तंतसार  
हो मु० ॥ २१ ॥ सम्बत अठारे चालीस में, जेठ सुदी  
वारस सोमवार हो मु० चौपी पूरी कौधी विठारा मध्य  
ते समभावण नरनार हो मु० ॥ २२ ॥



